



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 13—जनवरी 19, 2007 (पौष 23, 1928)  
No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 13—JANUARY 19, 2007 (PAUSA 23, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

## [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 जनवरी 2007

सेना शाखा

सेना डाक सेवा

अस्थाई कमीशन

सं. 19, दिनांक 14 दिसम्बर 2006—सेना डाक सेवा कोर के निम्नलिखित जूनियर कमीशन अधिकारियों/अधिपत्र अधिकारियों को सेना अनुदेश 29/85 के अन्तर्गत उनके सम्मुख दर्शाई गई तिथियों से प्रभावी लेफ्टिनेंट के पद पर अस्थाई कमीशन (परिवीक्षामान) प्रदान किया जाता है उनका (परिवीक्षामान) अस्थाई कमीशन परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद संस्पुष्ट किया जाता है :--

नायब सूबेदार टी मोहन (जेसी-834361एम अब टीसी-31554ए),  
05 जुलाई 2004

नायब सूबेदार जीतेन्द्र कुमार ठाकुर (जेसी-834431ए अब टीसी-31555एच), 06 जुलाई 2004

सूबेदार कृष्णन् आसारि नटराजन (जेसी-834109एन) अब टीसी-31556एल), 05 जुलाई 2004

नायब सूबेदार दिलीप कुमार बेहेरा (जेसी-834363एक्स), अब टीसी-31557एन), 05 जुलाई 2004

सूबेदार हरिहर प्रसाद द्विवेदी (जेसी-207110एफ अब टीसी-31558डब्ल्यू), 05 जुलाई 2004

सूबेदार सेवास्टियन विन्सेन्ट सेकर (जेसी-8340.1एफ अब टीसी-31559वाई), 26 जुलाई 2004

नायब सूबेदार निर्मल चन्द्र पान्डेय (जेसी-834382एच अब टीसी-31560एन), 06 जुलाई 2004

नायब सूबेदार मनीश कुमार सक्सेना (जेसी-834434एन अब टीसी-31561डब्ल्यू), 06 जुलाई 2004

डब्ल्यू ओ हयात उल्ला खान (जेसी-8373883एन अब टीसी-31562वाई), 06 जुलाई 2004

सूबेदार शिवलाल जोशी (जेसी-219847एच अब टीसी-31563एफ),  
05 जुलाई 2004

डब्ल्यू ओ बालासुब्रामनियन सिवरामन (जेसी-8373826एम अब टीसी-31564के), 06 जुलाई 2004

टी. के. एम. पिल्लै  
अपर सचिव

## अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 20, दिनांक 15 दिसम्बर 2006--राष्ट्रपति महोदय, निम्नलिखित सहायकों को सं. मु. सेवा नियम 2001 को नियत 7(8) के अंतर्गत 24 अगस्त 2005 से 23 फरवरी 2006 तक अथवा नियमित पदाधिकारी उपलब्ध होने तक अथवा उनके सेवानिवृत्त होने तक, जो भी पहले हो अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं :--

श्री/श्रीमति

राधा जी नायर (श्रीमति)

देव राज

दुली चन्द

रघुराज सिंह

प्रेम सिंह

परमा नंद शर्मा

जी एस वर्मा

धर्म राज शर्मा

निर्मला

रमेश चन्द इसबानी

शंकर बोस

एस के कपूर

(प्राधिकार : सं. ए/47922/एस ओ/7(8)/2005/मु.प्र.अ./कार्मिक-1/57 दिनांक 29 सितम्बर 2005)

एन. मारियप्पन

उप मुख्य प्रशासन अधिकारी (प्रशा.)

## रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 21, दिनांक 20 दिसम्बर 2006--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :--

निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने दर्शाये गए दिनांक से रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा में दो वर्ष की परखावधि पर अस्थायी वैज्ञानिक 'बी' (ग्रुप 'ए') के रूप में वेतनमान रु. 8,000-275-13,500/- पर :--

| क्रम सं. | नाम                    | स्थापना          | दिनांक     |
|----------|------------------------|------------------|------------|
| 1        | 2                      | 3                | 4          |
| 1.       | श्री ककनी बलारम रेड्डी | अनुराग, हैदराबाद | 12.04.2004 |
| 2.       | श्री दिलीप कुमार दलेई  | --वही--          | 06.09.2004 |
| 3.       | श्री अमित आचार्य       | --वही--          | 22.09.2005 |

| 1   | 2                                 | 3                                 | 4          |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 4.  | श्री सोमनाथ मण्डल                 | अनुराग, हैदराबाद                  | 22.09.2005 |
| 5.  | श्री लोकेश श्रीवास्तव             | ए एस एल, हैदराबाद                 | 22.09.2005 |
| 6.  | श्री तारक नाथ दे                  | --वही--                           | 22.09.2005 |
| 7.  | श्री रामालिंगम                    | --वही--                           | 22.09.2005 |
| 8.  | श्री अंकित बंसल                   | --वही--                           | 22.09.2005 |
| 9.  | श्री थमडा वेनुगोपाल राव           | --वही--                           | 22.09.2005 |
| 10. | श्री एस बालासुब्रमण्यन            | --वही--                           | 22.09.2005 |
| 11. | कु. रिया जार्ज                    | --वही--                           | 22.09.2005 |
| 12. | श्री देबाशिश मुखर्जी              | --वही--                           | 22.09.2005 |
| 13. | श्री शिव कुमारा टी एम             | सी सी ई (आर एण्ड डी), सिकन्दराबाद | 13.06.2002 |
| 14. | श्री विनोद कुमार पोथबारा          | --वही--                           | 06.03.2003 |
| 15. | श्री आदित्य कुमार मिश्रा          | सैमिलाक, बैंगलूर                  | 22.09.2005 |
| 16. | श्री प्रशान्त कुमार               | --वही--                           | 22.09.2005 |
| 17. | श्री गजम चन्द्रशेखर               | डी एल आर एल, हैदराबाद             | 06.03.2003 |
| 18. | श्री वैकट                         | डी एम आर एल, हैदराबाद             | 22.12.2003 |
| 19. | श्री शिव सूरि चन्द्र राव भेसेट्टी | --वही--                           | 06.09.2004 |
| 20. | श्री सौविक भूयन                   | --वही--                           | 22.09.2005 |
| 21. | श्री के वंशी कृष्ण रेड्डी         | डी आर डी एल, हैदराबाद             | 03.04.2003 |
| 22. | कु. अरवा लीना राज                 | --वही--                           | 12.04.2004 |
| 23. | श्री पटूरू राजेश्वर राव           | --वही--                           | 12.04.2004 |
| 24. | श्री गणेशन एस                     | --वही--                           | 22.09.2005 |
| 25. | श्री शिवकुमार आर इनामति           | --वही--                           | 22.09.2005 |
| 26. | श्री रवीन्द्र सिंह रावत           | --वही--                           | 22.09.2005 |
| 27. | श्री वेमुला सुनन्दा बाबू          | एन एस टी एल, विशाखापट्टनम         | 12.04.2004 |

| 1   | 2                             | 3                            | 4          |
|-----|-------------------------------|------------------------------|------------|
| 28. | श्री रेगीवा अबिसेकराज आई      | एन एस टी एल,<br>विशाखापट्टनम | 12.04.2004 |
| 29. | श्री के मुरली कृष्ण           | आर सी आई,<br>हैदराबाद        | 06.03.2003 |
| 30. | श्री वरकान्तम सतीश रेड्डी     | --वही--                      | 12.04.2004 |
| 31. | श्री तनुमोय विश्वास           | --वही--                      | 22.09.2005 |
| 32. | कु. शाम्पा सरकार              | --वही--                      | 22.09.2005 |
| 33. | श्री विपुल कुमार भारती        | --वही--                      | 22.09.2005 |
| 34. | श्री अलोक कुमार               | आर सी एम ए,<br>कानपुर        | 12.04.2004 |
| 35. | श्री विकास भारद्वाज           | ए डी आर डी ई,<br>आगरा        | 18.04.2002 |
| 36. | श्री सुधाकर प्रसाद            | --वही--                      | 13.06.2002 |
| 37. | श्री भक्तवत्सल कुमार सिंह     | --वही--                      | 12.04.2004 |
| 38. | श्रीमती सी एच एन सौगंधी       | ए एफ एस बी,<br>मैसूर         | 29.12.2003 |
| 39. | श्री अमन अरोड़ा               | ए आर डी ई,<br>पुणे           | 23.09.2002 |
| 40. | श्री हिवाले सुनील भाग्यनाथ    | --वही--                      | 12.04.2004 |
| 41. | श्री धीरेन्द्र कुमार          | --वही--                      | 12.04.2004 |
| 42. | श्री सत्येन्द्र सिंह          | --वही--                      | 12.04.2004 |
| 43. | श्री दवे हिमान्शु प्रमोदकुमार | --वही--                      | 12.04.2004 |
| 44. | श्री पाटील नीलेश यशवन्तराव    | --वही--                      | 12.04.2004 |
| 45. | श्री हनुमान प्रसाद अग्रहारी   | --वही--                      | 12.04.2004 |
| 46. | श्री विजयकुमार बूदप्पनवर      | --वही--                      | 12.04.2004 |
| 47. | श्री सुवाश कुमार              | --वही--                      | 12.04.2004 |
| 48. | श्री संजय मोहन गुप्ता         | डी ए आर एल,<br>पिथौरागढ़     | 05.01.2004 |
| 49. | श्री दीपक जस्सल               | डील, देहरादून                | 06.03.2003 |
| 50. | श्री प्रमोद ढांडे             | --वही--                      | 06.03.2003 |
| 51. | श्री वेद प्रकाश सिंह          | --वही--                      | 06.03.2003 |
| 52. | श्री अभिषेक श्रीवास्तव        | --वही--                      | 06.03.2003 |

| 1   | 2                        | 3                        | 4          |
|-----|--------------------------|--------------------------|------------|
| 53. | श्री विजय कुमार          | डील, देहरादून            | 28.08.2003 |
| 54. | श्री विजय गर्ग           | --वही--                  | 12.04.2004 |
| 55. | श्री पीयूष रंजन जायसवाल  | --वही--                  | 12.04.2004 |
| 56. | श्री नरेश कुमार          | डी एल, जोधपुर            | 12.04.2004 |
| 57. | श्री अमित कुमार शर्मा    | --वही--                  | 12.04.2004 |
| 58. | श्री श्रीनिवास बुदुकुरी  | डी एल आर एल,<br>हैदराबाद | 12.04.2004 |
| 59. | डा. टीकार सचिन नारायणराव | डी आर डी ई,<br>ग्वालियर  | 29.12.2003 |
| 60. | डा. टी परिमलाजगन         | --वही--                  | 15.01.2004 |
| 61. | श्री सजी जे              | हेमरल, पुणे              | 06.03.2003 |
| 62. | श्री पंकज वर्मा          | --वही--                  | 06.03.2003 |
| 63. | श्री अभय कुमार यादव      | --वही--                  | 06.03.2003 |
| 64. | श्री एम अन्नियप्पन       | --वही--                  | 06.03.2003 |
| 65. | श्री बालेश रोपिया        | --वही--                  | 06.03.2003 |
| 66. | कु. डायाना मेरी जॉन      | --वही--                  | 05.01.2004 |
| 67. | श्री अनन्त सैकिया        | --वही--                  | 12.04.2004 |
| 68. | श्री मुन्नी नाथ मण्डा    | --वही--                  | 12.04.2004 |
| 69. | श्री कमलेश वर्मा         | आई आर डी ई,<br>देहरादून  | 18.04.2002 |
| 70. | श्री श्रीनिवास           | --वही--                  | 06.03.2003 |
| 71. | श्री निरतिन कुमार        | --वही--                  | 28.08.2003 |
| 72. | श्री कमल किशोर पन्त      | --वही--                  | 12.04.2004 |
| 73. | श्री अमित कुमार          | --वही--                  | 12.04.2004 |
| 74. | श्री साहिल शर्मा         | --वही--                  | 12.04.2004 |
| 75. | श्री पंकज श्रीवास्तव     | --वही--                  | 12.04.2004 |
| 76. | श्री प्रताप चन्द्र साहू  | आई टी आर,<br>बालासोर     | 05.01.2004 |
| 77. | श्री मधुसूदन बिश्वास     | --वही--                  | 12.04.2004 |
| 78. | श्री अभिलाष सी एस        | पी एक्स ई,<br>बालासोर    | 05.01.2004 |

| 1    | 2                                | 3                                       | 4          | 1    | 2                         | 3                           | 4          |
|------|----------------------------------|---|------------|------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| 79.  | श्री कुनाल रे                    | पी एक्स ई,<br>बालासोर                   | 12.04.2004 | 105. | श्री उत्तम महावीर मगदम    | डी एल आर एल,<br>हैदराबाद    | 22.09.2005 |
| 80.  | श्री शेष राव राठौर               | आर एण्ड डी ई<br>(ई), पुणे               | 13.06.2002 | 106. | श्री दीपांकर नाथ          | --वही--                     | 22.09.2005 |
| 81.  | श्री संजय हनमन्त भिसे            | --वही--                                 | 06.03.2003 | 107. | श्री मिथुन पालित          | डी एम आर एच,<br>हैदराबाद    | 06.03.2003 |
| 82.  | श्री त्रिनाथ बासव राजू ए         | --वही--                                 | 12.04.2004 | 108. | श्री अमित कुमार मोनी      | डी एम एस आर<br>डी ई, कानपुर | 12.04.2004 |
| 83.  | श्री गोडबोले मयूर गोपाल          | --वही--                                 | 12.04.2004 | 109. | श्री वैकटेश्वरलू चेपुरु   | डी आर डी एल,<br>हैदराबाद    | 11.07.2001 |
| 84.  | श्री सत्येन्द्र कुमार विश्वकर्मा | --वही--                                 | 12.04.2004 | 110. | श्री अनिल कुमार           | --वही--                     | 13.06.2002 |
| 85.  | श्री आशीश मोहन                   | --वही--                                 | 12.04.2004 | 111. | श्री प्रनीत ए             | --वही--                     | 12.04.2004 |
| 86.  | श्री रवीन्द्र तमहनकर             | --वही--                                 | 12.04.2004 | 112. | श्री अनिल कुमार गोस्वामी  | डी टी आर एल,<br>दिल्ली      | 06.03.2003 |
| 87.  | श्री दुर्लभ सिंह कोव्ल           | एस सी सी,<br>भोपाल                      | 22.12.2003 | 113. | श्री दीपक कुमार मलिक      | लासटेक,<br>दिल्ली           | 11.03.2004 |
| 88.  | कु. निधि महेश्वरी                | एस सी ई,<br>इलाहाबाद                    | 28.03.2004 | 114. | कु. माधुरी यादव           | --वही--                     | 12.04.2004 |
| 89.  | श्री अमित कुमार साध              | स्पिक,<br>नई दिल्ली                     | 12.04.2004 | 115. | कु. अलीना शशिकुमार        | एल आर डी ई,<br>बैंगलूर      | 06.03.2003 |
| 90.  | श्री दीपक कुमार मोहन्ती          | एस एस पी एल,<br>दिल्ली                  | 06.03.2003 | 116. | श्री दया लामा             | एन एम आर एल,<br>अम्बेरनाथ   | 23.09.2002 |
| 91.  | श्री नरेश चन्द्र पटनायक          | अनुराग,<br>हैदराबाद                     | 06.03.2003 | 117. | श्री शिव कुमार            | एन पी ओ एल,<br>कोच्ची       | 23.09.2002 |
| 92.  | श्री करेल्ला गणेश बाबू           | ए आर डी ई,<br>पुणे                      | 13.06.2002 | 118. | श्री जमेश के जोणी         | --वही--                     | 12.04.2004 |
| 93.  | श्री जी बी शुभन्ध                | ए एस एल,<br>हैदराबाद                    | 06.03.2003 | 119. | श्री उन्नता लायेक         | आर सी आई,<br>हैदराबाद       | 11.07.2001 |
| 94.  | श्री शरद मनोहर गजभये             | --वही--                                 | 10.03.2003 | 120. | श्री गिरीश मिश्रा         | एस ए जी,<br>दिल्ली          | 06.03.2003 |
| 95.  | श्री शेखर कुमार सिंह             | --वही--                                 | 12.04.2004 | 121. | श्री अभिजीत कुमार सिंह    | --वही--                     | 06.03.2003 |
| 96.  | श्री रामबाबू गोवदा               | --वही--                                 | 12.04.2004 | 122. | श्री भारतेन्दू नन्दन      | --वही--                     | 06.03.2003 |
| 97.  | श्री यशपाल                       | काब्स, बैंगलूर                          | 12.04.2004 | 123. | श्री नवीन कुमार           | स्पिक,<br>नई दिल्ली         | 12.04.2004 |
| 98.  | श्री शील कुमार गुप्ता            | सी सी ई<br>(आर एण्ड डी),<br>सिकन्दराबाद | 04.12.2000 | 124. | श्री विभु शर्मा           | --वही--                     | 12.04.2004 |
| 99.  | श्री अजेज़ परवेज़ खान            | डील, देहरादून                           | 13.06.2002 | 125. | श्री अमित पटेल            | --वही--                     | 12.04.2004 |
| 100. | श्री संजय                        | --वही--                                 | 13.06.2002 | 126. | कु. प्रगति धीर            | टी बी आर एल,<br>चण्डीगढ़    | 12.04.2004 |
| 101. | श्री निशान्त कुमार               | डेसिडोक, दिल्ली                         | 12.04.2004 | 127. | श्री हरीश कुमार चक्रवर्ती | --वही--                     | 12.04.2004 |
| 102. | कु. भूपत राव छाया देवी           | डी एल आर एल,<br>हैदराबाद                | 18.04.2002 | 128. | श्री किशोर चौधरी          | वेसी,<br>नई दिल्ली          | 04.02.2002 |
| 103. | श्री योगेश टी वी                 | --वही--                                 | 13.06.2002 |      |                           |                             |            |
| 104. | श्री शीश राम                     | --वही--                                 | 22.09.2005 |      |                           |                             |            |

निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने दर्शाये गए दिनांक से रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में एक वर्ष की परखावधि पर अस्थायी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-I (ग्रुप 'ए') के रूप में वेतनमान रु. 10,000-325-15,200/- पर:--

| सं. | नाम                           | स्थापना                     | दिनांक     |
|-----|-------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1.  | श्री एस प्रकाश                | केयर, बैंगलूर               | 21.04.2003 |
| 2.  | श्री नन्द दुलाल दास           | एन पी ओ एल<br>कोच्ची        | 20.05.2004 |
| 3.  | श्री कृष्ण कुमार सोनी         | डी एम एस आर डी<br>ई, कानपूर | 06.11.2003 |
| 4.  | श्री वैकट नारायण राव<br>कडियम | एन एम आर एल<br>अम्बेरनाथ    | 22.03.2004 |
| 5.  | श्री आशीश गौड                 | इनमास, दिल्ली               | 20.01.2004 |

निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने दर्शाये गए दिनांक से रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा में दो वर्ष की परखावधि पर अस्थायी वैज्ञानिक 'बी' (ग्रुप 'ए') के रूप में वेतनमान रु. 8,000-275-13,500/- पर:--

| सं. | नाम                          | स्थापना                                | दिनांक     |
|-----|------------------------------|--|------------|
| 1   | 2                            | 3                                      | 4          |
| 1.  | श्री कल्याण कुमार सुब्बदा    | अनुराग, हैदराबाद                       | 12.04.2004 |
| 2.  | श्री स्वरनाव रे              | --वही--                                | 12.04.2004 |
| 3.  | श्री मट्टा रवीबाबू           | --वही--                                | 12.04.2004 |
| 4.  | कु. जी यशस्विनी ज्योती       | --वही--                                | 12.04.2004 |
| 5.  | श्री बाप्पादित्य जना         | ए.एस.एल, हैदराबाद                      | 06.09.2004 |
| 6.  | श्री मनोज कृष्ण मजूमदार      | --वही--                                | 06.09.2004 |
| 7.  | श्री पुष्पेन्दू चान्द        | --वही--                                | 06.09.2004 |
| 8.  | कु. एन सौम्या                | --वही--                                | 12.04.2004 |
| 9.  | श्री जी राजेश                | --वही--                                | 06.03.2003 |
| 10. | श्री राजीव कुमार             | --वही--                                | 23.09.2002 |
| 11. | श्री पी श्रीधर               | --वही--                                | 06.03.2003 |
| 12. | श्री सुरेश कुमार             | --वही--                                | 23.09.2002 |
| 13. | श्री लुक्कना वरप्रसाद        | --वही--                                | 12.04.2004 |
| 14. | श्री श्रीनिवास राव वना       | --वही--                                | 06.03.2003 |
| 15. | श्री श्रीनिवास सिस्टला       | सी.सी.ई (आर एण्ड डी),<br>सैक. हैदराबाद | 26.11.2001 |
| 16. | कु. ए लक्ष्मी वसन्ता         | डी.एल.आर.एल.<br>हैदराबाद               | 18.04.2002 |
| 17. | श्री सत्यनारायण<br>अड्डगल्ला | डी.आर.डी.एल.<br>हैदराबाद               | 06.03.2003 |

| 1   | 2                           | 3                                      | 4          |
|-----|-----------------------------|--|------------|
| 18. | श्री राज कुमार पहाडे        | डी.आर.डी.एल.<br>हैदराबाद               | 28.08.2003 |
| 19. | श्री अभिषेक कुमार           | --वही--                                | 28.08.2003 |
| 20. | श्री नागेन्द्र बाबू समिनेनी | --वही--                                | 06.03.2003 |
| 21. | श्रीमती सन्ध्या आर नायर     | --वही--                                | 23.09.2002 |
| 22. | श्री नागेश्वर राव मामिडि    | एन.एस.टी.एल.<br>विशाखापट्टनम           | 23.02.2004 |
| 23. | श्री अशोक कुमार             | --वही--                                | 06.03.2003 |
| 24. | श्री पलाश बिश्वास           | --वही--                                | 12.04.2004 |
| 25. | श्री कुशल भट्टाचार्य        | --वही--                                | 12.04.2004 |
| 26. | कु. नीलोजू रजिनी            | आर.सी.आई. हैदराबाद                     | 12.04.2004 |
| 27. | श्री पट्टा भानू श्रीनिवास   | --वही--                                | 18.04.2002 |
| 28. | श्री हनुमण्डला मधुकर        | आर.सी.आई/प्रोग्राम<br>'ए.डी.' हैदराबाद | 13.06.2002 |
| 29. | श्री के.जी. चन्द्रशेखर      | --वही--                                | 06.03.2003 |
| 30. | श्री दीपक यादव              | --वही--                                | 06.03.2003 |

पी. सारथ

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

नौसेना शाखा

सं. 22, दिनांक 18 दिसम्बर 2006.--रक्षा मंत्रालय के दिनांक 21 अगस्त 2003 के पत्र संख्या सी.पी. (पी)/7837 रिपोर्ट/टी.एस.एम./866/यू.एस./एम/पी/डी/(एन-11) के अंतर्गत भारतीय नौसेना के फोरमैन को राजपत्रित स्तर प्रदान किए जाने के फलस्वरूप, भारत के राष्ट्रपति इस अधिसूचना के परिशिष्ट '8' में निम्नलिखित फोरमैन को 21 अगस्त 2003 से ग्रुप 'बी' राजपत्रित अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं:--

1. के के विश्वेसवरा राव
2. यु दलाई
3. जे जनार्दन राव
4. के जी कृष्णा राव
5. आर नरसिंग राव
6. के एन के राव
7. जी नागेश्वरा राव
8. सी एच वैक्टेवरा राव
9. एम के प्रेमानन्धम
10. सी एच सरत बाबू
11. एन अप्पा राव
12. एन वी मन्कर

13. बां पी रंगा राव
14. एम आर कृष्णा राव
15. आर ए पिल्लई
16. ए के साहू
17. ए अय्यालु
18. एम नटराजन
19. एस साहू
20. एम सुभाष
21. पी सी सरकार
22. टी एसवरा राव
23. एस बी रमणा
24. बी सुदर्शन राव
25. पी आर पोतुला
26. के कृष्णा मुर्थी
27. जी वी सुभंय
28. जे के चक्रवर्ती
29. ए वी ए मरार
30. पी लक्ष्मण राव
31. वाई सूर्यनारायणा
32. जी त्रिनाथ राव
33. काकी अप्पा राव
34. वी अपाला राजू
35. बी वी एस आनन्द
36. के पी सुघथान
37. वाई एम एम नरसिंगा राव
38. बी सुरी बाबू
39. के जोन डेविड राजू
40. एम सुरी बाबू
41. एम आदिनारायणन
42. जी जोसफ
43. पी ए अच्छरी
44. एम घोष
45. एस सुराप्पाडू
46. ए सी एच अप्पा राव

47. के जे भाष्कर राव
48. सी एच सुब्बा राव
49. एस बूची बाबू
50. एन एच के पी राव
51. एन बी एस प्रभाकर राव
52. बी वी प्रसादा राव
53. एस जी मोहीदिन
54. पी भाष्कर राव
55. जी वी आर कुमार
56. वाई लोहिथासुडु
57. एम जी सुन्दरम
58. पी अप्पा राव
59. जी सत्यानारायणा

वी. राजगोपालन  
निदेशक

#### राष्ट्रीय कैडेट कोर

सं. 23, दिनांक 19 दिसम्बर 2006--राष्ट्रपति, एन. सी. सी.-11871 मेजर (सेवानिवृत्त) आर.पी. लाम्बा को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से राष्ट्रीय कैडेट कोर में लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक प्रदान करते हैं :-

| क्र. सं. | एन सी सी नं., रैंक, नाम तथा निदेशालय   | दिया गया रैंक | रैंक प्रदान करने की तारीख |
|----------|--|---------------|---------------------------|
| 1.       | एन.सी.सी./पी.सी./11871 मेजर आर. पी. लाम्बा<br>2 महाराष्ट्र बटालियन एन.सी.सी., सेनापति बापत पथ, पुणे-411004 | ले. कर्नल     | 01 नवम्बर 1993            |

यू. के. धर  
ब्रिगेडियर

उप महानिदेशक (एमएस)

सं. 24, दिनांक 14 दिसम्बर 2006--राष्ट्रपति, भारतीय लागत और लेखा सेवा (89) के अधिकारी और रक्षा मंत्रालय में निदेशक श्री के. शेषैय्य का समयपूर्व प्रत्यावर्तन होने तथा उनकी प्रतिनियुक्ति के आधार पर अपर वित्त और लेखा नियंत्रक (फै.) के पद पर नियुक्ति हो जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं 1.12.2006 (पूर्वाह्न) से प्रधान नियंत्रक लेखा (फै.) संगठन, कोलकाता के अंतर्गत वित्त एवं लेखा नियंत्रक कार्यालय (फै.), मेढक को सौंपी जाती हैं।

रक्षा मंत्री का कार्यभार छोड़ने तथा तत्पश्चात् 25 अक्टूबर, 2006 से उनके विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के फलस्वरूप, राज्य सभा सचिवालय के वैयक्तिक सहायक श्री आर. गोपीनाथ, जो प्रतिनियुक्ति के आधार पर पूर्व रक्षा मंत्री के सहायक निजी सचिव थे, की समापन अवधि/अर्जित छुट्टी समाप्त होने पर उनकी सेवाएं 30.11.2006 (अपराह्न) से राज्य सभा सचिवालय को सौंपी जाती हैं।

एस. के. देब  
अवर सचिव

सं. 25, दिनांक 15 दिसम्बर 2006--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

तोपखाना रेजिमेन्ट

सबस्टैंटिव सूबेदार (जीडी) के पद में

नायब सूबेदार मोहन सिंह (जेसी-265106के), 17 अगस्त 2006/  
01 जून 2006 \*

नायब सूबेदार मुरलीधरन सी (जेसी-264260डब्ल्यू), 02 सितम्बर  
2006/01 अगस्त 2006 \*

नायब सूबेदार धुनडप्पा जंगम्मा शेड्टी (जेसी-264360एफ), 02 जुलाई  
2006/01 मार्च 2006 \*

नायब सूबेदार अशोकन टी (जेसी-265071वाई), 04 अगस्त 2006/01  
अप्रैल 2006 \*

नायब सूबेदार राम चन्द (जेसी-266639वाई), 16 फरवरी 2006/  
01 फरवरी 2006 \*

नायब सूबेदार जसवन्त सिंह (जेसी-264998एन), 15 अगस्त 2006/  
01 जून 2006 \*

नायब सूबेदार शिन्दे सर्जेराव शामराव (जेसी-265838ए), 08 अगस्त  
2006/01 जून 2006 \*

नायब सूबेदार सतविन्दर सिंह (जेसी-265543के), 19 जुलाई 2006/  
01 जून 2006 \*

नायब सूबेदार हरी प्रसाद (जेसी-265259एन), 01 मार्च 2006/  
01 फरवरी 2006 \*

नायब सूबेदार महादेव तुकाराम जगदाले (जेसी-263790वाई),  
01 अप्रैल 2006/01 जनवरी 2006 \*

नायब सूबेदार गुरमीत सिंह (जेसी-264067के), 10 अप्रैल 2006/01  
जनवरी 2006 \*

नायब सूबेदार निशान सिंह (जेसी-264949एल), 25 अगस्त 2006/  
01 जून 2006 \*

नायब सूबेदार चन्द्रप्पा डी जी (जेसी-264567पी), 27 फरवरी 2006/  
01 फरवरी 2006 \*

नायब सूबेदार मेहगा सिंह (जेसी-265396एम), 28 जून 2006/  
01 जून 2006 \*

नायब सूबेदार एस वरूथाराजन (जेसी-264883ए), 18 जून 2006/  
01 अप्रैल 2006 \*

नायब सूबेदार सोमप्पा मादर (जेसी-264250एम), 08 जून 2006/  
01 फरवरी 2006 \*

नायब सूबेदार चन्द्र शेखर सिंह (जेसी-266320डब्ल्यू), 03 अक्टूबर  
2006/01 सितम्बर 2006 \*

नायब सूबेदार नारद राम कुशावाहा (जेसी-264578एन), 28 अप्रैल  
2006/01 फरवरी 2006 \*

नायब सूबेदार रणजीत सिंह (जेसी-263598पी), 06 जून 2006/  
01 मार्च 2006 \*

नायब सूबेदार उजागर सिंह (जेसी-262940एक्स), 21 मार्च 2006/  
01 जनवरी 2006 \*

नायब सूबेदार बजीर सिंह (जेसी-265410एम), 09 अगस्त 2006/  
01 मार्च 2006 \*

नायब सूबेदार प्रसन्ना कुमार साहू (जेसी-265703वाई), 13 अगस्त  
2006/01 जून 2006 \*

नायब सूबेदार महावीर शर्मा (जेसी-265704एफ), 13 अगस्त 2006/  
01 जून 2006 \*

नायब सूबेदार रूप चन्द (जेसी-263298एन), 26 अप्रैल 2006/  
01 जनवरी 2006 \*

नायब सूबेदार कन्हैया लाल यादव (जेसी-264429ए), 09 मई 2006/  
01 फरवरी 2006 \*

नायब सूबेदार भावरथ प्रसाद (जेसी-264686एक्स), 20 जुलाई  
2006/01 मार्च 2006 \*

नायब सूबेदार आई चार्लिस (जेसी-265102एन), 22 मई 2006/  
04 सितम्बर 2006 \*

नायब सूबेदार देवराज किरन (जेसी-262227ए), 22 फरवरी 2006/  
01 फरवरी 2006 \*

नायब सूबेदार गुरबक्श सिंह (जेसी-266238के), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार गोपाल अजबराव ठाकरे (जेसी-265011के), 10 अप्रैल  
2006/01 अप्रैल 2006 \*

नायब सूबेदार स्वर्ण सिंह (जेसी-265331वाई), 01 जून 2006

नायब सूबेदार विनोद कुमार सिंह (जेसी-263895एच), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार लेखराज (जेसी-264976पी), 01 अगस्त 2006

नायब सूबेदार सुन्दरन टी एन (जेसी-265725एक्स), 17 मई 2006/  
20 अप्रैल 2006 \*

नायब सूबेदार महेश्वर साहू (जेसी-266416एफ), 02 मई 2006/  
01 अप्रैल 2006 \*

नायब सूबेदार देसाई बसावराज अन्नाप्पा (जेसी-263401एन), 03 मई 2006/01 जनवरी 2006\*

नायब सूबेदार भीम राम (जेसी-264503डब्ल्यू), 02 अप्रैल 2006/01 फरवरी 2006\*

नायब सूबेदार राजेन्द्र मिश्रा (जेसी-264090एक्स), 13 नवम्बर 2005/01 नवम्बर 2005\*

नायब सूबेदार रविन्द्र नाथ सिंधा (जेसी-265425डब्ल्यू), 28 जून 2006/01 जून 2006\*

नायब सूबेदार दिलीप कुमार (जेसी-264318एच), 17 मार्च 2006/01 जनवरी 2006\*

नायब सूबेदार सेलवाम एस (जेसी-262926एल), 22 अप्रैल 2005/01 मार्च 2005\*

नायब सूबेदार नर सिंह (जेसी-265600ए), 04 जून 2005/28 फरवरी 2005\*

नायब सूबेदार दामोदर (जेसी-263978एन), 01 जुलाई 2005/24 दिसम्बर 2004\*

नायब सूबेदार यल्लाप्पा कामाताणी (जेसी-264242एन), 26 जून 2005/01 फरवरी 2005\*

नायब सूबेदार राम लाल (जेसी-264821ए), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार मारकन्डेय राय (जेसी-264543एक्स), 02 जुलाई 2005/01 जून 2005\*

नायब सूबेदार श्रीनिवास शर्मा (जेसी-264533एन), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार भूपिन्दर सिंह (जेसी-265682एन), 28 अगस्त 2005/22 फरवरी 2005\*

नायब सूबेदार मोरे गणेश खण्डू (जेसी-265830एन), 27 जून 2005/28 फरवरी 2005\*

नायब सूबेदार श्याम नाथ उपाध्याय (जेसी-263250ए), 03 मार्च 2005/01 मार्च 2005\*

नायब सूबेदार स्वरूप सिंह (जेसी-264165के), 23 अप्रैल 2005/24 मार्च 2005\*

नायब सूबेदार महा सिंह (जेसी-262995एफ), 05 मई 2005/01 अप्रैल 2005\*

नायब सूबेदार विश्व नाथ (जेसी-264935एल), 04 मई 2005/01 अप्रैल 2005\*

नायब सूबेदार अजित सिंह (जेसी-265185के), 28 मई 2005/01 मई 2005\*

नायब सूबेदार एन्टोमी एल (जेसी-265655के), 17 सितम्बर 2005/01 जुलाई 2005\*

नायब सूबेदार कल्याण सिंह (जेसी-266037एल), 07 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005\*

नायब सूबेदार जगदीश चन्दर (जेसी-263831एक्स), 16 मई 2005/01 सितम्बर 2004\*

नायब सूबेदार माली प्रकाश निवृत्ती (जेसी-264425के), 11 नवम्बर 2005/01 जून 2005\*

नायब सूबेदार हरीनारायनन वी (जेसी-266346एन), 14 नवम्बर 2005/02 सितम्बर 2005\*

नायब सूबेदार राजाप्पन सी आर (जेसी-265278वाई), 17 नवम्बर 2005/01 अगस्त 2005\*

नायब सूबेदार जेम्स कुट्टी डी (जेसी-266405पी), 24 नवम्बर 2005/01 अगस्त 2005\*

नायब सूबेदार जतिन्दर कुमार (जेसी-264463ए), 14 अक्टूबर 2005/01 जून 2005\*

नायब सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जेसी-262844एच), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-266205वाई), 10 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार शिव ब्रत सिंह (जेसी-264448एल), 23 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005\*

नायब सूबेदार बलजीत सिंह (जेसी-265652डब्ल्यू), 05 अक्टूबर 2005/01 अक्टूबर 2005\*

नायब सूबेदार बिक्रम सिंह (जेसी-265139पी), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार हिरा लाल पटेल (जेसी-261318एक्स), 06 मार्च 2006/01 जनवरी 2006\*

नायब सूबेदार सतपाल सिंह (जेसी-264296पी), 05 अप्रैल 2006/01 फरवरी 2006\*

नायब सूबेदार सुरेन्द्र बहादुर सिंह (जेसी-264522एफ), 12 मार्च 2006/01 फरवरी 2006\*

नायब सूबेदार बस राम जाट (जेसी-264475पी), 03 जून 2006/01 फरवरी 2006\*

नायब सूबेदार टुनटुन मिश्रा (जेसी-264907वाई), 27 मई 2006/01 फरवरी 2006\*

नायब सूबेदार सभाकान्त शर्मा (जेसी-264741एच), 26 जून 2006/01 मार्च 2006\*

नायब सूबेदार सतविन्दर सिंह (जेसी-264776वाई), 23 जुलाई 2006/01 मार्च 2006\*

नायब सूबेदार देव राज (जेसी-265832वाई), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार चन्दर कुमार (जेसी-266115एक्स), 03 जून 2006/22 मार्च 2006\*

नायब सूबेदार बहादुर सिंह (जेसी-266147ए), 23 मई 2006/22 मार्च 2006\*



नायब सूबेदार श्री चन्द सिंह (जेसी-266326ए), 14 जुलाई 2006/  
20 अप्रैल 2006×

नायब सूबेदार के. पांडुरंगन (जेसी-265256ए), 19 अगस्त 2006/  
01 जून 2006×

नायब सूबेदार राम विलास (जेसी-265107एम), 17 अगस्त 2006/  
01 जून 2006×

नायब सूबेदार राम स्वरूप (जेसी-265896के), 14 जुलाई 2006/  
12 जून 2006×

नायब सूबेदार जसपाल सिंह (जेसी-265332एफ), 23 अगस्त 2006/  
01 जुलाई 2006×

नायब सूबेदार ईश्वर (जेसी-265497ए), 21 अगस्त 2006/01 जुलाई  
2006×

नायब सूबेदार मुस्तकिम मियाँ (जेसी-265659ए), 13 सितम्बर  
2006/01 जुलाई 2006×

नायब सूबेदार प्रभु दास डी (जेसी-266791एम), 07 सितम्बर  
2006/07 अगस्त 2006×

नायब सूबेदार ब्रह्म प्रकाश यादव (जेसी-267246पी), 03 अक्टूबर  
2006/18 अगस्त 2006×

नायब सूबेदार रमेश चन्द (जेसी-265336एक्स), 07 अक्टूबर  
2006/01 सितम्बर 2006×

नायब सूबेदार शेर सिंह (जेसी-266236वाई), 04 अक्टूबर 2006/01  
सितम्बर 2006×

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-263816एच), 30 मार्च 2006/01  
जनवरी 2006×

नायब सूबेदार विजय कान्त चतुर्वेदी (जेसी-267325के), 19 सितम्बर  
2006/02 अगस्त 2006×

नायब सूबेदार बीरपाल सिंह चाक्षर (जेसी-265894वाई), 08 जुलाई  
2006/01 अप्रैल 2006×

नायब सूबेदार शीश राम (जेसी-263317एन), 01 जून 2004

नायब सूबेदार नवले भास्कर जीजाबा (जेसी-264059एल), 03  
अप्रैल 2004/01 अप्रैल 2004×

नायब सूबेदार गोलाप चन्द्रा नाथ (जेसी-265299पी), 06 सितम्बर  
2005/01 अप्रैल 2005×

नायब सूबेदार सोमा शेखरन नायर (जेसी-265418ए), 01 नवम्बर  
2005/01 सितम्बर 2005×

नायब सूबेदार सिताराम नाई (जेसी-264347एक्स), 11 अक्टूबर  
2004/01 अक्टूबर 2004×

नायब सूबेदार इन्द्र प्रसाद (जेसी-260887वाई), 10 अक्टूबर 2005/  
05 अगस्त 2005×

नायब सूबेदार कृष्ण चन्द्रा महतोन (जेसी-265939एन), 07 अक्टूबर  
2005/05 अगस्त 2005×

नायब सूबेदार तपन कुमार दास (जेसी-264286एल), 02 अप्रैल  
2005/01 अप्रैल 2005×

नायब सूबेदार बाबू लाल (जेसी-262800एल), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार दर्शन सिंह (जेसी-263894ए), 14 नवम्बर 2004/  
01 नवम्बर 2004×

नायब सूबेदार गंगा राम (जेसी-265309ए), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार हवा सिंह (जेसी-264525पी), 07 जुलाई 2004/  
29 फरवरी 2004×

नायब सूबेदार मच्छाय्या पी एस (जेसी-266337एम), 11 जून 2005/  
28 मई 2005×

नायब सूबेदार राम पाल (जेसी-263326पी), 09 जून 2004/01 जून  
2004×

नायब सूबेदार दया राम सिंह (जेसी-265392डब्ल्यू), 14 मार्च  
2005/01 फरवरी 2005×

नायब सूबेदार भवन सिंह (जेसी-264908एफ), 19 मार्च 2005/06  
फरवरी 2005×

नायब सूबेदार सुभाष चन्द्र दास (जेसी-265645ए), 15 मई 2005/  
01 फरवरी 2005×

नायब सूबेदार सतनाम सिंह (जेसी-264202एम), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार पी मनोहरन (जेसी-264206एच), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार देव नन्दन तिवारी (जेसी-265199के), 30 सितम्बर  
2006/01 जून 2006×

नायब सूबेदार दलबीर सिंह (जेसी-264579डब्ल्यू), 16 मई 2006/  
01 फरवरी 2006×

नायब सूबेदार हुबलाल तिवारी (जेसी-266884एफ), 07 अक्टूबर  
2006/31 अगस्त 2006×

नायब सूबेदार खानाद्रा प्रवीण कुमार वेलाजीभाई (जेसी-263695एम),  
24 मार्च 2006/01 फरवरी 2006×

नायब सूबेदार चन्देश्वर प्रसाद (जेसी-263624एल), 31 मई 2006/  
01 मार्च 2006×

नायब सूबेदार दर्शन सिंह (जेसी-265795डब्ल्यू), 03 अगस्त 2006/  
01 अगस्त 2006×

नायब सूबेदार शिन्दे अंबादास एकनाथ (जेसी-265137के),  
01 अगस्त 2006/01 जून 2006×

नायब सूबेदार बलजीन्दर कुमार (जेसी-264048वाई), 17 मार्च  
2006/01 जनवरी 2006×

नायब सूबेदार सथ्या नारायनन एस (जेसी-266211एम), 01 अप्रैल  
2006

नायब सूबेदार रतन चन्द राना (जेसी-266317वाई), 01 अगस्त 2006

नायब सूबेदार बलवन्त सिंह राना (जेसी-266877एल), 05 अक्टूबर 2006/28 अगस्त 2006\*

नायब सूबेदार राम किशोर (जेसी-265811एच), 26 जून 2006/25 मार्च 2006\*

नायब सूबेदार रामपाल सिंह (जेसी-266419पी), 19 सितम्बर 2006/01 जून 2006\*

नायब सूबेदार अत्तर सिंह (जेसी-264805एच), 20 जुलाई 2006/01 अप्रैल 2006\*

नायब सूबेदार राम भज (जेसी-262131एक्स), 02 सितम्बर 2005/01 जून 2005\*

नायब सूबेदार जोगिन्दर पाल बारवाल (जेसी-260820ए), 07 जुलाई 2005/02 अप्रैल 2005\*

नायब सूबेदार श्री प्रसाद मोहन्ता (जेसी-261994एम), 15 अक्टूबर 2004/03 अगस्त 2004\*

नायब सूबेदार दलजीत सिंह (जेसी-264084के), 29 मार्च 2004/20 फरवरी 2004\*

नायब सूबेदार थकू राम बासूमात्रेय (जेसी-260070एम), 18 अप्रैल 2005/01 सितम्बर 2004\*

\*(नोशनल सीनियरिटी)

नायब सूबेदार तरसेम सिंह (जेसी-265719के), 01 सितम्बर 2005/01 अगस्त 2005\*

नायब सूबेदार गुरदीप सिंह (जेसी-265081एच), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार मोहिन्दर सिंह राना (जेसी-265744एच), 07 जुलाई 2005/01 फरवरी 2005\*

नायब सूबेदार राम अवतार यादव (जेसी-264874वाई), 03 नवम्बर 2005/10 अगस्त 2005\*

नायब सूबेदार कुलवन्त सिंह (जेसी-265131एच), 14 मार्च 2005/01 मार्च 2005\*

नायब सूबेदार विजय पाल (जेसी-265131एच), 18 जुलाई 2005/24 मार्च 2005\*

नायब सूबेदार सन्तोष कुमार चतुर्वेदी (जेसी-265284एम), 02 मई 2005/01 मई 2005\*

नायब सूबेदार अजय पाल सिंह (जेसी-264640पी), 24 अप्रैल 2005/01 मार्च 2005\*

नायब सूबेदार नरेन्दर सिंह (जेसी-261222पी), 28 मार्च 2005/01 मार्च 2005\*

नायब सूबेदार सालीग राम चौबे (जेसी-263795एक्स), 04 फरवरी 2005/01 फरवरी 2005\*

नायब सूबेदार बृज मोहन शर्मा (जेसी-265778डब्ल्यू), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार चुन्नीलाल शर्मा (जेसी-265300वाई), 23 सितम्बर 2006/01 जून 2006\*

नायब सूबेदार विशालन (जेसी-265468एल), 27 जून 2006/07 अप्रैल 2006\*

नायब सूबेदार निशान सिंह (जेसी-266378डब्ल्यू), 10 जून 2006/26 अप्रैल 2006\*

नायब सूबेदार राम अवतार (जेसी-265128एच), 03 अगस्त 2006/01 जून 2006\*

नायब सूबेदार डी बेनाडायेट लॉरेन्स (जेसी-262779एन), 15 जुलाई 2006/01 जनवरी 2006\*

नायब सूबेदार ए मोथय्या (जेसी-264490के), 03 जून 2006/01 फरवरी 2006\*

नायब सूबेदार मोदूला योगी रेड्डी (जेसी-266040एन), 17 जून 2005/01 मार्च 2005\*

नायब सूबेदार रामचन्द्रन पी एम (जेसी-264835ए), 29 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005\*

नायब सूबेदार गुरू सामी (जेसी-266526डब्ल्यू), 17 जून 2005/01 मार्च 2005\*

नायब सूबेदार बहादुर सिंह (जेसी-264335एच), 19 अक्टूबर 2005/13 जुलाई 2005\*

नायब सूबेदार बोध राज (जेसी-263921वाई), 26 मई 2005/01 फरवरी 2005\*

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-263736एल), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार नागेश सिंह (जेसी-265080ए), 16 मार्च 2005/01 मार्च 2005\*

नायब सूबेदार लक्ष्मण सिंह (जेसी-264730डब्ल्यू), 18 फरवरी 2005/01 फरवरी 2005\*

नायब सूबेदार राजेन्द्रन पिल्ले (जेसी-265646एन), 16 मई 2005/01 फरवरी 2005\*

नायब सूबेदार राम सिंह (जेसी-262652एल), 17 जून 2005/01 मई 2005\*

नायब सूबेदार इन्दर सिंह (जेसी-264389के), 20 जून 2005/01 मई 2005\*

नायब सूबेदार किरन पाल (जेसी-264829एम), 24 मार्च 2006/01 जनवरी 2006\*

नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद राम (जेसी-264865के), 12 मार्च 2006/01 जनवरी 2006\*

नायब सूबेदार राम प्रताप यादव (जेसी-264617एफ), 28 जून 2006/01 अप्रैल 2006\*

नायब सूबेदार मोहिन्दर सिंह (जेसी-265933एम), 14 फरवरी 2006/01 दिसम्बर 2005\*

नायब सूबेदार धनपत सिंह (जेसी-267089एन), 23 सितम्बर 2006/01 अगस्त 2006\*

नायब सूबेदार कान्हू चरन दास (जेसी-264704पी), 24 जुलाई 2006/  
01 अप्रैल 2006 \*

नायब सूबेदार जरनैल सिंह (जेसी-265304पी), 27 अगस्त 2006/  
01 जून 2006 \*

नायब सूबेदार अमर नाथ सिंह (जेसी-266015एम), 13 मार्च 2006/  
01 मार्च 2006 \*

नायब सूबेदार अभय सिंह (जेसी-264371एन), 21 मई 2006/  
01 फरवरी 2006 \*

नायब सूबेदार निर्मल सिंह (जेसी-266141वाई), 01 अगस्त 2006

नायब सूबेदार जी जगनाथन (जेसी-265076एक्स), 19 अगस्त  
2006/01 जून 2006 \*

नायब सूबेदार मदन लाल (जेसी-265916एम), 08 मई 2006/  
01 अप्रैल 2006 \*

नायब सूबेदार गुलझारी लाल (जेसी-266309ए), 30 मई 2006/  
01 अप्रैल 2006 \*

नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह (जेसी-264746एफ), 05 जून 2006/  
01 मार्च 2006 \*

नायब सूबेदार श्रवन कुमार (जेसी-266546के), 02 अक्टूबर 2006/  
21 अगस्त 2006 \*

नायब सूबेदार तुन बहादुर क्षेत्री (जेसी-265206पी), 09 अगस्त  
2006/01 जून 2006 \*

नायब सूबेदार उन्नी कृष्णन नायर एम आर (जेसी-265991डब्ल्यू),  
18 नवम्बर 2005/01 नवम्बर 2005 \*

नायब सूबेदार बसवन्तप्पा करनवी (जेसी-264346पी), 09 मार्च  
2006/01 जनवरी 2006 \*

नायब सूबेदार युसुफ अली शेख (जेसी-264905एन), 05 जून 2006/  
01 मार्च 2006 \*

नायब सूबेदार शीश राम (जेसी-265731एल), 28 अगस्त 2006/  
02 जुलाई 2006 \*

नायब सूबेदार फुल सिंह यादव (जेसी-264255एल), 12 मई 2006/  
20 फरवरी 2006 \*

नायब सूबेदार दिनेश मिश्रा (जेसी-264492पी), 27 जून 2006/  
01 फरवरी 2006 \*

नायब सूबेदार रमेश कुमार (जेसी-265807ए), 07 मार्च 2006/  
01 मार्च 2006 \*

नायब सूबेदार रविन्द्रन नायर सी आर (जेसी-264992एम), 01 मई  
2006/01 फरवरी 2006 \*

नायब सूबेदार भूर सिंह जाट (जेसी-265796वाई), 23 जनवरी 2006/  
01 दिसम्बर 2005 \*

नायब सूबेदार भारत सिंह (जेसी-264955वाई), 10 फरवरी 2006/  
01 दिसम्बर 2006 \*

नायब सूबेदार सुल्तान सिंह (जेसी-266146एक्स), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार जिरागे काशीनाथ अप्पा (जेसी-262747एल), 31 मार्च  
2006/01 जनवरी 2006 \*

नायब सूबेदार खगन सिंह (जेसी-262277एल), 19 मार्च 2006/  
01 जनवरी 2006 \*

नायब सूबेदार शेर सिंह (जेसी-264472पी), 21 मई 2006/01 मार्च  
2006 \*

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-265941एल), 16 सितम्बर 2006/  
01 सितम्बर 2006 \*

नायब सूबेदार बिरजू सिंह (जेसी-266573एन), 12 सितम्बर 2006/  
02 अगस्त 2006 \*

नायब सूबेदार हवा सिंह (जेसी-264123एक्स), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार दलबीर सिंह (जेसी-264736एक्स), 12 अप्रैल 2006/  
01 फरवरी 2006 \*

नायब सूबेदार मदन पाल (जेसी-264311वाई), 02 जून 2006/  
01 फरवरी 2006 \*

नायब सूबेदार बिरेन्द्र सिंह (जेसी-265943डब्ल्यू), 02 जून 2006/  
01 मई 2006 \*

नायब सूबेदार सत्यवान खत्री (जेसी-265030पी), 31 जुलाई 2006/  
01 जून 2006 \*

नायब सूबेदार रच्छपाल चन्द (जेसी-265576पी), 26 अगस्त 2006/  
01 अगस्त 2006 \*

नायब सूबेदार मुथय्या के (जेसी-264765एम), 06 फरवरी 2006/  
01 फरवरी 2006 \*

नायब सूबेदार एन थीम्मा रेड्डी (जेसी-266495एफ), 13 अप्रैल  
2006/01 मार्च 2006 \*

नायब सूबेदार कैलास चन्द (जेसी-266925ए), 04 सितम्बर 2006/  
01 अगस्त 2006 \*

नायब सूबेदार रमानी सिन्हा (जेसी-267602के), 04 सितम्बर 2006/  
01 अगस्त 2006 \*

नायब सूबेदार राप्पया इ एल (जेसी-263687एन), 29 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार पदम सिंह (जेसी-267344पी), 03 अक्टूबर 2006/  
31 अगस्त 2006 \*

नायब सूबेदार किशोर कुमार (जेसी-263974एक्स), 29 मई 2006/  
01 जनवरी 2006 \*

नायब सूबेदार राज बहादुर यादव (जेसी-263444एच), 17 सितम्बर  
2005

नायब सूबेदार राम बहादुर यादव (जेसी-265688पी), 26 अगस्त  
2006/01 जुलाई 2006 \*

नायब सूबेदार लाला राम (जेसी-265771एम), 28 अगस्त 2006/  
01 अगस्त 2006 \*

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-266686डब्ल्यू), 28 जून 2006/  
01 अगस्त 2006 \*

नायब सूबेदार ऋषीकेश (जेसी-266983के), 15 सितम्बर 2006/01 अगस्त 2006 \*

नायब सूबेदार अवतार सिंह (जेसी-267763एम), 30 अगस्त 2006/01 अगस्त 2006 \*

नायब सूबेदार तरसेम सिंह (जेसी-264937डब्ल्यू), 12 जुलाई 2006/01 अप्रैल 2006 \*

नायब सूबेदार बलविन्दर सिंह (जेसी-265205एम), 21 जून 2006/01 जून 2006 \*

नायब सूबेदार के नागराज (जेसी-264520डब्ल्यू), 14 जुलाई 2006/01 अप्रैल 2006 \*

नायब सूबेदार अमरेन्द्र कुमार (जेसी-264770वाई), 08 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 \*

नायब सूबेदार चरनजी लाल (जेसी-264163वाई), 20 मार्च 2006/01 जनवरी 2006 \*

नायब सूबेदार इकबाल सिंह (जेसी-264104एम), 15 मार्च 2006/01 जनवरी 2006 \*

नायब सूबेदार सुधीर कान्त साहू (जेसी-265694एच), 07 दिसम्बर 2005/01 नवम्बर 2005 \*

नायब सूबेदार रामा चन्द्र सासमल (जेसी-263649एक्स), 21 फरवरी 2006

नायब सूबेदार अमुल्या कुमार घोष (जेसी-266968पी), 05 अक्टूबर 2006/25 अगस्त 2006 \*

नायब सूबेदार उमा शंकर प्रसाद (जेसी-263468एम), 01 अप्रैल 2006/01 जनवरी 2006 \*

नायब सूबेदार भोला राम जटायू (जेसी-266136एन), 11 अगस्त 2006/01 दिसम्बर 2005 \*

नायब सूबेदार के रामालिंगम (जेसी-264800के), 23 मई 2006/01 मार्च 2006 \*

नायब सूबेदार कृष्णा बनरा (जेसी-265170एफ), 14 मार्च 2006/01 मार्च 2006 \*

नायब सूबेदार रशपाल सिंह (जेसी-265698वाई), 01 अगस्त 2006

नायब सूबेदार सवाई सिंह चौहान (जेसी-266210के), 11 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 \*

नायब सूबेदार शिव सिंह जाडोन (जेसी-262880एन), 31 मई 2006/01 मार्च 2006 \*

नायब सूबेदार जितेन्द्र नाथकर (जेसी-263540एक्स), 31 मई 2006/01 मार्च 2006 \*

नायब सूबेदार सुभाष करोनी (जेसी-264709एन), 28 अप्रैल 2006/01 फरवरी 2006 \*

नायब सूबेदार बच्चितर सिंह (जेसी-264114डब्ल्यू), 11 मार्च 2006/01 जनवरी 2006 \*

नायब सूबेदार धरमवीर (जेसी-264726एन), 26 जून 2006/01 मई 2006 \*

नायब सूबेदार एम एस कृष्णा मूर्ती (जेसी-266075एफ), 07 नवम्बर 2005/01 नवम्बर 2005 \*

नायब सूबेदार काम्बले गोरख विश्वनाथ (जेसी-265067डब्ल्यू), 11 अगस्त 2006/01 जून 2006 \*

नायब सूबेदार प्रभू दयाल (जेसी-264878पी), 16 जून 2006/01 अप्रैल 2006 \*

नायब सूबेदार कृष्ण अवतार पाल (जेसी-262792एक्स), 18 मार्च 2006/01 जनवरी 2006 \*

नायब सूबेदार मनोहरन आर (जेसी-265200एन), 01 अगस्त 2006/01 जून 2006 \*

नायब सूबेदार कल्ला महालक्ष्मी (जेसी-266703एल), 10 मार्च 2006/01 मार्च 2006 \*

नायब सूबेदार बीर सिंह (जेसी-265096एल), 24 मई 2006/29 मार्च 2006 \*

नायब सूबेदार रविन्द्र कुमार (जेसी-262687एल), 12 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार रामिन्दर सिंह (जेसी-263480एन), 08 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005 \*

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-264913एम), 15 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005 \*

नायब सूबेदार भीमाप्पा खानापूरी (जेसी-265884पी), 26 नवम्बर 2005/01 सितम्बर 2005 \*

नायब सूबेदार एम फक्रुद्दीन (जेसी-266364डब्ल्यू), 14 मई 2005/01 मार्च 2005 \*

नायब सूबेदार कैलास चन्द चौधरी (जेसी-264418एन), 26 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005 \*

नायब सूबेदार के गोबिन्द राज (जेसी-264569एम), 05 सितम्बर 2005/01 अगस्त 2005 \*

नायब सूबेदार सज्जन सिंह (जेसी-265705के), 04 मई 2005/28 फरवरी 2005 \*

नायब सूबेदार जी जेसुदोस अशोकन (जेसी-266259ए), 19 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005 \*

नायब सूबेदार राम भरोस (जेसी-265812एल), 23 अगस्त 2006/01 जुलाई 2006 \*

नायब सूबेदार राजन गुरंग (जेसी-266139एफ), 16 सितम्बर 2006/10 अगस्त 2006 \*

नायब सूबेदार बलराम सिंह (जेसी-264070के), 10 दिसम्बर 2005/01 नवम्बर 2005 \*

नायब सूबेदार नरावला गोपाला कृष्णनाडू (जेसी-266369एम), 25 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006 \*

नायब सूबेदार उमेश कुमार (जेसी-264644एल), 10 जुलाई 2006/  
01 फरवरी 2006 \*

ह. अपठनीय  
ले कर्नल  
मुख्य अभिलेख अधिकारी

-----

नायब सूबेदार ओम पाल सिंह (जेसी-266162पी), 01 अगस्त 2006

नायब सूबेदार इराप्पा सिद्धप्पा दुर्गान्नपुर (जेसी-264527डब्ल्यू),  
09 अगस्त 2006/01 फरवरी 2006×

नायब सूबेदार प्रेम पाल (जेसी-267049एम), 11 अक्टूबर 2006/  
31 अगस्त 2006×

नायब सूबेदार टी कनागाराजन (जेसी-263082एम), 15 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार खितीश चन्द्र प्रधान (जेसी-26566के), 28 सितम्बर  
2006/01 जून 2006×

नायब सूबेदार पाटील संजय दादू (जेसी-266299एफ), 25 मार्च  
2006/01 मार्च 2006×

नायब सूबेदार अजीत सिंह (जेसी-264824एन), 11 मई 2006/  
01 मार्च 2006×

नायब सूबेदार संजय मिश्रा (जेसी-265657पी), 02 अगस्त 2006/  
01 जून 2006×

नायब सूबेदार पदमनाभन पी सी (जेसी-266427एन), 01 नवम्बर  
2005

नायब सूबेदार सुखराम सिंह (जेसी-264724एच), 23 जून 2006/  
01 मार्च 2006×

नायब सूबेदार नागेन्द्र कुमार यादव (जेसी-266193पी), 07 फरवरी  
2006/01 दिसम्बर 2005×

नायब सूबेदार शेर सिंह (जेसी-264660एच), 02 फरवरी 2006/  
01 फरवरी 2006×

नायब सूबेदार एस वेलमुरुगम (जेसी-264666के), 27 अप्रैल 2006/  
01 फरवरी 2006×

नायब सूबेदार थॉमस ए एम (जेसी-264696एफ), 25 मई 2006/  
01 फरवरी 2006×

नायब सूबेदार मोहन राम शाऊ (जेसी-264667एम), 15 जुलाई  
2006/01 फरवरी 2006×

नायब सूबेदार बलराम यादव (जेसी-264875एफ), 30 जुलाई 2006/  
01 अप्रैल 2006×

नायब सूबेदार सोम पाल (जेसी-265172एम), 02 दिसम्बर 2005/  
01 नवम्बर 2005×

नायब सूबेदार श्यामवीर सिंह (जेसी-265176एच), 05 दिसम्बर  
2005/01 नवम्बर 2005×

नायब सूबेदार आर रामचन्द्रन (जेसी-266004ए), 05 दिसम्बर  
2005/01 दिसम्बर 2005×

नायब सूबेदार महावीर सिंह (जेसी-266457एल), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार बलकार सिंह (जेसी-266653एल), 10 अप्रैल 2006/  
01 अप्रैल 2006×

नायब सूबेदार चान्द राम (जेसी-265277डब्ल्यू), 06 अगस्त 2006/  
01 जून 2006×

नायब सूबेदार कृष्णा पिल्ले पी सी (जेसी-264615डब्ल्यू), 02 मई  
2006/01 अप्रैल 2006×

नायब सूबेदार नरेश पाल सिंह (जेसी-265701एन), 23 नवम्बर  
2005/01 नवम्बर 2005×

नायब सूबेदार राजन पी वी (जेसी-265854वाई), 05 जून 2006/01  
जून 2006×

नायब सूबेदार जसवीर सिंह (जेसी-264894एम), 21 जुलाई 2006/01  
अप्रैल 2006×

नायब सूबेदार केहर सिंह (जेसी-265271पी), 21 जुलाई 2006/01  
मई 2006×

नायब सूबेदार नारायणन पी (जेसी-265209एच), 04 सितम्बर  
2006/01 जून 2006×

नायब सूबेदार जी अन्की रेड्डी (जेसी-266366एफ), 04 सितम्बर  
2006/01 अगस्त 2006×

नायब सूबेदार रघु के (जेसी-265001ए), 13 मई 2006/01 मार्च  
2006×

नायब सूबेदार महेन्द्रा सिंह (जेसी-265369एच), 03 अगस्त 2006/  
01 जून 2006×

नायब सूबेदार नरेश कुमार क्षेत्री (जेसी-266522ए), 01 अप्रैल  
2006

नायब सूबेदार चरनजीत सिंह (जेसी-266557डब्ल्यू), 20 अप्रैल  
2006/01 अप्रैल 2006×

नायब सूबेदार जी शंकरप्पन (जेसी-264676एन), 10 मार्च 2006/01  
जनवरी 2006×

नायब सूबेदार अब्दुल नसीर (जेसी-266011डब्ल्यू), 16 सितम्बर  
2006/01 अगस्त 2006×

नायब सूबेदार आर मोगलीश्वरन (जेसी-266702एच), 03 जून  
2006/05 जून 2006×

नायब सूबेदार रतन सिंह (जेसी-265678एल), 18 जुलाई 2006/01  
जून 2006×

नायब सूबेदार तुलसी दास रैना (जेसी-265693ए), 06 अगस्त  
2006/01 अगस्त 2006×

नायब सूबेदार शिवानन्द शर्मा (जेसी-265743ए), 10 मार्च 2006/01  
मार्च 2006×

नायब सूबेदार बिनोद चन्द्रा (जेसी-265895एफ), 10 मार्च 2006/  
01 मार्च 2006×

नायब सूबेदार राम शंकर सिंह (जेसी-265768एम), 01 जुलाई  
2006

नायब सूबेदार मोहन लाल (जेसी-266435डब्ल्यू), 01 अगस्त 2006

नायब सूबेदार शाम लाल (जेसी-264044एच), 03 मई 2006/  
01 जनवरी 2006×

नायब सूबेदार कमल सिंह (जेसी-265285पी), 12 जुलाई 2006/  
17 फरवरी 2006×

नायब सूबेदार तहसीलदार सिंह (जेसी-264881एक्स), 15 मई  
2006/20 अप्रैल 2006×

नायब सूबेदार राजू के पी (जेसी-264606पी), 23 मई 2006/  
01 फरवरी 2006×

नायब सूबेदार पाल सिंह (जेसी-264979एच), 16 फरवरी 2006/01  
फरवरी 2006×

नायब सूबेदार एल बाराथन (जेसी-265138एम), 22 मई 2006/  
28 अप्रैल 2006×

नायब सूबेदार जितेन्द्र कुमार (जेसी-265255एक्स), 27 जून 2006/  
01 अप्रैल 2006×

नायब सूबेदार दिपु चन्द राम (जेसी-264519एफ), 01 मई 2006/  
01 फरवरी 2006×

नायब सूबेदार मनाई राम (जेसी-266305के), 01 मई 2006/  
16 मार्च 2006×

नायब सूबेदार चान्दसी प्रसाद सिंह (जेसी-269711एल), 13 मई  
2006/01 फरवरी 2006×

नायब सूबेदार जंग बहादुर सिंह (जेसी-265729एन), 04 अगस्त  
2006/01 अगस्त 2006×

नायब सूबेदार पुरुषोत्तम चन्द (जेसी-266160के), 02 नवम्बर  
2005/01 नवम्बर 2005×

(×ज्येष्ठता प्राप्त)

नायब सूबेदार (क्लर्क जी.डी./एस.के.टी.) के पद में

हवलदार (क्लर्क) नाजरअलि दाफादार (सं. 14377722एफ अब  
जेसी-269282वाई), 01 जुलाई 2006

हवलदार (क्लर्क) मोहम्मद तसलीम अंसारी (सं. 14377724एम  
अब जेसी-269180एच), 01 जुलाई 2006

हवलदार (क्लर्क) पी पी चन्द्रन (सं. 14488926एच अब  
जेसी-269181एल), 01 जुलाई 2006

हवलदार (एसकेटी) लहाने शालिग्राम तम्बक (सं. 14381496एम  
अब जेसी-269182एन), 05 जून 2006/01 जून 2006\*

हवलदार (एसकेटी) राम सिंह (सं. 14494928के अब  
जेसी-269183डब्ल्यू), 06 जून 2006/01 जून 2006\*

हवलदार (एसकेटी) लक्ष्मण पति तिवारी (सं. 14377326एल अब  
जेसी-269073एफ), 01 जून 2006

हवलदार (एसकेटी) राजेन्द्र सिंह (सं. 14360915एल अब  
जेसी-269074के), 01 जून 2006

हवलदार (एसकेटी) जोगिन्दर सिंह (सं. 14400500एफ अब  
जेसी-269184वाई), 01 जुलाई 2006

हवलदार (एसकेटी) सुरेन्द्र नाथ सिंह (सं. 14489726वाई अब  
जेसी-269283एफ), 01 जुलाई 2006

हवलदार (एसकेटी) पोहेकर अंकुश दत्तत्रय (सं. 14381278एन अब  
जेसी-269185एफ), 01 जुलाई 2006

\*(ज्येष्ठता वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दी जाएगी)

नायब सूबेदार (क्लर्क) जी.डी. के पद में

हवलदार (क्लर्क) तालेकर भास्कर नारायण (सं. 14374817डब्ल्यू  
अब जेसी-269057के), 06 जून 2006/01 मार्च 2006\*

हवलदार (क्लर्क) चुन्नी लाल यादव (सं. 14378156वाई अब  
जेसी-269284के), 01 अगस्त 2006

हवलदार (क्लर्क) विरेन्द्र सिंह (सं. 14362471एल अब  
जेसी-269285एम), 01 अगस्त 2006

हवलदार (क्लर्क) दयानिधि बेहेरा (सं. 14374617ए अब  
जेसी-269286पी), 01 अगस्त 2006

हवलदार (क्लर्क) बलविंदर सिंह (सं. 14362769पी अब  
जेसी-269287एक्स), 01 अगस्त 2006

हवलदार (क्लर्क) सुरजन सिंह यादव (सं. 14359024डब्ल्यू अब  
जेसी-269473एन), 21 सितम्बर 2006/01 अगस्त 2006\*

हवलदार (क्लर्क) राजेन्द्र बहादुर सिंह (सं. 14479583डब्ल्यू अब  
जेसी-269288ए), 01 अगस्त 2006

हवलदार (क्लर्क) हरि ओम (सं. 14479673एक्स अब  
जेसी-269289एच), 01 अगस्त 2006

हवलदार (क्लर्क) सुदर्शन कुमार (सं. 14480477के अब  
जेसी-269290एक्स), 01 अगस्त 2006

हवलदार (क्लर्क) अभय राम यादव (सं. 14480718वाई अब  
जेसी-269291ए), 01 अगस्त 2006

हवलदार (क्लर्क) जगन नाथ (सं. 14367345एच अब  
जेसी-269292एच), 01 अगस्त 2006

हवलदार (क्लर्क) दिलीप कुमार के एस (सं. 14367772वाई अब  
जेसी-269293एल), 01 अगस्त 2006

हवलदार (क्लर्क) सुखेन्दु बिश्वास (सं. 14480800एन अब  
जेसी-269294एन), 01 अगस्त 2006

हवलदार (क्लर्क) वीर सिंह (सं. 14367504पी अब जेसी-269295डब्ल्यू), 01 अगस्त 2006

हवलदार (एसकेटी) भदन लाल (सं. 14381854एम अब जेसी-269296वाई), 01 अगस्त 2006

हवलदार (एसकेटी) बिजेन्द्र प्रसाद (सं. 14382084एक्स अब जेसी-269474डब्ल्यू), 01 अगस्त 2006

हवलदार (एसकेटी) प्रेम सिंह (सं. 14382091एन अब जेसी-269297एफ), 04 अगस्त 2006/01 अगस्त 2006\*

हवलदार (एसकेटी) नारायण सिंह नेगी (सं. 14495092के अब जेसी-269378एफ), 01 सितम्बर 2006

हवलदार (एसकेटी) दीवम सिंह (सं. 14382854वाई अब जेसी-269475वाई), 07 सितम्बर 2006/01 सितम्बर 2006\*

\*(ज्येष्ठता वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दी जायेगी)

सेना वायु रक्षा कोर

सब्सर्टेक्टिव सूबेदार मेजर (टी.आई.एफ.सी) के पद में

नायब सूबेदार बीरेन सैकिया (जेसी-296808के), 01 नवम्बर 2006

सब्सर्टेक्टिव सूबेदार (जी.डी.) के पद में

नायब सूबेदार नेत राम (जेसी-298728एल), 05 मई 2006/01 मई 2006\*

नायब सूबेदार श्री सिंह यादव (जेसी-298831डब्ल्यू), 10 जून 2006/01 मई 2006\*

नायब सूबेदार सत्यबीर सिंह (जेसी-298839एच), 11 सितम्बर 2006/01 जून 2006\*

नायब सूबेदार रमेश द्विवेदी (जेसी-298913एफ), 10 अगस्त 2006/16 जुलाई 2006\*

नायब सूबेदार राधा क्रिशन (जेसी-299021ए), 30 अगस्त 2006/26 जुलाई 2006\*

नायब सूबेदार राम प्रकाश सिंह (जेसी-299070एच), 19 सितम्बर 2006/28 जुलाई 2006\*

नायब सूबेदार अमर किशोर देब वर्मा (जेसी-299083ए), 26 सितम्बर 2006/28 जुलाई 2006\*

नायब सूबेदार सतपाल सिंह (जेसी-298485एन), 20 सितम्बर 2006/30 जुलाई 2006\*

नायब सूबेदार विजय कुमारन नायर एम के (जेसी-298493के), 04 अक्टूबर 2006/31 जुलाई 2006\*

नायब सूबेदार राम नारायण (जेसी-298150एन), 16 सितम्बर 2006/01 अगस्त 2006\*

नायब सूबेदार रहिस राम (जेसी-298583एल), 02 सितम्बर 2006/01 अगस्त 2006\*

नायब सूबेदार गोपाल चंद्र बिस्वास (जेसी-298980के), 09 अक्टूबर 2006/01 अगस्त 2006\*

नायब सूबेदार सुखलाल जायसवाल (जेसी-298448के), 18 सितम्बर 2006/26 अगस्त 2006\*

नायब सूबेदार गोविंद सिंह (जेसी-298030पी), 13 सितम्बर 2006/01 सितम्बर 2006\*

नायब सूबेदार ओम प्रकाश सिंह (जेसी-298553एन), 20 सितम्बर 2006/01 सितम्बर 2006\*

नायब सूबेदार सुग्रीव प्रसाद (जेसी-298586वाई), 13 सितम्बर 2006/01 सितम्बर 2006\*

नायब सूबेदार धरम दत्त (जेसी-298078एच), 11 अक्टूबर 2006/01 अक्टूबर 2006\*

नायब सूबेदार जगदीश प्रसाद (जेसी-298264वाई), 13 अक्टूबर 2006/01 अक्टूबर 2006\*

नायब सूबेदार ठाकरे तेजराम फुलीचंद (जेसी-299120एच), 28 अक्टूबर 2006/01 अक्टूबर 2006\*

नायब सूबेदार बिनोद कुमार पांडे (जेसी-298341एच), 01 नवम्बर 2006

नायब सूबेदार राम सिंह (जेसी-298270एम), 01 नवम्बर 2006

सब्सर्टेक्टिव सूबेदार (लिपिक) के पद में

नायब सूबेदार देवेंद्रप्पा देवक्की (जेसी-297944एम), 01 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार राम निवास यादवा (जेसी-297971डब्ल्यू), 03 अक्टूबर 2006/01 अक्टूबर 2006\*

नायब सूबेदार अमर सिंह यादव (जेसी-297970एन), 03 अक्टूबर 2006/01 अक्टूबर 2006\*

नायब सूबेदार राजीव के एस (जेसी-297945पी), 01 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार बुधेस्वर कागयंग (जेसी-298032ए), 01 अक्टूबर 2006

सब्सर्टेक्टिव सूबेदार (एस.के.टी.) के पद में

नायब सूबेदार राम स्वरूप (जेसी-298057एम), 01 नवम्बर 2006

\*(पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता)

(सेना सेवा कोर यान्त्रिक परिवहन और पूर्ति)

(सूबेदार आर.टी.)

नायब सूबेदार सत्य नारायण मिश्रा (जेसी-660740डब्ल्यू), 01 अगस्त 2006

नायब सूबेदार कृष्ण प्रसाद पौडियाल (जेसी-660743के), 01 अगस्त 2006

सूबेदार मेजर (पी. ए.)

सूबेदार बंकीम चंद्र महापात्रा (जेसी-640516पी), 01 अगस्त 2005

सूबेदार देबाशिश डे (जेसी-640517एल), 08 अगस्त 2005\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाएगी)

सूबेदार कैलाश शर्मा (जेसी-640771पी), 01 दिसम्बर 2005 \*

सूबेदार भाग्यवर मंडल (जेसी-640778वाई), 17 अप्रैल 2006 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाएगी)

सूबेदार इंद्रजीत सिंह (जेसी-640811एल), 15 मई 2006 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाएगी)

सूबेदार मेजर जी डी एस डी

सूबेदार सुरेश बाबु के एस (जेसी-640919एच), 01 अगस्त 2005

सूबेदार एस सुरेश कुमार (जेसी-640935ए), 01 दिसम्बर 2005 \*

सूबेदार महीपाल (जेसी-640760एच), 01 जनवरी 2006

सूबेदार रण सिंह (जेसी-640987डब्ल्यू), 02 जनवरी 2006 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाएगी)

सूबेदार पी ईलांगोवन (जेसी-640624एम), 01 फरवरी 2006

सूबेदार शारदा प्रसाद (जेसी-640826एन), 01 मार्च 2006

सूबेदार भिकम सिंह (जेसी-640917एक्स), 01 मार्च 2006

सूबेदार जाधव गोपाल गोविंद (जेसी-640936एच), 02 मई 2006 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाएगी)

सूबेदार आत्माराम मिश्रा (जेसी-640923एल), 01 नवम्बर 2005

सूबेदार मेजर लिपिक जी डी

सूबेदार नरेश चंदर उपाध्याय (जेसी-640664एन), 01 सितम्बर 2005

सूबेदार मुर्गेसन सी (जेसी-640671के), 01 सितम्बर 2005

सूबेदार बालु ए (जेसी-640669एम), 01 सितम्बर 2005

सूबेदार एलेक्स जी (जेसी-640301के), 01 सितम्बर 2002

सूबेदार कविराजन के एन (जेसी-640302एम), 01 सितम्बर 2005

सूबेदार जी मुथलाल (जेसी-640305ए), 01 अक्टूबर 2002

सूबेदार योगेंद्र कुमार वालीया (जेसी-640694एल), 12 जनवरी 2006 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाएगी)

सूबेदार बलवंत सिंह (जेसी-640190एक्स), 27 मार्च 2006 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाएगी)

सूबेदार इक्ताख मोहम्मद (जेसी-640670एफ), 01 अप्रैल 2006

सूबेदार हवा सिंह मेहला (जेसी-640676एच), 03 अप्रैल 2006 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाएगी)

सूबेदार मगलुरी डेविड (जेसी-640544पी), 01 फरवरी 2006

सूबेदार मुथु एन (जेसी-640552एन), 02 फरवरी 2006 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाएगी)

सूबेदार महेंद्र सिंह (जेसी-640688एक्स), 01 अगस्त 2006

सूबेदार मेजर एस के टी

सूबेदार करम चंद शर्मा (जेसी-215553एक्स), 03 अगस्त 2005 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाएगी)

सूबेदार कंडुला वेनु गोपाला राव (जेसी-215555एच), 01 अगस्त 2005

सूबेदार उत्तम सिंह नेगी (जेसी-215565एम), 14 सितम्बर 2005 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जाएगी)

सूबेदार एस मयांडी (जेसी-215568ए), 04 अक्टूबर 2005 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाएगी)

सूबेदार जॉसन पी आइ (जेसी-217849पी), 03 नवम्बर 2005 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाएगी)

सूबेदार रामबीर सिंह (जेसी-217848एम), 02 नवम्बर 2005 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाएगी)

सूबेदार व्यास मिश्रा (जेसी-217847के), 05 नवम्बर 2005 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाएगी)

सूबेदार जागील पालो (जेसी-217835पी), 02 नवम्बर 2005 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाएगी)

सूबेदार राजन सिंह (जेसी-215570एक्स), 03 नवम्बर 2005 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाएगी)

सूबेदार विजया कुमारन नायर एम (जेसी-217837ए), 14 नवम्बर 2005 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाएगी)



सूबेदार हरभजन सिंह (जेसी-217839एल), 01 नवम्बर 2005

सूबेदार लक्ष्मनन के (जेसी-217854ए), 01 दिसम्बर 2005

सूबेदार पुरखाराम खाती (जेसी-215515एफ), 01 अप्रैल 2006

सूबेदार धनश्याम सिंह (जेसी-215520एम), 01 अप्रैल 2006

सूबेदार देवेंद्र कुमार (जेसी-213637एन), 06 फरवरी 2006 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाएगी)

सूबेदार मंगला प्रसाद (जेसी-213617वाई), 01 मार्च 2006

सूबेदार सुबाश (जेसी-213846के), 01 मार्च 2006

सूबेदार भंवर सिंह राठौर (जेसी-215489एल), 09 मार्च 2006 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाएगी)

सूबेदार तरलोक सिंह संधु (जेसी-215496एफ), 04 मार्च 2006 \*

सूबेदार महबूबत मलिक (जेसी-640149एफ), 04 मार्च 2006 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाएगी)

सूबेदार राजेंद्रन पी (जेसी-215536एक्स), 01 जून 2006

सूबेदार प्रेम प्रकाश (जेसी-215550के), 05 जून 2006 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जाएगी)

#### सूबेदार मेजर एम टी

सूबेदार काश्मीर सिंह राणा (जेसी-661187एल), 01 अगस्त 2005

सूबेदार सूरज प्रकाश (जेसी-661148एम), 04 अगस्त 2005

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जाएगी)

सूबेदार जगदीश प्रसाद स्वामी (जेसी-661190एल), 01 अगस्त 2005

सूबेदार विजय सिंह (जेसी-661156एल), 01 अगस्त 2005

सूबेदार फूल सिंह बिजनीया (जेसी-661279एक्स), 01 अगस्त 2005

सूबेदार तिलक राज (जेसी-661218ए), 01 नवम्बर 2005

सूबेदार सोभनाथ (जेसी-661165एम), 01 दिसम्बर 2005

सूबेदार ओम प्रकाश जोशी (जेसी-661167एक्स), 03 दिसम्बर 2005 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाएगी)

सूबेदार रणवीर सिंह (जेसी-661829पी), 05 अप्रैल 2006 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाएगी)

सूबेदार मदन लाल (जेसी-641225डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2006

सूबेदार हंस राज यादव (जेसी-661574ए), 01 अप्रैल 2006

सूबेदार नारायण आर (जेसी-661012एच), 11 फरवरी 2006 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाएगी)

सूबेदार जोखु प्रसाद (जेसी-661106ए), 01 फरवरी 2006

सूबेदार मंजीत सिंह (जेसी-661151एम), 01 फरवरी 2006

सूबेदार गुलजार सिंह (जेसी-661170एक्स), 01 फरवरी 2006

सूबेदार शम्भु नाथ शर्मा (जेसी-661196एम), 01 फरवरी 2006

सूबेदार अंजनी कुमार (जेसी-661246एम), 05 फरवरी 2006 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाएगी)

सूबेदार बिंदेश्वरी सिंह (जेसी-661213एफ), 02 मार्च 2006 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाएगी)

सूबेदार नारायण राम सुथार (जेसी-661245के), 04 मार्च 2006

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाएगी)

सूबेदार मदन लाल (जेसी-661225डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2006

सूबेदार गोपी चंद (जेसी-661226एक्स), 01 अप्रैल 2006

सूबेदार वेद प्रकाश (जेसी-661229एम), 01 मई 2006

सूबेदार गुरमीत सिंह (जेसी-661234एक्स), 01 मई 2006

सूबेदार गौरंगा रानाबिजुली (जेसी-661241ए), 01 मई 2006

सूबेदार कारे सिंह (जेसी-661283ए), 01 मई 2006

सूबेदार राम प्रसाद राम (जेसी-661287डब्ल्यू), 01 मई 2006

सूबेदार पुर्णोत्तम सिंह (जेसी-661290डब्ल्यू), 01 मई 2006

सूबेदार नरसा राम जाट (जेसी-661306डब्ल्यू), 10 जुलाई 2006 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जाएगी)

सूबेदार वरदा राजन कंडाला (जेसी-661340डब्ल्यू), 01 अगस्त 2006

सूबेदार चंद्रा पाल (जेसी-661414), 07 जून 2006 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जाएगी)

सूबेदार परमार अशरफ खान हैयात खान (जेसी-661430एक्स), 02 अगस्त 2006

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जाएगी)

## सूबेदार मेजर केंटरिंग

सूबेदार त्रिपुरी दत्त (जेसी-223374एम), 16 जुलाई 2005 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जाएगी)

## (सूबेदार एम टी)

नायब सूबेदार सुरेश चन्द्र त्रिपाठी (जेसी-662455डब्ल्यू), 06 अक्टूबर 2006 \*

नायब सूबेदार होशियार सिंह (जेसी-662482ए), 16 अक्टूबर 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 जून 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार बंसीधर राणा (जेसी-662658ए), 10 अक्टूबर 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार टेक चन्द शर्मा (जेसी-662684एफ), 09 अक्टूबर 2006 \*

नायब सूबेदार हरि कंवर प्रसाद (जेसी-662694एल), 18 अक्टूबर 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार लियाकन अलि (जेसी-662714एन), 01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार कबर सिंह (जेसी-662718के), 23 अक्टूबर 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार त्रिलोकी सिंह (जेसी-662728एन), 01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार ग्यान चन्द्र (जेसी-662732डब्ल्यू), 03 अक्टूबर 2006 \*

नायब सूबेदार बिरेन्द्र सिंह (जेसी-662746डब्ल्यू), 06 अक्टूबर 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार राम सरन (जेसी-662816के), 24 सितम्बर 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार जुगुल यादव (जेसी-662611पी), 20 दिसम्बर 2005 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार मोर इमाम जाफ़र (जेसी-662664डब्ल्यू), 08 नवम्बर 2006 \*

नायब सूबेदार जगत सिंह (जेसी-662687पी), 26 सितम्बर 2006 \*

नायब सूबेदार धर्म चन्द (जेसी-662690पी), 21 सितम्बर 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार दिनेश्वर सिंह (जेसी-662695एन), 06 अक्टूबर 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सालिक राम (जेसी-662713एल), 08 नवम्बर 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार गेडेला नागेश्वर राव (जेसी-662719एम), 07 नवम्बर 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राम नरेश सिंह (जेसी-662730एल), 09 नवम्बर 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राजा गोपालन टी एम (जेसी-662733वाई), 01 अक्टूबर 2006 \*

## नायब सूबेदार (एमटी)

हवलदार चन्द्र नाथ (सं. 13885702पी अब जेसी-663947एफ), 06 मार्च 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार गुरविन्दर सिंह (सं. 3382762वाई अब जेसी-664126वाई), 23 सितम्बर 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मई 2006 से दी जायेगी)

हवलदार श्याम नारायण सिंह (सं. 13883382एम अब जेसी-664111डब्ल्यू), 10 अक्टूबर 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार राम नरेश (सं. 13885959ए अब जेसी-664113एफ), 04 सितम्बर 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 22 अप्रैल 2006 से दी जायेगी)

हवलदार अशोक कुमार शर्मा (सं. 13886153एम अब जेसी-664122एच), 19 सितम्बर 2006 \*

हवलदार बलबीर सिंह निगम (सं. 13886343वाई अब जेसी-664121ए), 08 सितम्बर 2006 \*

सूबेदार हरभजन सिंह (जेसी-217839एल), 01 नवम्बर 2005  
 सूबेदार लक्ष्मनन के (जेसी-217854ए), 01 दिसम्बर 2005  
 सूबेदार पुरखाराम खाती (जेसी-215515एफ), 01 अप्रैल 2006  
 सूबेदार धनश्याम सिंह (जेसी-215520एम), 01 अप्रैल 2006  
 सूबेदार देवेंद्र कुमार (जेसी-213637एन), 06 फरवरी 2006 \*  
 \*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाएगी)  
 सूबेदार मंगला प्रसाद (जेसी-213617वाई), 01 मार्च 2006  
 सूबेदार सुबाश (जेसी-213846के), 01 मार्च 2006  
 सूबेदार भंवर सिंह राठौर (जेसी-215489एल), 09 मार्च 2006 \*  
 \*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाएगी)  
 सूबेदार तरलोक सिंह संधु (जेसी-215496एफ), 04 मार्च 2006 \*  
 सूबेदार महबूबोत मलिक (जेसी-640149एफ), 04 मार्च 2006 \*  
 \*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाएगी)  
 सूबेदार राजेंद्रन पी (जेसी-215536एक्स), 01 जून 2006  
 सूबेदार प्रेम प्रकाश (जेसी-215550के), 05 जून 2006 \*  
 \*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जाएगी)  
 सूबेदार मेजर एम टी  
 सूबेदार काश्मीर सिंह राणा (जेसी-661187एल), 01 अगस्त 2005  
 सूबेदार सूरज प्रकाश (जेसी-661148एम), 04 अगस्त 2005  
 \*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जाएगी)  
 सूबेदार जगदीश प्रसाद स्वामी (जेसी-661190एल), 01 अगस्त 2005  
 सूबेदार विजय सिंह (जेसी-661156एल), 01 अगस्त 2005  
 सूबेदार फूल सिंह बिजनीया (जेसी-661279एक्स), 01 अगस्त 2005  
 सूबेदार तिलक राज (जेसी-661218ए), 01 नवम्बर 2005  
 सूबेदार सोभनाथ (जेसी-661165एम), 01 दिसम्बर 2005  
 सूबेदार ओम प्रकाश जोशी (जेसी-661167एक्स), 03 दिसम्बर 2005 \*  
 \*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाएगी)  
 सूबेदार रणबीर सिंह (जेसी-661829पी), 05 अप्रैल 2006 \*  
 \*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाएगी)

सूबेदार मदन लाल (जेसी-641225डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2006  
 सूबेदार हंस राज यादव (जेसी-661574ए), 01 अप्रैल 2006  
 सूबेदार नारायण आर (जेसी-661012एच), 11 फरवरी 2006 \*  
 \*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाएगी)  
 सूबेदार जोखु प्रसाद (जेसी-661106ए), 01 फरवरी 2006  
 सूबेदार मंजीत सिंह (जेसी-661151एम), 01 फरवरी 2006  
 सूबेदार गुलजार सिंह (जेसी-661170एक्स), 01 फरवरी 2006  
 सूबेदार शम्भु नाथ शर्मा (जेसी-661196एम), 01 फरवरी 2006  
 सूबेदार अंजनी कुमार (जेसी-661246एम), 05 फरवरी 2006 \*  
 \*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाएगी)  
 सूबेदार बिंदेश्वरी सिंह (जेसी-661213एफ), 02 मार्च 2006 \*  
 \*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाएगी)  
 सूबेदार नारायण राम सुथार (जेसी-661245के), 04 मार्च 2006  
 \*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाएगी)  
 सूबेदार मदन लाल (जेसी-661225डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2006  
 सूबेदार गोपी चंद (जेसी-661226एक्स), 01 अप्रैल 2006  
 सूबेदार वेद प्रकाश (जेसी-661229एम), 01 मई 2006  
 सूबेदार गुरमीत सिंह (जेसी-661234एक्स), 01 मई 2006  
 सूबेदार गौरंगा रानाबिजुली (जेसी-661241ए), 01 मई 2006  
 सूबेदार कारे सिंह (जेसी-661283ए), 01 मई 2006  
 सूबेदार राम प्रसाद राम (जेसी-661287डब्ल्यू), 01 मई 2006  
 सूबेदार पुर्णोत्तम सिंह (जेसी-661290डब्ल्यू), 01 मई 2006  
 सूबेदार नरसा राम जाट (जेसी-661306डब्ल्यू), 10 जुलाई 2006 \*  
 \*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जाएगी)  
 सूबेदार वरादा राजन कंडाला (जेसी-661340डब्ल्यू), 01 अगस्त 2006  
 सूबेदार चंद्रा पाल (जेसी-661414), 07 जून 2006 \*  
 \*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जाएगी)  
 सूबेदार परमार अशरफ खान हैयात खान (जेसी-661430एक्स), 02 अगस्त 2006  
 \*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जाएगी)

## सूबेदार मेजर कंटरिंग

सूबेदार त्रिपुरी दत्त (जेसी-223374एम), 16 जुलाई 2005 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जाएगी)

(सूबेदार एम टी)

नायब सूबेदार सुरेश चन्द्र त्रिपाठी (जेसी-662455डब्ल्यू), 06 अक्टूबर 2006 \*

नायब सूबेदार होशियार सिंह (जेसी-662482ए), 16 अक्टूबर 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 जून 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार बंसीधर राणा (जेसी-662658ए), 10 अक्टूबर 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार टेक चन्द्र शर्मा (जेसी-662684एफ), 09 अक्टूबर 2006 \*

नायब सूबेदार हरि कंवर प्रसाद (जेसी-662694एल), 18 अक्टूबर 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार लियाकन अलि (जेसी-662714एन), 01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार कबर सिंह (जेसी-662718के), 23 अक्टूबर 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार त्रिलोकी सिंह (जेसी-662728एन), 01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार ग्यान चन्द्र (जेसी-662732डब्ल्यू), 03 अक्टूबर 2006 \*

नायब सूबेदार बिरेन्द्र सिंह (जेसी-662746डब्ल्यू), 06 अक्टूबर 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार राम सरन (जेसी-662816के), 24 सितम्बर 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार जुगुल यादव (जेसी-662611पी), 20 दिसम्बर 2005 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार मोर इमाम जाफ़र (जेसी-662664डब्ल्यू), 08 नवम्बर 2006 \*

नायब सूबेदार जगत सिंह (जेसी-662687पी), 26 सितम्बर 2006 \*

नायब सूबेदार धर्म चन्द (जेसी-662690पी), 21 सितम्बर 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार दिनेश्वर सिंह (जेसी-662695एन), 06 अक्टूबर 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सालिक राम (जेसी-662713एल), 08 नवम्बर 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार गेडेला नागेश्वर राव (जेसी-662719एम), 07 नवम्बर 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राम नरेश सिंह (जेसी-662730एल), 09 नवम्बर 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राजा गोपालन टी एम (जेसी-662733वाई), 01 अक्टूबर 2006 \*

## नायब सूबेदार (एमटी)

हवलदार चन्द्र नाथ (सं. 13885702पी अब जेसी-663947एफ), 06 मार्च 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार गुरविन्दर सिंह (सं. 3382762वाई अब जेसी-664126वाई), 23 सितम्बर 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मई 2006 से दी जायेगी)

हवलदार श्याम नारायण सिंह (सं. 13883382एम अब जेसी-664111डब्ल्यू), 10 अक्टूबर 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार राम नरेश (सं. 13885959ए अब जेसी-664113एफ), 04 सितम्बर 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 22 अप्रैल 2006 से दी जायेगी)

हवलदार अशोक कुमार शर्मा (सं. 13886153एम अब जेसी-664122एच), 19 सितम्बर 2006 \*

हवलदार बलबीर सिंह निगम (सं. 13886343वाई अब जेसी-664121ए), 08 सितम्बर 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 29 अप्रैल 2006 से दी जायेगी)

हवलदार अमर सिंह (सं. 13887193ए अब जेसी-664119एच),  
02 अक्टूबर 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार राज कुमार (सं. 13887321एम अब जेसी-664120एक्स),  
04 सितम्बर 2006 \*

हवलदार हन्स नाथ साह (सं. 13887524डब्ल्यू अब जेसी-664116पी),  
05 सितम्बर 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 22 अप्रैल 2006 से दी जायेगी)

हवलदार अभय कुमार रथ (सं. 13887776एच अब जेसी-664123एल)/21 अप्रैल 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जायेगी)

हवलदार प्रभु नाथ चौधरी (सं. 13889436वाई अब जेसी-664112वाई),  
04 सितम्बर 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जायेगी)

हवलदार हर्ष वर्धन (सं. 13889521एफ अब जेसी-664132एम),  
16 सितम्बर 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 29 अप्रैल 2006 से दी जायेगी)

हवलदार पतिराम (सं. 13889607ए अब जेसी-6641114के),  
12 सितम्बर 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 22 अप्रैल 2006 से दी जायेगी)

हवलदार वर्गीश जी वी (सं. 13890580ए अब जेसी-664118ए),  
05 सितम्बर 2006 \*

हवलदार अशोक कुमार गौतम (सं. 13890900के अब जेसी-664115एम), 02 सितम्बर 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 29 अप्रैल 2006 से दी जायेगी)

हवलदार त्रिभुवन नाथ सिंह (सं. 13891312एच अब जेसी-664117एक्स), 11 अगस्त 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार रामजी चौबे (सं. 13891962डब्ल्यू अब जेसी-664125डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2006 \*

हवलदार जुगेश्वर प्रसाद (सं. 13894258एल अब जेसी-664124एन),  
04 सितम्बर 2006 \*

हवलदार रामपुकार पासवान (सं. 13894263डब्ल्यू अब जेसी-664127एफ), 05 अक्टूबर 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मई 2006 से दी जायेगी)

हवलदार किशोरी लाल कौरव (सं. 13894315एफ अब जेसी-664128के), 01 सितम्बर 2006 \*

हवलदार राजबीर (सं. 13894322एक्स अब जेसी-664130एफ),  
01 सितम्बर 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जून 2006 से दी जायेगी)

हवलदार देव दत्त भट (सं. 13894525एफ अब जेसी-664131के),  
14 सितम्बर 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जायेगी)

हवलदार चन्नाबासव अन्नानवर (सं. 13897033एन अब जेसी-664121एम), 07 सितम्बर 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार महाबीर सिंह (सं. 13886306एल अब जेसी-664140एल),  
01 अक्टूबर 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार औताडे धनाजी अवाबा (सं. 13886420एच अब जेसी-664138एन), 18 नवम्बर 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 21 सितम्बर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार महेश चन्द्र शर्मा (सं. 13886436एन अब जेसी-664139डब्ल्यू), 06 नवम्बर 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 24 जून 2006 से दी जायेगी)

#### सूबेदार लिपिक

नायब सूबेदार वेद पाल सिंह (जेसी-642014वाई), 11 मार्च 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार कृष्ण चंद यादव (जेसी-641965के), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार सुरेश सी एस (जेसी-642017एम), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार रमेश कुमार (जेसी-641966एम), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार फाल्गुन एन (जेसी-642106के), 21 अप्रैल 2006 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार शेर सिंह यादव (जेसी-642018पी), 01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार चद्दन सिंह (जेसी-641968एक्स), 01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार अनिल चंद्रा दास (जेसी-642022एक्स), 01 सितम्बर 2006

#### नायब सूबेदार लिपिक

हवलदार विजय सिंह (सं. 6379146डब्ल्यू अब जेसी-664012एन), 24 अप्रैल 2006 \*

\*(हवलदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जायेगी)

हवलदार सुरिन्दर कुमार (सं. 6379031एच अब जेसी-664053एक्स), 30 अप्रैल 2006 \*

\*(हवलदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 31 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार कल्याण सिंह (सं. 6379674ए अब जेसी-663978एफ), 03 अप्रैल 2006 \*

\*(हवलदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जायेगी)

हवलदार तरुण कुमार घोष (सं. 6379839एन अब जेसी-663979के), 01 अप्रैल 2006

हवलदार बिहारी लाल (सं. 6379116वाई अब जेसी-663980वाई), 01 अप्रैल 2006

हवलदार शिवमुनि सिंह (सं. 6378788वाई अब जेसी-663981एफ), 03 अप्रैल 2006 \*

\*(हवलदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जायेगी)

पक्के नायब रिसालदार के रैंक में (ए एस एच/ए टी)

दफादार पी के बेहरा (सं. 6471730एन अब जेसी-680924डब्ल्यू), 05 मई 2006/11 मार्च 2006 \*

दफादार एम जेड रहमान (सं. 6471766एम अब जेसी-680810एल), 02 जून 2006/11 मार्च 2006 \*

दफादार भूपेन चन्द्र दास (सं. 6471875वाई अब जेसी-680812डब्ल्यू), 30 मार्च 2006/11 मार्च 2006 \*

दफादार गुल्जार सिंह (सं. 6471999एन अब जेसी-680821एक्स), 15 जून 2006/11 मार्च 2006 \*

दफादार गणेश सी एच दास (सं. 6471985एन अब जेसी-680825एन), 06 जून 2006/11 मार्च 2006 \*

दफादार टंडल विठल धोंडिवा (सं. 6472022एन अब जेसी-680829के), 19 जून 2006/11 मार्च 2006 \*

दफादार सुरेन्द्र प्रसाद (सं. 6485387एफ अब जेसी-680830वाई), 05 जून 2006/11 मार्च 2006 \*

दफादार पी एस गुलाब (सं. 6471667के अब जेसी-680831एफ), 11 मई 2006/11 मार्च 2006 \*

पक्के नायब सूबेदार के रैंक में (एस एच जी डी)

हवलदार एन एच खान (सं. 6375586एम अब जेसी-680954एन), 02 जून 2006/22 अप्रैल 2006 \*

\*वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता दी जाती है।

एस. पी. शर्मा  
प्रवर सचिव

सं. 26, दिनांक 14 दिसम्बर 2006--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :--

निर्वाचित सेना

सेना डाक सेवा कोर

वारंट आफिसर/हवलदार (क्लर्क) से नायब सूबेदार/लिपिक (डाक)

डब्ल्यूओ मोहन सिंह बोनाल (सं. 8368382के अब जेसी-834635एम), 29 अप्रैल 2006 \*

डब्ल्यूओ प्रकाश चन्द्र पांडे (सं. 8372448एम अब जेसी-834636पी), 13 अप्रैल 2006 \*

डब्ल्यूओ गनिपा कृष्णा राव (सं. 8375431के अब जेसी-834637एक्स), 27 मार्च 2006 \*

डब्ल्यूओ उमा कांत शक्यावार (सं. 8375484एच अब जेसी-834638ए), 04 अप्रैल 2006 \*

डब्ल्यूओ मुसाफिर सिंह (सं. 8368818के अब जेसी-834639एच), 03 अप्रैल 2006 \*

डब्ल्यूओ विद्या सागर बंसल (सं. 8373522पी अब जेसी-834640एक्स), 05 अप्रैल 2006 \*

डब्ल्यूओ राजा राम कोरी (सं. 8371500एक्स अब जेसी-834641ए), 08 अप्रैल 2006 \*

डब्ल्यूओ चन्द्र सिंह ब्रिजवाल (सं. 8371499एन अब जेसी-834642एच), 22 अप्रैल 2006 \*

डब्ल्यूओ श्योदन सिंह (सं. 8369008एन अब जेसी-834643एल), 01 मई 2006 \*

डब्ल्यूओ शैलेन्द्र कुमार उप्प्रेति (सं. 8369642डब्ल्यू अब जेसी-834644एन), 04 अप्रैल 2006 \*

डब्ल्यूओ बिशन दास (सं. 8373860एम अब जेसी-834645डब्ल्यू), 22 अप्रैल 2006 \*

डब्ल्यूओ महेन्द्र सिंह (सं. 8371225एच अब जेसी-834646वाई), 18 सितम्बर 2006 \*

डब्ल्यूओ अनंत कुलकर्णी (सं. 8373743एफ अब जेसी-834647एफ),  
27 मार्च 2006 \*

डब्ल्यूओ देवेन्द्र सिंह (सं. 8370245के अब जेसी-834648के),  
15 मई 2006 \*

डब्ल्यूओ मुसाफिर सिंह यादव (सं. 8371486डब्ल्यू अब जेसी-  
834649एम), 23 मार्च 2006 \*

डब्ल्यूओ जयदेव सिंह (सं. 8369592डब्ल्यू अब जेसी-834650एफ),  
13 अप्रैल 2006 \*

डब्ल्यूओ गंगाधरय्या हिरेमट (सं. 8367416ए अब जेसी-834651के),  
07 अप्रैल 2006 \*

डब्ल्यूओ कृष्ण कुमार (सं. 8368879एफ अब जेसी-834652एम),  
31 जुलाई 2006 \*

डब्ल्यूओ कुलदीप सिंह मल्होत्रा (सं. 8372151एल अब जेसी-  
834653बी), 28 मार्च 2006 \*

डब्ल्यूओ जगेन्द्र कुमार शर्मा (सं. 8370706एच अब जेसी-  
834654एक्स), 27 मार्च 2006 \*

डब्ल्यूओ कादिर मोहम्मद सिद्धिकी (सं. 8373597एम अब जेसी-  
834655ए), 06 जून 2006 \*

डब्ल्यूओ बाबू राम (सं. 8368786एम अब जेसी-834656एच),  
06 जुलाई 2006 \*

डब्ल्यूओ निर्मल पाल (सं. 8368789ए अब जेसी-834657एल),  
01 मई 2006 \*

डब्ल्यूओ बीर सिंह (सं. 8371434ए अब जेसी-834658एन),  
27 मार्च 2006 \*

डब्ल्यूओ महेश पाल (सं. 8368589के अब जेसी-834659डब्ल्यू),  
21 अप्रैल 2006 \*

डब्ल्यूओ सूर्यदेव राय (सं. 8371421एच अब जेसी-834660एल),  
12 अप्रैल 2006 \*

डब्ल्यूओ मानिक चंद (सं. 8371551एल अब जेसी-834661एन),  
24 मई 2006 \*

डब्ल्यूओ उमेश चन्दर (सं. 8370977ए अब जेसी-834662डब्ल्यू),  
23 मार्च 2006 \*

डब्ल्यूओ राम स्वार्थ उदय यादव (सं. 8371257एल अब जेसी-  
834663वाई), 19 अप्रैल 2006 \*

डब्ल्यूओ अनिल कुमार गुप्ता (सं. 8371229वाई अब जेसी-  
834664एफ), 05 अप्रैल 2006 \*

डब्ल्यूओ सतपाल संधु (सं. 8372688के अब जेसी-834665के),  
10 मई 2006 \*

डब्ल्यूओ नंद किशोर मिश्रा (सं. 8368929एफ अब जेसी-834666एम),  
08 मई 2006 \*

डब्ल्यूओ जीवन सिंह (सं. 8369403एफ अब जेसी-834667पी),  
29 अप्रैल 2006 \*

\*(नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 28 जनवरी 2006 से दी जाएगी)

हवलदार (क्लर्क) विजय कुमार (सं. 8430767एम अब  
जेसी-834668एक्स), 01 अप्रैल 2006\$

\$(नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाएगी)

डब्ल्यूओ शेख इसाक इमाम भाई (सं. 8371774एच अब जेसी-  
834669ए), 10 अगस्त 2006%

%(नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले  
बिना ज्येष्ठता 11 मई 2006 से दी जाएगी)

हवलदार (क्लर्क) एन मुरुगन (सं. 8028478एल अब जेसी-  
834670पी), 01 जुलाई 2006&

&(नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले  
बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2006 से दी जाएगी)

हवलदार (क्लर्क) कन्हैया लाल (सं. 8430179वाई अब  
जेसी-834671एक्स), 08 जुलाई 2006#

#(नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 03 जुलाई 2006 से दी जाएगी)

टी. के. एम. पिल्लै  
अवर सचिव

सं. 27, दिनांक 19 दिसम्बर 2006--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित  
अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा कोर)

सर्जन कमोडोर (समकक्ष) से मेजर जनरल (समकक्ष) पद पर

सुब्रोतो कुन्दू (एमआर-2873के), 27 जून 2005 वेतन एवं पेंशन पर  
बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 01 मई 2005

सर्जन कमाण्डर (समकक्ष) से सर्जन कौप्टन (समकक्ष) रैंक में

जोर्ज वर्धीज (एमआर-03963एक्स) (75329), 21 सितम्बर 2005  
वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले वरीयता 06 अप्रैल 2005 से दी जाती है।

प्रताप तोमर (एमआर-04706एम) (75316), 15 सितम्बर 2005  
वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले वरीयता 01 जून 2005 से दी जाती है।

पी आर नायर (एमआर-04056के) (75250), 26 सितम्बर 2005  
वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले वरीयता 09 सितम्बर 2005 से दी जाती है।

वी के मोहिन्द्रा (एमआर-05226पी) (75272), 23 सितम्बर 2005  
वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले वरीयता 17 सितम्बर 2005 से दी जाती है।

ए ए पवार (एमआर-04147एन) (75256), 01 अक्टूबर 2005 वेतन  
व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले वरीयता 20 सितम्बर 2005 से दी जाती है।

कप्तान से मेजर के पद पर

अनिल कुमार (एमआर-7987वाई), एएमसी, 18 जनवरी 2005

हरीश एम (एमआर-08236के), एएमसी, 15 फरवरी 2006

विधान रथ (एमआर-08230एच), एएमसी, 18 फरवरी 2006

विजय सिंह कथार्डन (एमआर-08222के), एएमसी, 20 फरवरी 2006

अमल नन्दकुमार पटेल (एमआर-08232एन), एएमसी, 07 मार्च  
2006

विजय सिंह चन्देल (एमआर-08234वाई), एएमसी, 02 अप्रैल 2006

स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमाण्डर के पद पर

अल्का (एमआर-07959एम), एएमसी, 16 दिसम्बर 2004

एम ए खान (एमआर-06511ए), एएमसी, 16 दिसम्बर 2004

आर गंगावालिकर (एमआर-06353डब्ल्यू), एएमसी, 16 दिसम्बर  
2004

एस एस सोचे (एमआर-06415एल), एएमसी, 16 दिसम्बर 2004

बी के गुप्ता (एमआर-06414एच), एएमसी, 16 दिसम्बर 2004

आर के निगम (एमआर-07056पी), एएमसी, 16 दिसम्बर 2004

मेधातिथी मुखर्जी (एमआर-06594डब्ल्यू), एएमसी, 16 दिसम्बर  
2004

(श्रीमती) एस सम्पत (एमआर-06508ए), एएमसी, 16 दिसम्बर  
2004

(श्रीमती) रितम बिदवाई (एमआर-06347एच), एएमसी, 16 दिसम्बर  
2004

अभिजीत मंडल (एमआर-07062एच), एएमसी, 22 जनवरी 2005

भारवर कुमार पाल (एमआर-07443के), एएमसी, 08 फरवरी 2005

अरुण कुमार श्रीवास्तव (एमआर-06696एम), एएमसी, 27 फरवरी  
2005

बी के वर्गीज (एमआर-06559एन), एएमसी, 07 जून 2005

पी के एम शेनोए (एमआर-06557एच), एएमसी, 07 जून 2005

ए के ए बऔर (एमआर-07199पी), एएमसी, 05 अगस्त 2005

सुलेखा सिंघल (एमआर-07313एफ), एएमसी, 28 सितम्बर 2005

ए अग्रवाल (एमआर-06560एच), (एएफ-22503एच) एएमसी, 07  
जून 2005

एम सिंह (एमआर-06512एच), (एएफ-22354एफ) एएमसी, 16  
दिसम्बर 2004

प्रमोदा चन्द्रा के एस (एमआर-06605), (एएफ-22404एन) एएमसी,  
16 दिसम्बर 2004

एन के सैधा (एमआर-06412एक्स), (एएफ-20955एन) एएमसी,  
16 दिसम्बर 2004

हरीश रावत (एमआर-06660एन), (एएफ-23068एल) एएमसी,  
22 जनवरी 2005

आर तलवार (एमआर-06246), (एएफ-21387बी) एएमसी, 12  
दिसम्बर 2004

राजेश कुमार (एमआर-06589एल), (एएफ-22490टी) एएमसी,  
16 दिसम्बर 2004

वी आर मुजीब (एमआर-06554पी), (एएफ-22497एफ) एएमसी,  
07 जून 2005

गुरप्रीत सिंह (एमआर-06618पी), (एएफ-23059के) एएमसी, 20  
दिसम्बर 2005

फ्लाईट लेफ्टिनेंट से स्क्वाड्रन लीडर के पद पर

दीपांजन दे (एमआर-07481ए), एएमसी, 13 जुलाई 2005

मधुसुदना एच एन (एमआर-08118डब्ल्यू), एएमसी, 21 जनवरी  
2006

आशुतोष आर्य (एमआर-07523एफ), एएमसी, 05 फरवरी 2006

विवेक कुमार (एमआर-07524के), एएमसी, 05 फरवरी 2006

अमित गौर (एमआर-07558एक्स), एएमसी, 05 फरवरी 2006

राजेश कामरान

त्रिगेडियर

डिप्टी डीजीएफएमएस (पर्स.)

सं. 28, दिनांक 19 दिसम्बर 2006--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों  
को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से ले. कर्नल

आई सी सं., नाम तथा आर्म

40848 ए पी एस जोहल, आर्टी--16 दिसम्बर 2004

शिव राम वैरवा

उप-निदेशक

एम एस-8सी



## सेना सचिव शाखा

सं. 29 दिनांक 18 दिसम्बर 2006.--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

## नियमित सेना

## स्थायि कमीशन

## ब्रिगेडियर के मूल रैंक में

नाम, आई सी, आर्म, ब्रिगेडियर के मूल रैंक की प्रभावी तिथि  
 कर्नल जोशी एम के (आई सी-27671), इन्ट, 01 मई 2005  
 कर्नल शरद आर सी (आई सी-33443), गार्ड्स, 01 मई 2005  
 कर्नल ढिल्लन बी एस (आई सी-33692), ए सी, 01 मई 2005  
 कर्नल प्रकाश अजय (आई सी-33693), गढ़ रिफ, 01 मई 2005  
 कर्नल प्रसाद शक्ति (आई सी-33702), जैक लाई, 01 मई 2005  
 कर्नल चोपड़ा के के, बी एस एम (आई सी-33703), डोगरा, 01 मई 2005  
 कर्नल यादव जे एन (आई सी-33704), एएडी, 01 मई 2005  
 कर्नल जोशी ए के, बी एस एम (आई सी-33765), जैग, 01 मई 2005  
 कर्नल यादव डी एन, एस एम (आई सी-33810), आर्टी, 01 मई 2005  
 कर्नल माता जितेन्द्र (आई सी-33825), एएडी, 01 मई 2005  
 कर्नल शर्मा उमेश (आई सी-33827), सिग्स, 01 मई 2005  
 कर्नल शर्मा वाई एन (आई सी-33834), एएडी, 01 मई 2005  
 कर्नल जयराम जी एस (आई सी-33861), ग्रेन, 01 मई 2005  
 कर्नल सुरिन्दर सिंह, बी एस एम (आई सी-33887), एओसी, 01 मई 2005  
 कर्नल जगदेव जे एस, एस एम (आई सी-33994), जाट, 01 मई 2005  
 कर्नल मल्होत्रा राजेश (आई सी-36022), एएससी, 01 मई 2005  
 कर्नल लीडर बी एस (आई सी-36220), सिग्स, 01 जून 2005  
 कर्नल बख्शी एके, बी एम एम (आई सी-30997), बिहार, 01 जून 2005  
 कर्नल सुमेर सिंह (आई सी-30998), सिख, 01 जून 2005  
 कर्नल रामचंदानी ए ए (आई सी-31003), एएडी, 01 जून 2005  
 कर्नल राम ए के (आई सी-31005), राज रिफ, 01 जून 2005

कर्नल ढिल्लन एस एस (आई सी-31008), डोगरा, 01 जून 2005

कर्नल कादियान डी एस (आई सी-31009), इन्जि., 01 जून 2005

कर्नल नायक वी के, के सी (आई सी-31011), गढ़ रिफ, 01 जून 2005

कर्नल थराकन वाई सी (आई सी-31012), सिग्स, 01 जुलाई 2005

कर्नल सिंह डी पी (आई सी-31013), एओसी, 01 जुलाई 2005

कर्नल सक्सेना वी के (आई सी-31014), एएडी, 01 जुलाई 2005

कर्नल सुन्दर सुब्रमण्यम (आई सी-31016), एएडी, 01 जुलाई 2005

कर्नल कुशवाहा एम के (आई सी-31020), महार, 01 जुलाई 2005

कर्नल शर्मा आर सी (आई सी-31021), ईएमई, 01 दिसम्बर 2005 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जुलाई 2005 से दी जाएगी।

कर्नल राघवन वी (आई सी-31022), 4 जीआर, 01 जुलाई 2005

कर्नल संधू जी एस (आई सी-31023), आर्टी, 01 जुलाई 2005

कर्नल शर्मा आर के. एस एम (आई सी-31034), जाट, 01 जुलाई 2005

कर्नल पुरी के एस (आई सी-31047), एएससी, 01 जुलाई 2005

कर्नल घोष अभिमन्यू (आई सी-31050), सिग्स, 01 अगस्त 2005

कर्नल गुरुंग-शक्ति (आई सी-31052), ग्रेन, 01 अगस्त 2005

कर्नल चावला एच सी (आई सी-31059), एओसी, 01 अगस्त 2005

कर्नल महाजन एस एच, बी एस एम (आई सी-31062), एमएसआई, 01 अगस्त 2005

कर्नल ग्रेवाल डी एस (आई सी-31064), 43 एआर, 01 अगस्त 2005

कर्नल तिवारी पी डी (आई सी-31065), आर्टी, 01 अगस्त 2005

कर्नल माथुर एम के, एस एम (आई सी-31066), राज रिफ, 01 अगस्त 2005

कर्नल चौधरी एस वी एस (आई सी-31070), एओसी, 01 अगस्त 2005

कर्नल यादू प्रदीप (आई सी-31072), इन्जि., 01 अगस्त 2005

कर्नल सेम अजय, एस एम (आई सी-31077), मैक इन्फ, 01 अगस्त 2005

कर्नल गिल बलजीत सिंह (आई सी-31083), आर्टी, 01 अगस्त 2005

कर्नल रे एस बी (आई सी-31097), एओसी, 01 अगस्त 2005

कर्नल तुलसी एस पी एस (आई सी-31110), एओसी, 01 अगस्त 2005

कर्नल सच्चर बी एस, वी एस एम (आई सी-31118), पंजाब, 01 अगस्त 2005

कर्नल मथाई जार्ज (आई सी-31120), 9 जी आर, 01 अगस्त 2005

कर्नल भट्ट वी के (आई सी-31124), सिग्म, 01 मार्च 2006 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बगैर 01 अगस्त 2005 से दी जाएगी।

कर्नल सिंह ए पी (आई सी-31125), डोगरा, 01 सितम्बर 2005

कर्नल मेनन पी बी के (आई सी-31131), एओसी, 01 सितम्बर 2005

कर्नल मूर्ति गौतम (आई सी-31134), एओसी, 01 सितम्बर 2005

कर्नल राजगोपाल वी (आई सी-31135), इन्जि., 01 सितम्बर 2005

कर्नल महाजन एच एच, वाइ एस एम (आई सी-31144), एमएलआई, 01 सितम्बर 2005

कर्नल भट दीपक गोविन्द (आई सी-31155), आर्टी, 01 सितम्बर 2005

कर्नल दिन्शा गेव (आई सी-31156), महार, 17 जुलाई 2006 से परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 सितम्बर 2005 से दी जाएगी।

कर्नल सलेम्स जे पी (आई सी-31183), जैक लाई, 13 सितम्बर 2005

कर्नल कौशल आर के (आई सी-31212), डोगरा, 01 अक्टूबर 2005

कर्नल विनायक राम नारायण (आई सी-31218), एएडी, 01 अक्टूबर 2005

कर्नल राजबीर सिंह (आई सी-31245), आईसी, 01 नवम्बर 2005 से परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 अक्टूबर 2005 से दी जाएगी।

कर्नल बनर्जी अनिरुद्ध (आई सी-34646), इएमई, 01 दिसम्बर 2005 से परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 अक्टूबर 2005 से दी जाएगी।

कर्नल जैन एस सी (आई सी-34648), इएमई, 01 दिसम्बर 2005 से परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 अक्टूबर 2005 से दी जाएगी।

कर्नल सिन्हा राजीव रंजन, एस एम (आई सी-34650), इन्जि., 01 अक्टूबर 2005

कर्नल अग्रवाल एम एल (आई सी-34653), इन्जि., 01 अक्टूबर 2005

कर्नल पाल श्री (आई सी-34664), इन्जि., 02 अक्टूबर 2005

कर्नल बलविन्दर सिंह (आई सी-34670), इन्जि., 09 अक्टूबर 2005

कर्नल टण्डन वी एम (आई सी-34677), इन्जि., 25 अक्टूबर 2005

कर्नल दसाका एस एस (आई सी-34687), इन्जि., 01 नवम्बर 2005

कर्नल खैरे आर एम (आई सी-34706), सिग्म, 01 नवम्बर 2005

कर्नल शर्मा सुरिन्दर (आई सी-34728), इन्जि., 01 नवम्बर 2005

कर्नल लेविस आर ए (आई सी-33909), मैक इन्फ, 01 नवम्बर 2005

कर्नल पिल्लै वी के (आई सी-33914), राजपूत, 01 नवम्बर 2005

कर्नल निगम जी (आई सी-33918), मैक इन्फ, 01 नवम्बर 2005

कर्नल प्रधान आर एस, एस एम, वी एस एम (आई सी-33919), पारा, 01 नवम्बर 2005

कर्नल सिंह ए के (आई सी-33921), पंजाब, 01 नवम्बर 2005

कर्नल प्रहलाद सिंह (आई सी-33970), डोगरा, 01 नवम्बर 2005

कर्नल डोगरा एन (आई सी-33982), एओसी, 01 दिसम्बर 2005

कर्नल यादव जे एस (आई सी-33984), जैग, 01 दिसम्बर 2005

कर्नल सोढ़ी नवीन (आई सी-33989), 63 कैव, 01 दिसम्बर 2005

कर्नल हुसैन एम आई (आई सी-36021), एओसी, 01 दिसम्बर 2005

कर्नल चौब पी एस, एस एम (आई सी-36046), पंजाब, 01 दिसम्बर 2005

कर्नल खजुरिया एस के, वी एस एम (आई सी-36119), 5 जीआर, 01 दिसम्बर 2005

कर्नल मैथ्यु पी एम (आई सी-36138), सिख लाई, 01 दिसम्बर 2005

कर्नल सम्पत कृष्णा (आई सी-36194), 85 एआर, 01 दिसम्बर 2005

कर्नल पाया बी एस (आई सी-36200), 3 जीआर, 11 दिसम्बर 2005

कर्नल मारवाह बिरेन्द्र (आई सी-36222), एएससी, 24 दिसम्बर 2005

कर्नल सूद एस के (आई सी-36262), एएडी, 01 जनवरी 2006

कर्नल नंदल ए एस (आई सी-36269), 5 जीआर, 01 जनवरी 2006

कर्नल बावा नवतेज सिंह (आई सी-36294), आर्टी (जीसी), 01 जनवरी 2006

कर्नल सिंह डी आर, एस एम, वी एस एम (आई सी-36332), महार, 01 जनवरी 2006

कर्नल ओबेरॉय ए के (आई सी-36337), आर्टी (जीसी), 01 जनवरी 2006

कर्नल सुरेश राम चन्द्रन (आई सी-36388), आर्टी, 01 जनवरी 2006

कर्नल सैम्यूल क्लेमेन्ट पी, एस एम (आई सी-36390), एमएलआई, 01 जनवरी 2006

कर्नल भुल्लर के ए एस (आई सी-36391), 16 कैव, 01 जनवरी 2006

कर्नल गहलौत ए एस (आई सी-36403), डोगरा, 01 फरवरी 2006

कर्नल लाहिरी एस के (आई सी-36404), इन्जि., 01 फरवरी 2006

कर्नल रैना अजय (आई सी-36412), गार्डस, 01 फरवरी 2006

कर्नल राज आई ए (आई सी-36413), ग्रेन, 01 फरवरी 2006

कर्नल नारंग जी एस (आई सी-36484), आर्टी, 01 फरवरी 2006

कर्नल राय चरणजीत (आई सी-36502), एओसी, 01 फरवरी 2006

कर्नल परब ए एस आर (आई सी-31631), 52 एआर, 01 फरवरी 2006

कर्नल मधोक एस (आई सी-31323), मैक इन्फ, 01 फरवरी 2006

कर्नल सुरेन्द्रनाथ के एस एम (आई सी-31324), 71 एआर, 01 फरवरी 2006

कर्नल दत्ता राजेश (आई सी-31326), ईएमई, 01 फरवरी 2006

कर्नल रनबीर सिंह, एस एम (आई सी-31327), बिहार, 01 मार्च 2006

कर्नल देवेकर आर जी (आई सी-31331), इन्जि (जीसी), 01 मार्च 2006

कर्नल सिद्धू एम एस (आई सी-31332), आर्टी, 01 मार्च 2006

कर्नल द्विवेदी वी (आई सी-31333), इन्जि., 01 मार्च 2006

कर्नल हिल्लन एच एस (आई सी-31335), डोगरा, 01 अप्रैल 2006

कर्नल जोग एस एस, वी एस एम (आई सी-31336), 5 जीआर, 01 अप्रैल 2006

कर्नल सिंह यू पी (आई सी-31339), बिहार, 01 अप्रैल 2006

कर्नल आनंद संजीव (आई सी-31341), मैक इन्फ, 01 अप्रैल 2006

कर्नल दहत एस एस (आई सी-31344), सिग्स, 01 अप्रैल 2006

कर्नल बख्शी राजन (आई सी-31348), आम्बर्ड, 01 अप्रैल 2006

कर्नल सिंह राज नंदन, एस एम (आई सी-31351), असम, 01 अप्रैल 2006

कर्नल चौहान एस एम (आई सी-31360), आर्टी, 01 अप्रैल 2006

कर्नल प्राकदन एम जे (आई सी-31392), 1 जीआर, 01 अप्रैल 2006

कर्नल राधवा जी एस, वी एस एम (आई सी-31399), आर्टी, 10 अप्रैल 2006

कर्नल उपाध्याय वी डी (आई सी-31403), एसी, 10 अप्रैल 2006

कर्नल सक्शेना ए के (आई सी-31404), एओसी, 01 मई 2006

कर्नल देवदोस जे एम, एस एम (आई सी-31418), सिख, 01 मई 2006

कर्नल मेहता ए के (आई सी-31420), 84 एआर, 01 मई 2006

कर्नल तिवारी वीपी (आई सी-31424), एएससी, 01 मई 2006

कर्नल चोपड़ा आर एस (आई सी-31446), आर्टी (जीसी), 01 मई 2006

कर्नल मंजीत सिंह (आई सी-31447), गार्डस, 01 मई 2006

कर्नल सचदेव राजीव (आई सी-31448), एएससी, 01 मई 2006

कर्नल भट्टाचार्य ए के, वी एस एम (आई सी-31461), इन्जि, 01 मई 2006

कर्नल झा एस के (आई सी-31468), 4 जीआर, 01 मई 2006

कर्नल मनोहरन वेंकटरमन (आई सी-31480), गढ़ रिफ, 01 मई 2006

कर्नल मजुमदार के (आई सी-31492), महार, 01 मई 2006

कर्नल पढवा पी पी एस, वी एस एम (आई सी-31498), आर्टी, 01 मई 2006

कर्नल केलकर एस एस (आई सी-31499), इन्जि., 01 मई 2006

कर्नल देव ए एस (आई सी-31502), आर्टी, 02 मई 2006

कर्नल मित्रा सुब्रतो, एस एम (आई सी-31505), मद्रास, 08 मई 2006

कर्नल गुरमित सिंह (आई सी-31509), ईएमई, 23 मई 2006

कर्नल कुलकर्णी एस एच, वी एस एम (आई सी-31521), 75 एआर, 24 मई 2006

कर्नल सन्याल पी के (आई सी-31528), एमएलआई, 01 जून 2006

कर्नल सिसोदिया जी एस (आई सी-31532), सिख, 01 जून 2006

कर्नल वर्मा बी बी (आई सी-35025), ईएमई, 01 जून 2006

कर्नल कोहली एन के (आई सी-35036), सिग्स, 01 जून 2006

कर्नल मित्तल आर एम (आई सी-35040), इन्जि., 01 जून 2006

कर्नल जोशी एस पी (आई सी-35049), सिग्स, 01 जून 2006

एन के फूकन  
एएमएस/एम एस (एम्स)

## रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं. 30, दिनांक 20 दिसम्बर 2006--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शाये गये वर्तमान ग्रेड से अगले ग्रेड पर दिनांक 01 सितम्बर 2006 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति करते हैं :--

| क्रम सं.       | नाम              | प्रयोगशाला/स्थापना | वर्तमान ग्रेड       | पदोन्नति            | पदोन्नत ग्रेड का वेतनमान |
|----------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 1              | 2                | 3                  | 4                   | 5                   | 6                        |
| (श्री/श्रीमती) |                  |                    |                     |                     |                          |
| 01.            | ए एस नसिरुद्दीन  | वी आर डी ई         | तकनीकी अधिकारी 'सी' | तकनीकी अधिकारी 'डी' | रु. 12,000-375-16,500    |
| 02.            | वी जी नैयर       | वी आर डी ई         | तकनीकी अधिकारी 'बी' | तकनीकी अधिकारी 'सी' | रु. 10,000-325-15,200    |
| 03.            | यू सी तिवारी     | वी आर डी ई         | तकनीकी अधिकारी 'बी' | तकनीकी अधिकारी 'सी' | --वही--                  |
| 04.            | पी पी महाजन      | वी आर डी ई         | तकनीकी अधिकारी 'बी' | तकनीकी अधिकारी 'सी' | --वही--                  |
| 05.            | एस एस अनवर       | आर डी ई            | तकनीकी अधिकारी 'बी' | तकनीकी अधिकारी 'सी' | --वही--                  |
| 06.            | जे आई काम्बले    | आर डी ई            | तकनीकी अधिकारी 'बी' | तकनीकी अधिकारी 'सी' | --वही--                  |
| 07.            | वी वी पवार       | आर डी ई            | तकनीकी अधिकारी 'बी' | तकनीकी अधिकारी 'सी' | --वही--                  |
| 08.            | वी आर गुजार      | आर डी ई            | तकनीकी अधिकारी 'बी' | तकनीकी अधिकारी 'सी' | --वही--                  |
| 09.            | एस के बंदी       | आर डी ई            | तकनीकी अधिकारी 'बी' | तकनीकी अधिकारी 'सी' | --वही--                  |
| 10.            | सी एस जोसेफ      | डी आई ए टी         | तकनीकी अधिकारी 'बी' | तकनीकी अधिकारी 'सी' | --वही--                  |
| 11.            | एन मोरेशवर राजू  | डी आई ए टी         | तकनीकी अधिकारी 'बी' | तकनीकी अधिकारी 'सी' | --वही--                  |
| 12.            | एन पी मुले       | डी आई ए टी         | तकनीकी अधिकारी 'ए'  | तकनीकी अधिकारी 'बी' | रु. 8,000-275-13,500     |
| 13.            | बी पी रसल        | डी आई ए टी         | तकनीकी अधिकारी 'ए'  | तकनीकी अधिकारी 'बी' | --वही--                  |
| 14.            | यू वी वानी       | वी आर डी ई         | तकनीकी अधिकारी 'ए'  | तकनीकी अधिकारी 'बी' | --वही--                  |
| 15.            | एन ए बामरे       | वी आर डी ई         | तकनीकी अधिकारी 'ए'  | तकनीकी अधिकारी 'बी' | --वही--                  |
| 16.            | एस सी श्रीवास्तव | वी आर डी ई         | तकनीकी अधिकारी 'ए'  | तकनीकी अधिकारी 'बी' | --वही--                  |
| 17.            | बी वी भोंडे      | वी आर डी ई         | तकनीकी अधिकारी 'ए'  | तकनीकी अधिकारी 'बी' | --वही--                  |
| 18.            | ए पी जेरकर       | वी आर डी ई         | तकनीकी अधिकारी 'ए'  | तकनीकी अधिकारी 'बी' | --वही--                  |
| 19.            | आर बी अंधाले     | वी आर डी ई         | तकनीकी अधिकारी 'ए'  | तकनीकी अधिकारी 'बी' | --वही--                  |
| 20.            | के एस सेबल       | वी आर डी ई         | तकनीकी अधिकारी 'ए'  | तकनीकी अधिकारी 'बी' | --वही--                  |
| 21.            | ए एम त्रिवेदी    | वी आर डी ई         | तकनीकी अधिकारी 'ए'  | तकनीकी अधिकारी 'बी' | --वही--                  |
| 22.            | एस एम तिकोटकर    | वी आर डी ई         | तकनीकी अधिकारी 'ए'  | तकनीकी अधिकारी 'बी' | --वही--                  |
| 23.            | जी एस हिरमत      | आर डी ई            | तकनीकी अधिकारी 'ए'  | तकनीकी अधिकारी 'बी' | --वही--                  |
| 24.            | आर आर पोलकमवार   | आर डी ई            | तकनीकी अधिकारी 'ए'  | तकनीकी अधिकारी 'बी' | --वही--                  |
| 25.            | सी एम आधले       | आर डी ई            | तकनीकी अधिकारी 'ए'  | तकनीकी अधिकारी 'बी' | --वही--                  |
| 26.            | एस एस बगुल       | आर डी ई            | तकनीकी अधिकारी 'ए'  | तकनीकी अधिकारी 'बी' | --वही--                  |
| 27.            | ए जे गायकवाड़    | आर डी ई            | तकनीकी अधिकारी 'ए'  | तकनीकी अधिकारी 'बी' | --वही--                  |
| 28.            | जी एस महाजन      | आर डी ई            | तकनीकी अधिकारी 'ए'  | तकनीकी अधिकारी 'बी' | --वही--                  |
| 29.            | डी के मंधारे     | आर डी ई            | तकनीकी अधिकारी 'ए'  | तकनीकी अधिकारी 'बी' | --वही--                  |
| 30.            | पी टी देशमुख     | आर डी ई            | तकनीकी अधिकारी 'ए'  | तकनीकी अधिकारी 'बी' | --वही--                  |

| 1   | 2                    | 3           | 4                   | 5                   | 6                     |
|-----|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 31. | एन पद्मा कुमारी      | डी एल आर एल | तकनीकी अधिकारी 'सी' | तकनीकी अधिकारी 'डी' | रु. 12,000-375-16,500 |
| 32. | पी कलावती            | डी एल आर एल | तकनीकी अधिकारी 'बी' | तकनीकी अधिकारी 'सी' | रु. 10,000-325-15,200 |
| 33. | एन रमा देवी          | डी एल आर एल | तकनीकी अधिकारी 'बी' | तकनीकी अधिकारी 'सी' | --वही--               |
| 34. | जी परन ज्योति        | डी एल आर एल | तकनीकी अधिकारी 'बी' | तकनीकी अधिकारी 'सी' | --वही--               |
| 35. | पी भाग्यलक्ष्मी      | डी एल आर एल | तकनीकी अधिकारी 'बी' | तकनीकी अधिकारी 'सी' | --वही--               |
| 36. | एम आर एस सुब्रमण्यम  | डी एल आर एल | तकनीकी अधिकारी 'बी' | तकनीकी अधिकारी 'सी' | --वही--               |
| 37. | ए बी रमणा कुमारी     | डी एल आर एल | तकनीकी अधिकारी 'बी' | तकनीकी अधिकारी 'सी' | --वही--               |
| 38. | एम ज्योतिश्वर राव    | डी एल आर एल | तकनीकी अधिकारी 'बी' | तकनीकी अधिकारी 'सी' | --वही--               |
| 39. | वाई शिव रामा कृष्णा  | डी एल आर एल | तकनीकी अधिकारी 'बी' | तकनीकी अधिकारी 'सी' | --वही--               |
| 40. | के बी सुब्बालक्ष्मी  | डी एल आर एल | तकनीकी अधिकारी 'बी' | तकनीकी अधिकारी 'सी' | --वही--               |
| 41. | ए सुधा               | डी एल आर एल | तकनीकी अधिकारी 'बी' | तकनीकी अधिकारी 'सी' | --वही--               |
| 42. | के विजयालक्ष्मी      | डी एल आर एल | तकनीकी अधिकारी 'बी' | तकनीकी अधिकारी 'सी' | --वही--               |
| 43. | एन लीला माधुरी       | डी एल आर एल | तकनीकी अधिकारी 'बी' | तकनीकी अधिकारी 'सी' | --वही--               |
| 44. | बी राधा बाई          | डी एल आर एल | तकनीकी अधिकारी 'बी' | तकनीकी अधिकारी 'सी' | --वही--               |
| 45. | बी यादगिरी           | डी एल आर एल | तकनीकी अधिकारी 'ए'  | तकनीकी अधिकारी 'बी' | रु. 8,000-275-13,500  |
| 46. | एम आर राधाकृष्णा     | डी एल आर एल | तकनीकी अधिकारी 'ए'  | तकनीकी अधिकारी 'बी' | --वही--               |
| 47. | सी एच गोपालाकृष्णा   | डी एल आर एल | तकनीकी अधिकारी 'ए'  | तकनीकी अधिकारी 'बी' | --वही--               |
| 48. | एन श्रीनिवासा चारी   | डी एल आर एल | तकनीकी अधिकारी 'ए'  | तकनीकी अधिकारी 'बी' | --वही--               |
| 49. | बी सुषमा             | डी एल आर एल | तकनीकी अधिकारी 'ए'  | तकनीकी अधिकारी 'बी' | --वही--               |
| 50. | बी चंद्रकला          | डी एल आर एल | तकनीकी अधिकारी 'ए'  | तकनीकी अधिकारी 'बी' | --वही--               |
| 51. | के विसालक्षी         | डी एल आर एल | तकनीकी अधिकारी 'ए'  | तकनीकी अधिकारी 'बी' | --वही--               |
| 52. | जे जयंती देवी        | डी एल आर एल | तकनीकी अधिकारी 'ए'  | तकनीकी अधिकारी 'बी' | --वही--               |
| 53. | नीरजा गोपी           | डी एल आर एल | तकनीकी अधिकारी 'ए'  | तकनीकी अधिकारी 'बी' | --वही--               |
| 54. | मुलपुरी विजयालक्ष्मी | डी एल आर एल | तकनीकी अधिकारी 'ए'  | तकनीकी अधिकारी 'बी' | --वही--               |
| 55. | के राजेश्वर राव      | आर सी आई    | तकनीकी अधिकारी 'सी' | तकनीकी अधिकारी 'डी' | रु. 12,000-375-16,500 |
| 56. | मधुबाला दुसाज        | आर सी आई    | तकनीकी अधिकारी 'बी' | तकनीकी अधिकारी 'सी' | रु. 10,000-325-15,200 |
| 57. | ए जगदम्बल            | आर सी आई    | तकनीकी अधिकारी 'बी' | तकनीकी अधिकारी 'सी' | --वही--               |
| 58. | के झांसी लक्ष्मी     | आर सी आई    | तकनीकी अधिकारी 'बी' | तकनीकी अधिकारी 'सी' | --वही--               |
| 59. | एम विजयश्री          | आर सी आई    | तकनीकी अधिकारी 'बी' | तकनीकी अधिकारी 'सी' | --वही--               |
| 60. | ए रामचंद्र शर्मा     | आर सी आई    | तकनीकी अधिकारी 'ए'  | तकनीकी अधिकारी 'बी' | रु. 8,000-275-13,500  |
| 61. | जी चेन्नाकेसव राव    | आर सी आई    | तकनीकी अधिकारी 'ए'  | तकनीकी अधिकारी 'बी' | --वही--               |
| 62. | एस केदारनाथ          | आर सी आई    | तकनीकी अधिकारी 'ए'  | तकनीकी अधिकारी 'बी' | --वही--               |
| 63. | के आर मेघाश्याम      | ए एस एल     | तकनीकी अधिकारी 'सी' | तकनीकी अधिकारी 'डी' | रु. 12,000-375-16,500 |

| 1   | 2                 | 3       | 4                   | 5                   | 6                     |
|-----|-------------------|---------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 54. | वी इमैनुअल        | ए एस एल | तकनीकी अधिकारी 'बी' | तकनीकी अधिकारी 'सी' | रु. 10,000-325-15,200 |
| 65. | के याडी रेड्डी    | ए एस एल | तकनीकी अधिकारी 'बी' | तकनीकी अधिकारी 'सी' | --वही--               |
| 66. | के बाला कृष्णा    | ए एस एल | तकनीकी अधिकारी 'बी' | तकनीकी अधिकारी 'सी' | --वही--               |
| 67. | एन सत्यनारायण राव | ए एस एल | तकनीकी अधिकारी 'ए'  | तकनीकी अधिकारी 'बी' | रु. 8,000-275-13,500  |
| 68. | डी भास्कर         | ए एस एल | तकनीकी अधिकारी 'ए'  | तकनीकी अधिकारी 'बी' | --वही--               |

2. निम्नलिखित व्यक्तियों को एस टी ए 'सी' से तकनीकी अधिकारी 'ए' के पद पर दिनांक 01 सितम्बर 2006 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति करते हैं :--

| क्रम सं.       | नाम                      | प्रयोगशाला/स्थापना | वर्तमान ग्रेड | पदोन्नति           | पदोन्नत ग्रेड का वेतनमान |
|----------------|--------------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------------|
| 1              | 2                        | 3                  | 4             | 5                  | 6                        |
| (श्री/श्रीमती) |                          |                    |               |                    |                          |
| 69.            | के सी जैन                | डी एल आर एल        | एस टी ए 'सी'  | तकनीकी अधिकारी 'ए' | रु. 7,450-225-11,500     |
| 70.            | ए एम मंजूला              | डी एल आर एल        | एस टी ए 'सी'  | तकनीकी अधिकारी 'ए' | --वही--                  |
| 71.            | के पंडू                  | डी एल आर एल        | एस टी ए 'सी'  | तकनीकी अधिकारी 'ए' | --वही--                  |
| 72.            | ए सत्यनारायणा            | ए एस एल            | एस टी ए 'सी'  | तकनीकी अधिकारी 'ए' | --वही--                  |
| 73.            | वाई एस आर के सुब्रमण्यम  | ए एस एल            | एस टी ए 'सी'  | तकनीकी अधिकारी 'ए' | --वही--                  |
| 74.            | बी नागमोहन राव           | आर सी आई           | एस टी ए 'सी'  | तकनीकी अधिकारी 'ए' | --वही--                  |
| 75.            | सी वी एस प्रसन्ना कुमारी | आर सी आई           | एस टी ए 'सी'  | तकनीकी अधिकारी 'ए' | --वही--                  |
| 76.            | के विजयश्री              | आर सी आई           | एस टी ए 'सी'  | तकनीकी अधिकारी 'ए' | --वही--                  |
| 77.            | के एम उषा                | आर सी आई           | एस टी ए 'सी'  | तकनीकी अधिकारी 'ए' | --वही--                  |

2. निम्नलिखित व्यक्तियों को एस टी ए 'सी' से तकनीकी अधिकारी 'ए' और टी ए 'सी' से तकनीकी अधिकारी के पद पर दिनांक 01 सितम्बर 2006 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति करते हैं :--

| क्रम सं.       | नाम            | प्रयोगशाला/स्थापना | वर्तमान ग्रेड | पदोन्नति           | पदोन्नत ग्रेड का वेतनमान |
|----------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------------|
| 1              | 2              | 3                  | 4             | 5                  | 6                        |
| (श्री/श्रीमती) |                |                    |               |                    |                          |
| 01.            | आर एन वागमरे   | आर डी ई            | एस टी ए 'सी'  | तकनीकी अधिकारी 'ए' | रु. 7,450-225-11,500     |
| 02.            | एम आर त्रिभुवन | आर डी ई            | एस टी ए 'सी'  | तकनीकी अधिकारी 'ए' | --वही--                  |
| 03.            | एस एस लोंकर    | आर डी ई            | एस टी ए 'सी'  | तकनीकी अधिकारी 'ए' | --वही--                  |
| 04.            | पी बी धावेलकर  | आर डी ई            | एस टी ए 'सी'  | तकनीकी अधिकारी 'ए' | --वही--                  |
| 05.            | डी आर मदबल     | आर डी ई            | एस टी ए 'सी'  | तकनीकी अधिकारी 'ए' | --वही--                  |
| 06.            | वी एस भोसले    | आर डी ई            | एस टी ए 'सी'  | तकनीकी अधिकारी 'ए' | --वही--                  |
| 07.            | एम एच घोड़कर   | आर डी ई            | एस टी ए 'सी'  | तकनीकी अधिकारी 'ए' | --वही--                  |
| 08.            | एन के गरिया    | आर डी ई            | एस टी ए 'सी'  | तकनीकी अधिकारी 'ए' | --वही--                  |
| 09.            | एन बी अदिक     | वी आर डी ई         | एस टी ए 'सी'  | तकनीकी अधिकारी 'ए' | --वही--                  |

| 1   | 2                    | 3           | 4                   | 5                   | 6                     |
|-----|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 31. | एन पद्मा कुमारी      | डी एल आर एल | तकनीकी अधिकारी 'सी' | तकनीकी अधिकारी 'डी' | रु. 12,000-375-16,500 |
| 32. | पी कलावती            | डी एल आर एल | तकनीकी अधिकारी 'बी' | तकनीकी अधिकारी 'सी' | रु. 10,000-325-15,200 |
| 33. | एन रमा देवी          | डी एल आर एल | तकनीकी अधिकारी 'बी' | तकनीकी अधिकारी 'सी' | --वही--               |
| 34. | जी परन ज्योति        | डी एल आर एल | तकनीकी अधिकारी 'बी' | तकनीकी अधिकारी 'सी' | --वही--               |
| 35. | पी भाग्यलक्ष्मी      | डी एल आर एल | तकनीकी अधिकारी 'बी' | तकनीकी अधिकारी 'सी' | --वही--               |
| 36. | एम आर एस सुब्रमण्यम  | डी एल आर एल | तकनीकी अधिकारी 'बी' | तकनीकी अधिकारी 'सी' | --वही--               |
| 37. | ए वी रमणा कुमारी     | डी एल आर एल | तकनीकी अधिकारी 'बी' | तकनीकी अधिकारी 'सी' | --वही--               |
| 38. | एम ज्योतिश्वर राव    | डी एल आर एल | तकनीकी अधिकारी 'बी' | तकनीकी अधिकारी 'सी' | --वही--               |
| 39. | वाई शिव रामा कृष्णा  | डी एल आर एल | तकनीकी अधिकारी 'बी' | तकनीकी अधिकारी 'सी' | --वही--               |
| 40. | के बी सुब्बालक्ष्मी  | डी एल आर एल | तकनीकी अधिकारी 'बी' | तकनीकी अधिकारी 'सी' | --वही--               |
| 41. | ए सुधा               | डी एल आर एल | तकनीकी अधिकारी 'बी' | तकनीकी अधिकारी 'सी' | --वही--               |
| 42. | के विजयालक्ष्मी      | डी एल आर एल | तकनीकी अधिकारी 'बी' | तकनीकी अधिकारी 'सी' | --वही--               |
| 43. | एन लीला माधुरी       | डी एल आर एल | तकनीकी अधिकारी 'बी' | तकनीकी अधिकारी 'सी' | --वही--               |
| 44. | बी राधा बाई          | डी एल आर एल | तकनीकी अधिकारी 'बी' | तकनीकी अधिकारी 'सी' | --वही--               |
| 45. | बी यादगिरी           | डी एल आर एल | तकनीकी अधिकारी 'ए'  | तकनीकी अधिकारी 'बी' | रु. 8,000-275-13,500  |
| 46. | एम आर राधाकृष्णा     | डी एल आर एल | तकनीकी अधिकारी 'ए'  | तकनीकी अधिकारी 'बी' | --वही--               |
| 47. | सी एच गोपालाकृष्णा   | डी एल आर एल | तकनीकी अधिकारी 'ए'  | तकनीकी अधिकारी 'बी' | --वही--               |
| 48. | एन श्रीनिवासा चारी   | डी एल आर एल | तकनीकी अधिकारी 'ए'  | तकनीकी अधिकारी 'बी' | --वही--               |
| 49. | वी सुषमा             | डी एल आर एल | तकनीकी अधिकारी 'ए'  | तकनीकी अधिकारी 'बी' | --वही--               |
| 50. | बी चंद्रकला          | डी एल आर एल | तकनीकी अधिकारी 'ए'  | तकनीकी अधिकारी 'बी' | --वही--               |
| 51. | के विसालक्षी         | डी एल आर एल | तकनीकी अधिकारी 'ए'  | तकनीकी अधिकारी 'बी' | --वही--               |
| 52. | जे जयंती देवी        | डी एल आर एल | तकनीकी अधिकारी 'ए'  | तकनीकी अधिकारी 'बी' | --वही--               |
| 53. | नीरजा गोपी           | डी एल आर एल | तकनीकी अधिकारी 'ए'  | तकनीकी अधिकारी 'बी' | --वही--               |
| 54. | मुलपुरी विजयालक्ष्मी | डी एल आर एल | तकनीकी अधिकारी 'ए'  | तकनीकी अधिकारी 'बी' | --वही--               |
| 55. | के राजेश्वर राव      | आर सी आई    | तकनीकी अधिकारी 'सी' | तकनीकी अधिकारी 'डी' | रु. 12,000-375-16,500 |
| 56. | मधुबाला दुसाज        | आर सी आई    | तकनीकी अधिकारी 'बी' | तकनीकी अधिकारी 'सी' | रु. 10,000-325-15,200 |
| 57. | ए जगदम्बल            | आर सी आई    | तकनीकी अधिकारी 'बी' | तकनीकी अधिकारी 'सी' | --वही--               |
| 58. | के झांसी लक्ष्मी     | आर सी आई    | तकनीकी अधिकारी 'बी' | तकनीकी अधिकारी 'सी' | --वही--               |
| 59. | एम विजयश्री          | आर सी आई    | तकनीकी अधिकारी 'बी' | तकनीकी अधिकारी 'सी' | --वही--               |
| 60. | ए रामचंद्र शर्मा     | आर सी आई    | तकनीकी अधिकारी 'ए'  | तकनीकी अधिकारी 'बी' | रु. 8,000-275-13,500  |
| 61. | जी चेन्नाकेसव राव    | आर सी आई    | तकनीकी अधिकारी 'ए'  | तकनीकी अधिकारी 'बी' | --वही--               |
| 62. | एस केदारनाथ          | आर सी आई    | तकनीकी अधिकारी 'ए'  | तकनीकी अधिकारी 'बी' | --वही--               |
| 63. | के आर मेघाश्याम      | ए एस एल     | तकनीकी अधिकारी 'सी' | तकनीकी अधिकारी 'डी' | रु. 12,000-375-16,500 |

| 1   | 2                 | 3       | 4                   | 5                   | 6                     |
|-----|-------------------|---------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 54. | वी इमैनुअल        | ए एस एल | तकनीकी अधिकारी 'बी' | तकनीकी अधिकारी 'सी' | रु. 10,000-325-15,200 |
| 65. | के याडी रेड्डी    | ए एस एल | तकनीकी अधिकारी 'बी' | तकनीकी अधिकारी 'सी' | --वही--               |
| 66. | के बाला कृष्णा    | ए एस एल | तकनीकी अधिकारी 'बी' | तकनीकी अधिकारी 'सी' | --वही--               |
| 67. | एन सत्यनारायण राव | ए एस एल | तकनीकी अधिकारी 'ए'  | तकनीकी अधिकारी 'बी' | रु. 8,000-275-13,500  |
| 68. | डी भास्कर         | ए एस एल | तकनीकी अधिकारी 'ए'  | तकनीकी अधिकारी 'बी' | --वही--               |

2. निम्नलिखित व्यक्तियों को एस टी ए 'सी' से तकनीकी अधिकारी 'ए' के पद पर दिनांक 01 सितम्बर 2006 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति करते हैं :--

| क्रम सं.       | नाम                      | प्रयोगशाला/स्थापना | वर्तमान ग्रेड | पदोन्नति           | पदोन्नत ग्रेड का वेतनमान |
|----------------|--------------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------------|
| 1              | 2                        | 3                  | 4             | 5                  | 6                        |
| (श्री/श्रीमती) |                          |                    |               |                    |                          |
| 69.            | के सी जैन                | डी एल आर एल        | एस टी ए 'सी'  | तकनीकी अधिकारी 'ए' | रु. 7,450-225-11,500     |
| 70.            | ए एम मंजूला              | डी एल आर एल        | एस टी ए 'सी'  | तकनीकी अधिकारी 'ए' | --वही--                  |
| 71.            | के पंडू                  | डी एल आर एल        | एस टी ए 'सी'  | तकनीकी अधिकारी 'ए' | --वही--                  |
| 72.            | ए सत्यनारायणा            | ए एस एल            | एस टी ए 'सी'  | तकनीकी अधिकारी 'ए' | --वही--                  |
| 73.            | वाई एस आर के सुब्रमण्यम  | ए एस एल            | एस टी ए 'सी'  | तकनीकी अधिकारी 'ए' | --वही--                  |
| 74.            | बी नागमोहन राव           | आर सी आई           | एस टी ए 'सी'  | तकनीकी अधिकारी 'ए' | --वही--                  |
| 75.            | सी वी एस प्रसन्ना कुमारी | आर सी आई           | एस टी ए 'सी'  | तकनीकी अधिकारी 'ए' | --वही--                  |
| 76.            | के विजयश्री              | आर सी आई           | एस टी ए 'सी'  | तकनीकी अधिकारी 'ए' | --वही--                  |
| 77.            | के एम उषा                | आर सी आई           | एस टी ए 'सी'  | तकनीकी अधिकारी 'ए' | --वही--                  |

2. निम्नलिखित व्यक्तियों को एस टी ए 'सी' से तकनीकी अधिकारी 'ए' और टी ए 'सी' से तकनीकी अधिकारी के पद पर दिनांक 01 सितम्बर 2006 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति करते हैं :--

| क्रम सं.       | नाम            | प्रयोगशाला/स्थापना | वर्तमान ग्रेड | पदोन्नति           | पदोन्नत ग्रेड का वेतनमान |
|----------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------------|
| 1              | 2              | 3                  | 4             | 5                  | 6                        |
| (श्री/श्रीमती) |                |                    |               |                    |                          |
| 01.            | आर एन बागमरे   | आर डी ई            | एस टी ए 'सी'  | तकनीकी अधिकारी 'ए' | रु. 7,450-225-11,500     |
| 02.            | एम आर त्रिभुवन | आर डी ई            | एस टी ए 'सी'  | तकनीकी अधिकारी 'ए' | --वही--                  |
| 03.            | एस एस लोंकर    | आर डी ई            | एस टी ए 'सी'  | तकनीकी अधिकारी 'ए' | --वही--                  |
| 04.            | पी बी धावेलकर  | आर डी ई            | एस टी ए 'सी'  | तकनीकी अधिकारी 'ए' | --वही--                  |
| 05.            | डी आर मदबल     | आर डी ई            | एस टी ए 'सी'  | तकनीकी अधिकारी 'ए' | --वही--                  |
| 06.            | वी एस भोसले    | आर डी ई            | एस टी ए 'सी'  | तकनीकी अधिकारी 'ए' | --वही--                  |
| 07.            | एम एच घोड़कर   | आर डी ई            | एस टी ए 'सी'  | तकनीकी अधिकारी 'ए' | --वही--                  |
| 08.            | एन के गरिया    | आर डी ई            | एस टी ए 'सी'  | तकनीकी अधिकारी 'ए' | --वही--                  |
| 09.            | एन बी अदिक     | वी आर डी ई         | एस टी ए 'सी'  | तकनीकी अधिकारी 'ए' | --वही--                  |



| 1   | 2            | 3          | 4            | 5                  | 6                    |
|-----|--------------|------------|--------------|--------------------|----------------------|
| 10. | डी ई गिरमे   | वी आर डी ई | एस टी ए 'सी' | तकनीकी अधिकारी 'ए' | रु. 7,450-225-11,500 |
| 11. | एस के कुलंगे | वी आर डी ई | एस टी ए 'सी' | तकनीकी अधिकारी 'ए' | --वही--              |
| 12. | वी यू मेंडरे | वी आर डी ई | एस टी ए 'सी' | तकनीकी अधिकारी 'ए' | --वही--              |
| 13. | आर जी भंडारे | वी आर डी ई | टी ए 'सी'    | तकनीकी अधिकारी     | --वही--              |

2. निम्नलिखित व्यक्तियों को एस टी ए 'सी' से तकनीकी अधिकारी 'ए' के पद पर दिनांक 25 सितम्बर 2006 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति करते हैं :--

| क्रम सं.       | नाम       | प्रयोगशाला/स्थापना | वर्तमान ग्रेड | पदोन्नति           | पदोन्नत ग्रेड का वेतनमान |
|----------------|-----------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------------|
| 1              | 2         | 3                  | 4             | 5                  | 6                        |
| (श्री/श्रीमती) |           |                    |               |                    |                          |
| 01.            | बी एस पंड | वी आर डी ई         | एस टी ए 'सी'  | तकनीकी अधिकारी 'ए' | रु. 7,450-225-11,500     |

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शाये गये वर्तमान ग्रेड से अगले ग्रेड पर दिनांक 04 अक्टूबर 2006 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति करते हैं :--

| क्रम सं.       | नाम                   | प्रयोगशाला/स्थापना | वर्तमान ग्रेड       | पदोन्नति            | पदोन्नत ग्रेड का वेतनमान |
|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 1              | 2                     | 3                  | 4                   | 5                   | 6                        |
| (श्री/श्रीमती) |                       |                    |                     |                     |                          |
| 01.            | एन जी बी वी वर कुमारी | डी एल आर एल        | तकनीकी अधिकारी 'बी' | तकनीकी अधिकारी 'सी' | रु. 10,000-325-15,200    |

भारत भूषण शर्मा  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-1)

सं. 31, दिनांक 20 दिसम्बर 2006--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :--

निम्नलिखित वरिष्ठ भण्डार अधिकारी ग्रेड-1 को दिनांक 01 सितम्बर 2006 से 31 दिसम्बर 2006 तक निकट भविष्य की अवधि की मुख्य प्रशासन अधिकारी की पद पर तदर्थ आधार पर वेतनमान रु. 12,000-375-16,500 पर :--

| नाम              | स्थापना                                      |
|------------------|--|
| श्री एम सी तनवर  | एम एम निदेशालय, डी आर डी ओ एच क्यू नई दिल्ली |
| श्री एस पी सरकार | एन एस टी एल, विशाखापट्टनम                    |

श्री निषित टोपनो, वैज्ञानिक 'बी', आर सी एम ए, एच ए एल, हैदराबाद को दिनांक 01.07.2006 से रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा में वैज्ञानिक 'सी' के रूप में वेतनमान रु. 10,000-325-15,200 पर।

प्री सारथ  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

वायु सेना

सं. 32, दिनांक 19 दिसम्बर 2006--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं :--

भारतीय वायु सेना

विंग कमांडर से ग्रुप कैप्टन (टाइम स्केल) के मूल रैंक में

उड़ान शाखा

दिनांक 23 अगस्त 2005 को पारित किया गया है

वाई सिंह (15013), और आर एस मान (15434), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

एफ (एन) शाखा

ए के सिंह (15326), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

प्रशासनिक शाखा

पी के नारमबियार (13874), आर श्रीवास्तव (15234), आर के मिश्रा (13001) और एस के पाठक (13648), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

## संभारिकी शाखा

एच एल नारंग (14518), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

## ए इ एम शाखा

एच एस् मवी (15842), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

स्कवाड्रन लीडर से विंग कमांडर के मूल रैंक में

## उड़ान शाखा

पी साहू (16413), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

## प्रशासनिक शाखा

एन पी रागेश (18139), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

## संभारिकी शाखा

डी चक्रवर्ती (16224), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

## एइएल शाखा

एस शर्मा (22041), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

## अल्पकालीन सेवा कमीशन

फ्लाइट लेफ्टिनेंट से स्कवाड्रन लीडर के मूल रैंक में

## उड़ान शाखा

(मिसेज) चेरयल दत्ता (23834), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

## प्रशासनिक शाखा

(मिसेज) प्रेम वंदना (25186), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

फ्लाईंग ऑफिसर से फ्लाइट लेफ्टिनेंट के मूल रैंक में

## ए इ एल शाखा

(मिस) एलिपय परमज्योति (26677), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

एस श्रीवास्तव

विंग कमांडर

जे डी पी अँ 3-(डी)

## रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 33, दिनांक 15 दिसम्बर 2006--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने अर्थात् 60 वर्ष के होने पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सामने लिखी तिथियों से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गये हैं :--

(क) श्री वेद प्रकाश 31 अक्टूबर 2006 (1 नवम्बर 2006  
निजी सचिव से पेंशन स्थापना को स्थानांतरित)

अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने अर्थात् 60 वर्ष होने पर अनुसंधान एवं विकास संगठन में कार्यरत अनुभाग अधिकारी श्रीमती शांति, 30 नवम्बर 2005 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गई हैं। और 01 दिसम्बर 2005 से पेंशन स्थापना में स्थानांतरित कर दिए गए हैं।

एन मारिअप्पन

उप मुख्य प्रशासन अधिकारी (प्रशा.)

MINISTRY OF DEFENCE  
ARMY BRANCH

New Delhi, the 13th January 2007

No. 19, dated 14th December 2006—The President is pleased to make the following appointments :

ARMY POSTAL SERVICE  
TEMPORARY COMMISSION

The undermentioned JCOs of the Army Postal Service Corps are granted temporary commission (on probation) with effect from the dates noted against each in the rank of Lieutenant under AI 29/85. Their temporary commission (on probation) is confirmed from the date consequent on the completion of the period of probation:—

JC-834361M Nb Sub T Mohan (Now TC-31554A Lt), 5 July 2004

JC-8344331A Nb Sub Jitendra Kumar Thakur (Now TC-31555H Lt), 6 July 2004

JC-834109N Sub Krishnan Asai Natarajan (Now TC-31556L Lt), 5 July 2004

JC-834363X Nb Sub Dillip Kumar Behera (Now TC-31557N Lt) 5 July 2004

JC-207110F Sub Harihar Prasad Dwivedi (Now TC-31558W Lt) 5 July 2004

JC-834034F Sub Sebastian Vincent Sekar (Now TC-31559Y Lt), 26 July 2004

JC-834382H Nb Sub Nirmal Chandra Pandey (Now TC-31560N Lt) 6 Jul 2004

JC-834434N Nb Sub Manish Kumar Sexana (Now TC-31561W Lt), 6 July 2004

8373883N WO Hayat Ullah Khan (Now TC-31562Y Lt), 6 July 2004

JC-219847H Sub Shiblal Joshi (Now TC-31563F Lt), 5 July 2004

8373826M WO Balasubramanian Sivaraman (Now TC-31564K Lt), 6 July 2004

T. K. M. PILLAI  
Under Secy.

RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 20, dated 15th December 2006—The President is pleased to appoint the following Assistants as Section Officers under Rule 7 (8) of AFHQ Civil service Rule 2001 from 24 Aug 2005 to 23 Feb 2006 or till a regular incumbent become available or till retire whichever is earlier :—

(a) Radha G Nair (Smt.)

(b) Dev Raj

(c) Duli Chand

(d) Raghu Raj Singh

(e) Prem Singh

(f) P. N. Sharma

(g) G. S. Verma

(h) Dhrma Raj Sharma

(i) Nirmla (Smt.)

(j) Ramesh Chand Haswnai

(k) Sankar Bose

(l) S. K. Kapoor (Smt.)

(Authority : A/47922/SO/7(8)/2005 CAO/P-1/57 dated 29 Sep 2005)

N. MARIAPPAN  
Dy. Chief Administrative Officer (A)

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT  
ORGANISATION

No. 21, dated 20th December 2006—The President is pleased to make the following appointments :—

The undermentioned individuals to be temporary Scientist(s) 'B' (Group 'A') in the Defence Research & Development Service on probation for a period of two years with effect from the date shown against their names in pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- :—

Name, Estt., Date of Apptt

Shri Kakani Balram Reddy, ANURAG, Hyderabad  
12.04.2004

Shri Dilip Kumar Dalei, ANURAG, Hyderabad, 06.09.2004

Shri Amit Acharyya, ANURAG, Hyderabad, 22.09.2005

Shri Somnath Mondal, ANURAG, Hyderabad, 22.09.2005

Shri Lokesh Srivastava, ASL, Hyderabad, 22.09.2005

Shri Tarak Nath De, ASL, Hyderabad, 22.09.2005

Shri T. Ramalingam, ASL, Hyderabad, 22.09.2005

Shri Ankit Bansal, ASL, Hyderabad, 22.09.2005

Shri Thamada Venugopala Rao, ASL, Hyderabad,  
22.09.2005]

Shri S. Balasubramanian, ASL, Hyderabad, 22.09.2005

Ms. Rhea George, ASL, Hyderabad, 22.09.2005

Shri Debashish Mukherjee, ASL, Hyderabad, 22.09.2005

Shri Shiva Kumara, TM, CCE (R & D), Secunderabad,  
13.06.2002

Shri Vinod Kumar Pothurabu, CCE (R&D), Secunderabad, 06.03.2003

Shri Aditya Kumar Mishra, CEMILAC, Bangalore, 22.09.2005

Shri Prashant Kumar, CEMILAC, Bangalore, 22.09.2005

Shri Gajam Chandrashekhar, DLRL, Hyderabad, 06.03.2003

Shri Venkat, DMRL, Hyderabad, 22.12.2003

Shri Siva Suri Chandra Rao Bhesetti, DMRL, Hyderabad, 06.09.2004

Shri Sauvik Bhuyan, DMRL, Hyderabad, 22.09.2005

Shri K. Vamsi Krishna Reddy, DRDL, Hyderabad, 03.04.2003

Ms. Arava Leena Raj, DRDL, Hyderabad, 12.04.2004

Shri Paturu Rajeswara Rao, DRDL, Hyderabad, 12.04.2004

Shri Ganesan S, DRDL, Hyderabad, 22.09.2005

Shri Shivakumar R Inamati, DRDL, Hyderabad, 22.09.2005

Shri Ravindra Singh Rawat, DRDL, Hyderabad, 22.09.2005

Shri Vemula Sunanda Babu, NSTL, Visakhapatnam, 12.04.2004

Shri Regiva Abisekaraj I, NSTL, Visakhapatnam, 12.04.2004

Shri K. Murali Krishna, RCI, Hyderabad, 06.03.2003

Shri Varakantham Satish Reddy, RCI, Hyderabad, 12.04.2004

Shri Tanumoy Biswas, RCI, Hyderabad, 22.09.2005

Ms. Shampa Sarkar, RCI, Hyderabad, 22.09.2005

Shri Vipul Kumar Bharti, RCI, Hyderabad, 22.09.2005

Shri Alok Kumar, RCMA, Kanpur, 12.04.2004

Shri Vikash Bhardwaj, ADRDE, Agra, 18.04.2002

Shri Sudhakar Prasad, ADRDE, Agra, 13.06.2002

Shri Bhaktvatsala Kumar Singh, ADRDE, Agra, 21.04.2004

Smt. Ch. N. Sowgandhi, AFSB, Mysore, 29.12.2003

Shri Aman Arora, ARDE, Pune, 23.09.2002

Shri Hiwale Sunil Bhaginath, ARDE, Pune, 12.04.2004

Shri Dharendra Kumar, ARDE, Pune, 12.04.2004

Shri Satyendra Singh, ARDE, Pune, 12.04.2004

Shri Dave Himanshu Pramodkumar, ARDE, Pune, 12.04.2004

Shri Patil Nilesh Yashawantrao, ARDE, Pune, 12.04.2004

Shri Hanuman Prasad Agrahari, ARDE, Pune, 12.04.2004

Shri Vijaykumar Boodappanavar, ARDE, Pune, 12.04.2004

Shri Suvash Kumar, ARDE, Pune, 12.04.2004

Shri Sanjay Mohan Gupta, DARL, Pithoragarh, 05.01.2004

Shri Deepak Jassal, DEAL, Dehradun, 06.03.2003

Shri Pramod Dhande, DEAL, Dehradun, 06.03.2003

Shri Ved Prakash Singh, DEAL, Dehradun, 06.03.2003

Shri Abhishek Srivastava, DEAL, Dehradun, 06.03.2003

Shri Vijay Kumar, DEAL, Dehradun, 28.08.2003

Shri Vijay Garg, DEAL, Dehradun, 12.04.2004

Shri Piyush Ranjan Jaiswal, DEAL, Dehradun, 12.04.2004

Shri Naresh Kumar, DLJ, Jodhpur, 12.04.2004

Shri Amit Kumar Sharma, DLJ, Jodhpur, 12.04.2004

Shri Srinivas Vutukuri, DLRL, Hyderabad, 12.04.2004

Dr. Tikar Sachin Narayanrao, DRDE, Gwalior, 29.12.2003

Dr. T. Parimelazhagan, FRL, Leh, 15.01.2004

Shri Saji J., HEMRL, Pune, 06.03.2003

Shri Pankaj Verma, HEMRL, Pune, 06.03.2003

Shri Abhay Kumar Yadav, HEMRL, Pune, 06.03.2003

Shri M. Anniyappan, HEMRL, Pune, 06.03.2003

Shri Balesh Ropia, HEMRL, Pune, 06.03.2003

Ms. Diana Mary John, HEMRL, Pune, 05.01.2004

Shri Ananta Saikia, HEMRL, Pune, 12.04.2004

Shri Munni Nath Manda, HEMRL, Pune, 12.04.2004

Shri Kamlesh Verma, IRDE, Dehradun, 18.04.2002

Shri Shriniwash, IRDE, Dehradun, 06.03.2003

Shri Nitin Kumar, IRDE, Dehradun, 28.08.2003

Shri Kamal Kishor Pant, IRDE, Dehradun, 12.04.2004

Shri Amit Kumar, IRDE, Dehradun, 12.04.2004

Shri Sahil Sharma, IRDE, Dehradun, 12.04.2004

Shri Pankaj Srivastava, IRDE, Dehradun, 12.04.2004

Shri Pratap Chandra Sahoo, ITR, Balasore, 05.01.2004

Shri Madhusudan Biswas, ITR, Balasore, 12.04.2004

Shri Abhilash CS., PXE, Balasore, 05.01.2004

Shri Kunal Ray, PXE, Balasore, 12.04.2004

Shri Shesh Rao Rathod, R&DE(E), Pune, 13.06.2002

Shri Sanjay Hanmant Bhise, R&DE(E), Pune, 06.03.2003

Shri Trinadh Basava Raju A, R&DE(E), Pune, 12.04.2004

Shri Godbole Mayur Gopal, R&DE(E), Pune, 12.04.2004

Shri Satyendra Kumar Vishwakarma, R&DE(E), Pune, 12.04.2004

Shri Ashish Mohan, R&DE(E), Pune, 12.04.2004

Shri Ravindra Tamhankar, R&DE(E), Pune, 12.04.2004

Shri Durlabh Singh Kowal, SCC, Bhopal, 22.12.2003

Ms. Nidhi Maheshwari, SCE, Allahabad, 28.03.2004

Shri Amrit Kumar Sadh, SPIC, New Delhi, 12.04.2004

Shri Deepak Kumar Mohanty, SSPL, Delhi, 06.03.2003

Shri Naresh Chandra Patnaik, ANURAG, Hyderabad, 06.03.2003

Shri Karella Ganesh Babu, ARDE, Pune, 13.06.2002

Shri G. B. Shubanth, ASL, Hyderabad, 03.03.2003

Shri Sharad Manohar Gajbhiye, ASL, Hyderabad, 10.03.2003

Shri Shekhar Kumar Singh, ASL, Hyderabad, 12.04.2004

Shri Rambabu Govada, ASL, Hyderabad, 12.04.2004

Shri Yashpal, CABS, Bangalore, 12.04.2004

Shri Sheel Kamal Gupta, CCE (R&D), Secunderabad, 04.12.2000

Shri Ajaze Parvez Khan, DEAL, Dehradun, 13.06.2002

Shri Sanjay, DEAL, Dehradun, 13.06.2002

Shri Nishant Kumar, DESIDOC, Delhi, 12.04.2004

Ms. Bhoopath Rao Chaya Devi, DLRL, Hyderabad, 18.04.2002

Shri Yogesh TV, DLRL, Hyderabad, 13.06.2002

Shri Sheesh Ram, DLRL, Hyderabad, 22.09.2005

Shri Uttam Mahavir Magdum, DLRL, Hyderabad, 22.09.2005

Shri Dipankar Nath, DLRL, Hyderabad, 22.09.2005

Shri Mithun Palit, DMRL, Hyderabad, 06.03.2003

Shri Amit Kumar Soni, DMSRDE, Kanpur, 12.04.2004

Shri Venkateswarlu Chepuru, DRDL, Hyderabad, 11.07.2001

Shri Anil Kumar, DRDL, Hyderabad, 13.06.2002

Shri Praneeth A, DRDL, Hyderabad, 12.04.2004

Shri Anil Kumar Goswami, DTRL, Delhi, 06.03.2003

Shri Dipak Kumar Mallik, LASTEC, Delhi, 11.03.2004

Ms. Madhuri Yadav, LASTEC, Delhi, 12.04.2004

Ms. Aleena Sasikumar, LRDE, Bangalore, 06.03.2003

Shri Daya Lama, NMRL, Ambarnath, 23.09.2002

Shri Shiv Kumar, NPOL, Kochi, 23.09.2002

Shri James K Johny, NPOL, Kochi, 12.04.2004

Shri Unnata Layek, RCI, Hyderabad, 11.07.2001

Shri Girish Mishra, SAG, Delhi, 06.03.2003

Shri Abhijeet Kumar Singh, SAG, Delhi, 06.03.2003

Shri Bhartendu Nandan, SAG, Delhi, 06.03.2003

Shri Naveen Kumar, SPIC, New Delhi, 12.04.2004

Shri Vibhu Sharma, SPIC, New Delhi, 12.04.2004

Shri Amit Patel, SPIC, New Delhi, 12.04.2004

Ms. Pragati Dhir, TBRL, Chandigarh, 12.04.2004

Shri Harish Kumar Chakerwari, TBRL, Chandigarh, 12.04.2004

Shri Kishor Choudhury, WESEE, New Delhi, 04.02.2002

The undermentioned individual(s) to be temporary Senior Administrative Officer (Group 'A' Gazetted) in the Defence Research & Development Organisation on probation for a period of one year with effect from the date shown against their names in the pay scale of Rs. 10,000-375-15,200/- :—

Name, Estt., Date of Apptt.

Shri S. Prakash, CAIR, Bangalore, 21.04.2003

Shri Nanda Dulal Das, NPOL, Kochi, 20.05.2004

Shri Krishna Kumar Soni, DMSRDE, Kanpur, 06.11.2003

Shri Venkata Narayana Rao Kadium, NMRL, Ambarnath, 22.03.2004

Shri Ashish Gour, INMAS, Delhi, 20.01.2004

The undermentioned individual(s) to be temporary Scientist(s) 'B' (Group 'A') in the Defence Research & Development Service on probation for a period of two years with effect from the date shown against their names in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- :—

Name, Estt., Date of Apptt.

Shri Kalyan Kumar Suvvada, ANURAG, Hyderabad, 12.04.2004

Shri Swarnava Ray, ANURAG, Hyderabad, 12.04.2004

Shri Matta Ravibabu, ANURAG, Hyderabad, 12.04.2004

# NAVY BRANCH

Ms. G. Yasaswini Jyothi, ANURAG, Hyderabad, 12.04.2004

Shri Bappaditya Jana, ASL, Hyderabad, 06.09.2004

Shri Manoj Krishna Majumdar, ASL, Hyderabad, 06.09.2004

Shri Pushpendu Chand, ASL, Hyderabad, 06.09.2004

Ms. N. Sowmya, ASL, Hyderabad, 12.04.2004

Shri G. Rajesh, ASL, Hyderabad, 06.03.2003

Shri Rajiv Kumar, ASL, Hyderabad, 23.09.2002

Shri P. Sridhar, ASL, Hyderabad, 06.03.2003

Shri Suresh Kumar, ASL, Hyderabad, 23.09.2002

Shri Lukkana Varaprasad, ASL, Hyderabad, 12.04.2004

Shri Srinivasarao Vana, ASL, Hyderabad, 06.03.2003

Shri Sreenivas Sistla, CCE (R&D), Secunderabad, 26.11.2001

Ms. A. Lakshmi Vasantha, DLRL, Hyderabad, 18.04.2002

Shri Satyanarayana Addagalla, DRDL, Hyderabad, 06.03.2003

Shri Raj Kumar Pahade, DRDL, Hyderabad, 28.08.2003

Shri Abhishek Kumar, DRDL, Hyderabad, 28.08.2003

Shri Nagendra Babu Samineni, DRDL, Hyderabad, 06.03.2003

Smt. Sandhya R. Nair, DRDL, Hyderabad, 23.09.2002

Shri Nageswara Rao Mamidi, NSTL, Visakhapatnam, 23.02.2004

Shri Ashok Kumar, NSTL, Visakhapatnam, 06.03.2003

Shri Palash Biswas, NSTL, Visakhapatnam, 12.04.2004

Shri Kushal Bhattacharya, NSTL, Visakhapatnam, 12.04.2004

Ms. Ncelaju Rajini, RCI, Hyderabad, 12.04.2004

Shri Patta Bhanu Srinivas, RCI, Hyderabad, 18.04.2002

Shri Hanumandla Madhukar, RCI/Programme 'AD', Hyderabad, 13.06.2002

Shri K. G. Chandrasekar, RCI/Programme 'AD', Hyderabad, 06.03.2003

Shri Deepak Yadav, RCI/Programme 'AD', Hyderabad, 06.03.2003

No. 22, dated 18th December 2006—The President is pleased to appoint the following Foremen, as Group 'B' Gazetted Officers in their respective trade in the pay scale of Rs. 7,450-225-11,500/- w.e.f. 02 Jan 2006.

Sl. Name  
No.

S/Shri

1. K. K. Visveswara Rao
2. U. Dalai
3. J. Janardhana Rao
4. K. G. Krishna Rao
5. R. Narasinga Rao
6. K.N.K. Rao
7. G. Nageswara Rao
8. CH. Venkateswara Rao
9. M.K. Premanandham
10. CH. Sarat Babu
11. N. Appa Rao
12. N.V. Mankar
13. B.P. Ranga Rao
14. M.R. Krishna Rao
15. R.A. Pillai
16. P.K. Sahu
17. G. Abbulu
18. M. Natarajan
19. S. Sahu
20. M. Subhash
21. P.C. Sarkar
22. T. Eswara Rao
23. S.V. Ramana
24. B. Sudarsana Rao
25. P.R. Potula
26. K. Krishna Murthy
27. G.V. Subbaiah
28. J.K. Chakraborty
29. A.V.A. Marar

P. SARATH  
Jt. Dir. (Pers)

30. P Lakshmana Rao
31. Y Suryanarayana
32. G Trinadha Rao
33. Kaki Appa Rao
34. V Appala Raju
35. BVS Anand
36. KP Sugathan
37. YMM Narasinga Rao
38. B Suribabu
39. K John David Raju
40. M Suribabu
41. M Adinarayana
42. G Joseph
43. PA Achari
44. M Ghosh
45. S Surappadu
46. ACH Appa Rao
47. KJ Bhaskara Rao
48. CH Subba Rao
49. S Butchi Babu
50. NHKP Rao
51. NBS Prabhakara Rao
52. BV Prasada Rao
53. SG Mohiddin
54. P Bhaskara Rao
55. GVR Kumar
56. Y Lohithasudu
57. MG Sundaram
58. P Appa Rao
59. G. Satyanarayana

V. RAJAGOPALAN  
Director (G)

#### NATIONAL CADET CORPS

No. 23, dated 19th December 2006—The President is pleased to grant the rank of Lt Col to NCC-PC-11871 Maj

(Retd) RP Lamba in the National Cadet Corps from the date mentioned against the officer's Name :—

NCC No., Rank, Name and Date, Rank awarded, Date from which awarded

NCC/PC/11871 Maj RP Lamba 2 Mah Bn NCC, Senapati Bapat Path, Pune-411004, Lt Col, (One officer only), 01 Nov 1993

U. K. DHAR  
Brig  
Dy Dir Gen (MS)

No. 24, dated 14th December 2006—Consequent on his premature repatriation, the services of Shri K Seshiah, ICoAS (89), Director, Ministry of Defence, are placed at the disposal of the Office of the Controller of Finance and Accounts (Fys), Medak under the organisation of the PCA (Fys) Kolkata, for appointment as Additional Controller of Finance and Accounts (Fys) on deputation basis w.e.f. 1.12.2006 (FN).

Consequent on relinquishing the charge of Raksha Mantri and thereafter assuming the charge of Minister of External Affairs wef the forenoon of 25th October, 2006, the services of Shri R Gopinath, Personal Assistant, Rajya Sabha Secretariat, who was on deputation as Assistant Private Secretary to former Raksha Mantri, are placed at the disposal of Rajya Sabha Secretariat wef 30.11.2006 (AN) after expiry of winding up period/earned leave.

S. K. DEB  
Under Secy

No. 25, dated 15th December 2006—The President is pleased to make the following promotion:—

#### REGULAR ARMY REGIMENT OF ARTILLERY To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Mohan Singh (JC-265106K), 17 Aug 2006/01 Jun 2006\*

Nb Sub Muralaeddharan C (JC-264260W), 02 Sep 2006/01 Aug 2006\*

Nb Sub Dundappa Jangama Shetty (JC-264360F), 02 Jul 2006/01 Mar 2006\*

Nb Sub Ashokan T (JC-265071Y), 04 Aug 2006/01 Apr 2006\*

Nb Sub Ram Chand (JC-266639Y), 16 Feb 2006/01 Feb 2006\*

Nb Sub Jaswant Singh (JC-264998N), 15 Aug 2006/01 Jun 2006\*

- Nb Sub Shinde Sarjerao Shamra (JC-265838A), 08 Aug 2006/1 Jun 2006\*
- Nb Sub Satwinder Singh (JC-265543K), 19 Jul 2006/01 Jun 2006\*
- Nb Sub Hari Prasad (JC-265259N), 01 Mar 2006/01 Feb 2006\*
- Nb Sub Mahadev Tukaram Jagdale (JC-263790Y), 01 Apr 2006/01 Jan 2006\*
- Nb Sub Gurmeet Singh (JC-264067K), 10 Apr 2006/01 Jan 2006\*
- Nb Sub Nishan Singh (JC-264949L), 25 Aug 2006/01 Jun 2006\*
- Nb Sub Chandrappa DG (JC-264567P), 27 Feb 2006/01 Feb 2006\*
- Nb Sub Mehnga Singh (JC-265396M), 28 Jun 2006/01 Jun 2006\*
- Nb Sub S Varutharajan (JC-264883A), 18 Jun 2006/01 Apr 2006\*
- Nb Sub Somappa Madar (JC-264250M), 08 Jun 2006/01 Feb 2006\*
- Nb Sub Chandra Shekhar Singh (JC-266320W), 03 Oct 2006/01 Sep 2006\*
- Nb Sub Narad Ram Kushwaha (JC-264578N), 28 Apr 2006/01 Feb 2006\*
- Nb Sub Ranjit Singh (JC-263598P), 06 Jun 2006/01 Mar 2006\*
- Nb Sub Ujagar Singh (JC-262940X), 21 Mar 2006/01 Jan 2006\*
- Nb Sub Vazir Singh (JC-265410N), 09 Aug 2006/08 Mar 2006\*
- Nb Sub Prasanna Kumar Sahoo (JC-265703Y), 13 Aug 2006/01 Jun 2006\*
- Nb Sub Mahabir Sharma (JC-265704F), 13 Aug 2006/01 Jun 2006\*
- Nb Sub Rup Chand (JC-263298N), 26 Apr 2006/01 Jan 2006\*
- Nb Sub Kanhaiya Lal Yadav (JC-264429A), 09 May 2006/01 Feb 2006\*
- Nb Sub Bhawrath Prasad (JC-264686X), 20 Jul 2006/01 Mar 2006\*
- Nb Sub I Charles (JC-265102N), 22 May 2006/04 Sep 2006\*
- Nb Sub Debraj Kiran (JC-262227A), 22 Feb 2006/01 Feb 2006\*
- Nb Sub Gurbax Singh (JC-266238K), 10 Apr 2006
- Nb Sub Gopal Ajabrao Thakre (JC-265011K), 10 Apr 2006/01 Apr 2006\*
- Nb Sub Swaran Singh (JC-265331Y), 01 Jun 2006
- Nb Sub Binod Kumar Singh (JC-263895H), 01 Mar 2006
- Nb Sub Lekh Raj (JC-264976P), 01 Aug 2006
- Nb Sub Surendran TN (JC-265725X), 17 May 2006/20 Apr 2006\*
- Nb Sub Maheshwar Sahu (JC-266416F), 02 May 2006/01 Apr 2006\*
- Nb Sub Desai Basavraj Annappa (JC-263401N), 03 May 2006/01 Jan 2006\*
- Nb Sub Bhim Ram (JC-264503W), 02 Apr 2006/01 Feb 2006\*
- Nb Sub Rajendra Mishra (JC-264090X), 13 Nov 2005/01 Nov 2005\*
- Nb Sub Rabindra Nath Singha (JC-265425W), 28 Jun 2006/01 Jun 2006\*
- Nb Sub Dilip Kumar (JC-264318H), 17 Mar 2006/01 Jan 2006\*
- Nb Sub Selvam S (JC-262926L), 22 Apr 2005/01 Mar 2005\*
- Nb Sub Nar Singh (JC-265600A), 4 Jun 2005/28 Feb 2005\*
- Nb Sub Damodar (JC-263978N), 01 Jul 2005/24 Dec 2004\*
- Nb Sub Yallappa Kamatagi (JC-264242N), 26 Jun 2005/01 Feb 2005\*
- Nb Sub Ram Lal (JC-264821A), 01 Mar 2005
- Nb Sub Markandey Rai (JC-264543X), 02 Jul 2005/01 Jun 2005\*
- Nb Sub Sri Niwas Sharma (JC-264533N), 01 Aug 2005
- Nb Sub Bhupinder Singh (JC-265682N), 28 Aug 2005/22 Feb 2005\*
- Nb Sub More Ganesh Khandu (JC-265830N), 27 Jun 2005/28 Feb 2005\*
- Nb Sub Shyam Nath Upadhaya (JC-263250A), 03 Mar 2005/01 Mar 2005\*
- Nb Sub Swarup Singh (JC-264165K), 23 Apr 2005/24 Mar 2005\*
- Nb Sub Maha Singh (JC-262995F), 05 May 2005/01 Apr 2005\*
- Nb Sub Vishwa Nath (JC-264935L), 04 May 2005/01 Apr 2005\*



Nb Sub Ajit Singh (JC-265185K), 28 May 2005/01 May 2005\*

Nb Sub Anto CL (JC-265655K), 17 Sep 2005/01 Jul 2005\*

Nb Sub Kalyan Singh (JC-266037L), 07 Jul 2005/01 Jul 2005\*

Nb Sub Jagdish Chander (JC-263831X), 16 May 2005/01 Sep 2004\*

Nb Sub Mali Prakash Nivrutt (JC-264425K), 11 Nov 2005/01 Jun 2005\*

Nb Sub Hari Narayanan V (JC-266346N), 14 Nov 2005/02 Sep 2005\*

Nb Sub Rajappan CR (JC-265278Y), 17 Nov 2005/01 Aug 2005\*

Nb Sub James Kutty D (JC-266405P), 24 Nov 2005/01 Aug 2005\*

Nb Sub Jatinder Kumar (JC-264463A), 14 Oct 2005/01 Jun 2005\*

Nb Sub Joginder singh (JC-262844H), 01 Feb 2005

Nb Sub Balbir Singh (JC-266205Y), 10 Sep 2005

Nb Sub Shiv Varat Singh (JC-264448L), 23 Apr 2005/01 Apr 2005\*

Nb Sub Baljit Singh (JC-265652W), 05 Oct 2005/01 Oct 2005\*

Nb Sub Bikram Singh (JC-265139P), 01 Aug 2005

Nb Sub Hira Lal Patel (JC-261318X), 06 Mar 2006/01 Jan 2006\*

Nb Sub Satpal Singh (JC-264296P), 05 Apr 2006/01 Feb 2006\*

Nb Sub Surendra Bahadur Singh (JC-264522F), 12 Mar 2006/01 Feb 2006\*

Nb Sub Bas Ram Jat (JC-264475P), 03 Jun 2006/01 Feb 2006\*

Nb Sub Tuntun Mishra (JC-264907Y), 27 May 2006/01 Feb 2006\*

Nb Sub Sabhakant Sharma (JC-264741H), 26 Jun 2006/01 Mar 2006\*

Nb Sub Satwinder Singh (JC-264776Y), 23 Jul 2006/01 Mar 2006\*

Nb Sub Dev Raj (JC-265832Y), 01 Mar 2006

Nb Sub Chander Kumar (JC-266115X), 03 Jun 2006/22 Mar 2006\*

Nb Sub Bahadur Singh (JC-266147A), 23 May 2006/22 Mar 2006\*

Nb Sub Shri Chand Singh (JC-266326A), 14 Jul 2006/20 Apr 2006\*

Nb Sub K Pandurangan (JC-265256A), 19 Aug 2006/01 Jun 2006\*

Nb Sub Ram Vilas (JC-265107M), 17 Aug 2006/01 Jun 2006\*

Nb Sub Ram Swarup (JC-265896K), 14 Jul 2006/12 Jun 2006\*

Nb Sub Jaspal Singh (JC-265332F), 23 Aug 2006/01 Jul 2006\*

Nb Sub Ishwar (JC-265497A), 21 Aug 2006/01 Jul 2006\*

Nb Sub Mustkim Miya (JC-265659A), 13 Sep 2006/01 Jul 2006\*

Nb Sub Prabu Dhas D (JC-266791M), 07 Sep 2006/07 Aug 2006\*

Nb Sub Brahm Prakash Yadav (JC-267246P), 03 Oct 2006/18 Aug 2006\*

Nb Sub Ramesh Chand (JC-265336X), 07 Oct 2006/01 Sep 2006\*

Nb Sub Sher Singh (JC-266236Y), 04 Oct 2006/01 Sep 2006\*

Nb Sub Balbir Singh (JC-263816H), 30 Mar 2006/01 Jan 2006\*

Nb Sub Vijay Kant Chaturvedi (JC-267325K), 19 Sep 2006/02 Aug 2006\*

Nb Sub Birpal Singh Chachar (JC-265894Y), 08 Jul 2006/01 Apr 2006\*

Nb Sub Shish Ram (JC-263317N), 01 Jun 2004

Nb Sub Navale Bhaskar Jijaba (JC-264059L), 03 Apr 2004/01 Apr 2004\*

Nb Sub Golap Chandra Nath (JC-265299P), 06 Apr 2005/01 Apr 2005\*

Nb Sub soma Sekharan Nair (JC-265418A), 01 Nov 2005/01 Sep 2005\*

Nb Sub Sita Ram Nai (JC-264347X), 11 Oct 2004/01 Oct 2004\*

Nb Sub Indra Prasad (JC-260887Y), 10 Oct 2005/05 Aug 2005\*

Nb Sub Krishna Chandra Mahton (JC-265939N), 07 Oct 2005/05 Aug 2005\*

Nb Sub Tapan Kumar Das (JC-264286L), 02 Apr 2005/01 Apr 2005\*

Nb Sub Babu Lal (JC-262800L), 01 Apr 2004

|  |  |
|--|--|
| Nb Sub Darshan Singh (JC-263894A), 14 Nov 2004/01 Nov 2004*                    | Nb Sub Ram Bhaj (JC-262131X), 02 Sep 2005/01 Jun 2005*                 |
| Nb Sub Ganga Ram (JC-265309A), 01 Mar 2005                                     | Nb Sub Joginder Pal Barwal (JC-260820A), 07 Jul 2005/12 Apr 2005*      |
| Nb Sub Hawa Singh (JC-264525P), 07 Jul 2004/29 Feb 2004*                       | Nb Sub Sri Prasad Mohanta (JC-261994M), 15 Oct 2004/03 Aug 2004*       |
| Nb Sub Machaiah PS (JC-266337M), 11 Jun 2005/28 May 2005*                      | Nb Sub Daljit Singh (JC-264084K), 29 Mar 2004/20 Feb 2004*             |
| Nb Sub Ram Pal (JC-263326P), 09 Jun 2004/01 Jun 2004*                          | Nb Sub Dhaku Ram Basumatary (JC-260070M), 18 Apr 2005/01 Sep 2004      |
| Nb Sub Daya Ram Singh (JC-265392W), 14 Mar 2005/01 Feb 2005*                   | *(Gtd Notional Seniority wef)  |
| Nb Sub Bhawan Singh (JC-264908F), 19 Mar 2005/06 Feb 2005*                     | Nb Sub Tarsem Singh (JC-265719K), 01 Sep 2005/01 Aug 2005*             |
| Nb Sub Subhas Chandra Das (JC-265645A), 15 May 2005/01 Feb 2005*               | Nb Sub Gurdip Singh (JC-265081H), 01 Aug 2005                          |
| Nb Sub Satnam Singh (JC-264202M), 01 Apr 2005                                  | Nb Sub Mohinder Singh Rana (JC-265744H), 07 Jul 2005/01 Feb 2005*      |
| Nb Sub P Manoharan (JC-264206H), 01 Apr 2005                                   | Nb Sub Ramotar Yadav (JC-264874Y), 03 Nov 2005/10 Aug 2005*            |
| Nb Sub Deo Nandan Tiwari (JC-265199K), 30 Sep 2006/01 Jun 2006*                | Nb Sub Kulwant Singh (JC-263843M), 14 Mar 2005/01 Mar 2005*            |
| Nb Sub Dalbir Singh (JC-264579W), 16 May 2006/01 Feb 2006*                     | Nb Sub Vijay Pal (JC-265131H), 18 Jul 2005/24 Mar 2005*                |
| Nb Sub Hublal Tiwari (JC-266884F), 07 Oct 2006/31 Aug 2006*                    | Nb Sub Santosh Kumar Chaturvedi (JC-265284M), 02 May 2005/01 May 2005* |
| Nb Sub Khanadra Pravin Kumar Velajibhai (JC-263695M), 24 Mar 2006/01 Feb 2006* | Nb Sub Ajay Pal Singh (JC-264640P), 24 Apr 2005/01 Mar 2005*           |
| Nb Sub Chandeshwar Prasad (JC-263624L), 31 May 2006/01 Mar 2006                | Nb Sub Narender Singh (JC-261222P), 28 Mar 2004/01 Mar 2004*           |
| Nb Sub Darshan Singh (JC-265795W), 03 Aug 2006/01 Aug 2006*                    | Nb Sub Salig Ram Chobe (JC-263795X), 04 Feb 2005/01 Feb 2005*          |
| Nb Sub Shinde Ambadas Eknath (JC-265137K), 01 Aug 2006/01 Jun 2006*            | Nb Sub Brij Mohan Sharma (JC-265778W), 01 Mar 2005                     |
| Nb Sub Baljinder Kumar (JC-264048Y), 17 Mar 2006/01 Jan 2006*                  | Nb Sub Chunnilal Sharma (JC-265300Y), 23 Sep 2006/01 Jun 2006*         |
| Nb Sub Sathaya Narayanan S (JC-266211M), 01 Apr 2006                           | Nb Sub Visalan (JC-265468L), 27 Jun 2006/07 Apr 2006*                  |
| Nb Sub Rattan Chand Rana (JC-266317Y), 01 Aug 2006                             | Nb Sub Nishan Singh (JC-266378W), 10 Jun 2006/26 Apr 2006*             |
| Nb Sub Balwant Singh Rana (JC-266877L), 05 Oct 2006/28 Aug 2006*               | Nb Sub Ram Avtar (JC-265128H), 03 Aug 2006/01 Jun 2006*                |
| Nb Sub Ram Kishore (JC-265811H), 26 Jun 2006/25 Mar 2006*                      | Nb Sub D Benadict Lowrance (JC-262779N), 15 Jul 2006/01 Jan 2006*      |
| Nb Sub Rampal Singh (JC-266419P), 19 Sep 2006/01 Jun 2006*                     | Nb Sub A Mothiah (JC-264490K), 03 Jun 2006/01 Feb 2006*                |
| Nb Sub Attar Singh (JC-264805H), 20 Jul 2006/01 Apr 2006*                      |  |

Nb Sub Moddula Yogi Reddy (JC-266040L), 17 Jun 2005/01 Mar 2005\*

Nb Sub Ramchandran PM (JC-264835A), 29 Oct 2005/01 Sep 2005\*

Nb Sub Guru Samy (JC-266526W), 17 Jun 2005/01 Mar 2005\*

Nb Sub Bahadur Singh (JC-264335H), 19 Oct 2005/13 Jul 2005\*

Nb Sub Bodh Raj (JC-263921Y), 26 May 2005/01 Feb 2005\*

Nb Sub Surendra Singh (JC-263736L), 01 Feb 2005\*

Nb Sub Nagesh Singh (JC-265080A), 16 Mar 2005/01 Mar 2005\*

Nb Sub Laxman Singh (JC-264730W), 18 Feb 2005/01 Feb 2005\*

Nb Sub Rajendran Pillai (JC-265646M), 16 May 2005/01 Feb 2005\*

Nb Sub Rain Singh (JC-262652L), 17 Jun 2005/01 May 2005\*

Nb Sub Inder Singh (JC-264389K), 20 Jun 2005/01 May 2005\*

Nb Sub Kiran Pal (JC-264829M), 24 Mar 2006/01 Jan 2006\*

Nb Sub Rajendra Prasad Ram (JC-264876K), 12 Mar 2006/01 Jan 2006\*

Nb Sub Ram Pratap Yadav (JC-264617F), 28 Jun 2006/01 Apr 2006\*

Nb Sub Mohinder Singh (JC-265933M), 14 Feb 2006/01 Dec 2005\*

Nb Sub Dhanpat Singh (JC-267089N), 23 Sep 2006/01 Aug 2006\*

Nb Sub Kanhu Charan Das (JC-264704P), 24 Jul 2006/01 Apr 2006\*

Nb Sub Jarnail Singh (JC-265304P), 27 Aug 2006/01 Jun 2006\*

Nb Sub Amarnath Singh (JC-266015M), 13 Mar 2006/01 Mar 2006\*

Nb Sub Abhey Singh (JC-264371N), 21 May 2006/01 Feb 2006\*

Nb Sub Nirmal Singh (JC-266141Y), 01 Aug 2006

Nb Sub G Jagannathan (JC-265076X), 19 Aug 2006/01 Jun 2006\*

Nb Sub Madan Lal (JC-265916M), 08 May 2006/01 Apr 2006\*

Nb Sub Guljhari Lal (JC-266309A), 30 My 2006/01 Apr 2006\*

Nb Sub Mahender Singh (JC-264746F), 05 Jun 2006/01 Mar 2006\*

Nb Sub Shrabhan Kumar (JC-266546K), 02 Oct 2006/21 Aug 2006\*

Nb Sub Tun Bahadur Chhetri (JC-265206P), 09 Aug 2006/01 Jun 2006\*

Nb Sub Unni Krishnan Nair MR (JC-265991W), 18 Nov 2005/01 Nov 2005\*

Nb Sub Basavantappa Karanavi (JC-264346P), 09 Mar 2006/01 Jan 2006\*

Nb Sub Usuf Ali Saikh (JC-264905N), 05 Jun 2006/01 Mar 2006\*

Nb Sub Shees Ram (JC-265731L), 28 Aug 2006/02 Jul 2006\*

Nb Sub Phool Singh Yadav (JC-264255L), 12 May 2006/20 Feb 2006\*

Nb Sub Dinesh Mishra (JC-264492P), 27 Jun 2006/01 Feb 2006\*

Nb Sub Ramesh Kumar (JC-265807A), 07 Mar 2006/01 Mar 2006\*

Nb Sub Raveendran Nair CR (JC-264992M), 01 May 2006/01 Feb 2006\*

Nb Sub Bhur Singh Jat (JC-265796Y), 23 Jan 2006/01 Dec 2005\*

Nb Sub Bharat Singh (JC-264955Y), 10 Feb 2006/01 Dec 2005\*

Nb Sub Sultan Singh (JC-266146X), 01 Feb 2006

Nb Sub Jirage Kashinath Apaya (JC-262747L), 31 Mar 2006/01 Jan 2006\*

Nb Sub Khagan Singh (JC-262277L), 19 Apr 2006/01 Jan 2006\*

Nb Sub Sher Singh (JC-264472P), 21 May 2006/01 Mar 2006\*

Nb Sub Surendra Singh (JC-265941L), 16 Sep 2006/01 Sep 2006\*

Nb Sub Birju Singh (JC-266573N), 12 Sep 2006/02 Aug 2006\*

Nb Sub Hawa Singh (JC-264123X), 01 Feb 2006

Nb Sub Dalbir Singh (JC-264736X), 12 Apr 2006/01 Feb 2006\*

Nb Sub Madan Pal (JC-264311Y), 02 Jun 2006/01 Feb 2006\*

Nb Sub Birender Singh (JC-265943W), 02 Jun 2006/01 May 2006\*

Nb Sub Satyavan Khatri (JC-265030P), 31 Jul 2006/01 Jul 2006\*

Nb Sub Rachhpal Chand (JC-265576P), 26 Aug 2006/01 Aug 2006\*

Nb Sub Muthaiah K (JC-264765M), 06 Feb 2006/01 Feb 2006\*

Nb Sub N Thimma Reddy (JC-266495F), 13 Apr 2006/01 Mar 2006\*

Nb Sub Kailash Chand (JC-266925A), 04 Sep 2006/01 Aug 2006\*

Nb Sub Ramani Sinha (JC-267602K), 04 Sep 2006/01 Aug 2006\*

Nb Sub Rappai EL (JC-263687N), 29 Dec 2005

Nb Sub Padam Singh (JC-267344P), 03 Oct 2006/31 Aug 2006\*

Nb Sub Kishore Kumar (JC-263974X), 29 May 2006/01 Jan 2006\*

Nb Sub Raj Bahadur Yadav (JC-263444H), 17 Sep 2005

Nb Sub Ram Bahadur Yadav (JC-265688P), 26 Aug 2006/01 Jul 2006\*

Nb Sub Lala Ram (JC-265771M), 28 Aug 2006/01 Aug 2006\*

Nb Sub Om Prakash (JC-266686W), 28 Jun 2006/01 Aug 2006\*

Nb Sub Rishi Kesh (JC-266983K), 15 Sep 2006/01 Aug 2006\*

Nb Sub Avtar Singh (JC-267763M), 30 Aug 2006/01 Aug 2006\*

Nb Sub Tarsem Singh (JC-264937W), 12 Jul 2006/01 Apr 2006\*

Nb Sub Balwinder Singh (JC-265205M), 21 Jul 2006/01 Jun 2006\*

Nb Sub K Nagaraj (JC-264520W), 14 Jul 2006/01 Apr 2006\*

Nb Sub Amrendra Kumar (JC-264770Y), 08 Apr 2006/01 Mar 2006\*

Nb Sub Charanji Lal (JC-264163Y), 20 Mar 2006/01 Jan 2006\*

Nb Sub Iqbal Singh (JC-264104M), 15 Mar 2006/01 Jan 2006\*

Nb Sub Sudhir Kanta Sahu (JC-265694H), 07 Dec 2005/01 Nov 2005\*

Nb Sub Rama Chandra Sasmal (JC-263649X), 21 Feb 2006

Nb Sub Amulya Kumar Ghosh (JC-266968P), 05 Oct 2006/25 Aug 2006\*

Nb Sub Uma Shankar Prasad (JC-263468M), 01 Apr 2006/01 Jan 2006\*

Nb Sub Bhola Ram Jatau (JC-266136N), 11 Aug 2006/01 Dec 2005\*

Nb Sub K Ramalingam (JC-264800K), 23 May 2006/01 Mar 2006\*

Nb Sub Krishna Banra (JC-265170F), 14 Mar 2006/01 Mar 2006\*

Nb Sub Rashpal Singh (JC-265698Y), 01 Aug 2006

Nb Sub Sawai Singh Chauhan (JC-266210K), 11 Mar 2006/01 Feb 2006\*

Nb Sub Shiv Singh Jadon (JC-262880N), 31 May 2006/01 Mar 2006\*

Nb Sub Jitender Nathkar (JC-263540X), 31 May 2006/01 Mar 2006\*

Nb Sub Subhas Koni (JC-264709N), 28 Apr 2006/01 Feb 2006\*

Nb Sub Bachitar Singh (JC-264114W), 11 Mar 2006/01 Jan 2006\*

Nb Sub Dharmvir (JC-264726N), 26 Jun 2006/01 May 2006\*

Nb Sub MS Krishna Moorthy (JC-266075F), 07 Nov 2005/01 Nov 2005\*

Nb Sub Kamble Gorakh Vishwanath (JC-265067W), 11 Aug 2006/01 Jun 2006\*

Nb Sub Parbhu Dayal (JC-264878P), 16 Jun 2006/01 Apr 2006\*

Nb Sub Krishan Avtar Pal (JC-262792X), 18 Mar 2006/01 Jan 2006\*

Nb Sub Manoharan R (JC-265200N), 01 Aug 2006/01 Jun 2006\*

Nb Sub Kalla Mahalakshmi (JC-266703L), 10 Mar 2006/01 Mar 2006\*

Nb Sub Bir Singh (JC-265096L), 24 May 2006/29 Mar 2006\*

Nb Sub Ravindra Kumar (JC-262687L), 12 Nov 2005

Nb Sub Raminder Singh (JC-263480N), 08 Dec 2005/01 Dec 2005\*

Nb Sub Balbir Singh (JC-264913M), 15 Jul 2005/01 Jul 2005\*

Nb Sub Bheemappa Khanapuri (JC-265884P), 26 Nov 2005/01 Sep 2005\*

Nb Sub M Fakuruddin (JC-266364W), 14 May 2005/01 Mar 2005\*

Nb Sub Kailash Chand Chaudhary (JC-264418N), 26 Apr 2005/01 Apr 2005\*

Nb Sub K Govind Raj (JC-264569M), 05 Sep 2005/01 Aug 2005\*

Nb Sub Sajjan Singh (JC-265705K), 04 May 2005/28 Feb 2005\*

Nb Sub G Jesudoss Ashokan (JC-266259A), 19 Oct 2005/01 Sep 2005\*

Nb Sub Ram Bharos (JC-265812L), 23 Aug 2006/01 Jul 2006\*

Nb Sub Rajen Gurung (JC-266139F), 16 Sep 2006/10 Aug 2006\*

Nb Sub Balram Singh (JC-264070K), 10 Dec 2005/01 Nov 2005\*

Nb Sub Naravla Gopala Krishnadu (JC-266369M), 25 Jan 2006/01 Jan 2006\*

Nb Sub Umesh Kumar (JC-264644L), 10 Jul 2006/01 Feb 2006\*

Nb Sub Om Pal Singh (JC-266162P), 01 Aug 2006

Nb Sub Ierappa Sidduppa Durgannaur (JC-264527W), 09 Apr 2006/01 Feb 2006\*

Nb Sub Prem Pal (JC-267049M), 11 Oct 2006/31 Aug 2006\*

Nb Sub T Kangarajan (JC-263082M), 15 Oct 2005

Nb Sub Khitish Chandra Pradhan (JC-265266K), 28 Sep 2006/01 Jun 2006\*

Nb Sub Patil Sanjay Dadu (JC-266299F), 25 Mar 2006/01 Mar 2006\*

Nb Sub Ajit Singh (JC-264824N), 11 May 2006/01 Mar 2006\*

Nb Sub Sanjay Mishra (JC-265657P), 02 Aug 2006/01 Jun 2006\*

Nb Sub Padmanabhan PC (JC-266427N), 01 Nov 2005

Nb Sub Sukhraj Singh (JC-264724H), 23 Jun 2006/01 Mar 2006\*

Nb Sub Nagendra Kumar Yadav (JC-266193P), 07 Feb 2006/01 Dec 2005\*

Nb Sub Sher Singh (JC-264660H), 02 Feb 2006/01 Feb 2006\*

Nb Sub Velmurugan (JC-264666K), 27 Apr 2006/01 Feb 2006\*

Nb Sub Thomas A M (JC-264696F), 25 May 2006/01 Feb 2006\*

Nb Sub Mohan Ram Shou (JC-264667M), 15 Jul 2006/01 Feb 2006\*

Nb Sub Balram Yadav (JC-264875F), 30 Jul 2006/01 Apr 2006\*

Nb Sub Som Pal (JC-265172M), 02 Dec 2005/01 Nov 2005\*

Nb Sub Shyamvir Singh (JC-265176H), 05 Dec 2005/10 Nov 2005\*

Nb Sub R Ramchandran (JC-266004A), 05 Dec 2005/01 Dec 2005\*

Nb Sub Mahavir Singh (JC-266457L), 01 Dec 2005

Nb Sub Balkar Singh (JC-266653L), 10 Apr 2006/01 Apr 2006\*

Nb Sub Chand Ram (JC-265277W), 06 Aug 2006/01 Jun 2006\*

Nb Sub Krishna Pillai PC (JC-264615W), 02 May 2006/01 Apr 2006\*

Nb Sub Naresh Pal Singh (JC-265701N), 23 Nov 2005/01 Nov 2005\*

Nb Sub Rajan PV (JC-265854Y), 05 Jun 2006/01 Jun 2006\*

Nb Sub Jasweer Singh (JC-264894M), 21 Jul 2006/01 Apr 2006\*

Nb Sub Kehar Singh (JC-265271P), 21 Jul 2006/01 May 2006\*

Nb Sub Narayanan P (JC-265209H), 04 Sep 2006/01 Jun 2006\*

Nb Sub G Anki Reddy (JC-266366F), 04 Sep 2006/01 Aug 2006\*

Nb Sub Raghu K (JC-265001A), 13 May 2006/01 Mar 2006\*

Nb Sub Mahendra Singh (JC-265369H), 03 Aug 2006/01 Jun 2006\*

Nb Sub Naresh Kumar Chhetri (JC-266522A), 01 Apr 2006

Nb Sub Charnjit Singh (JC-266557W), 20 Apr 2006/01 Apr 2006\*

Nb Sub G. Sankarappan (JC-264676N), 10 Mar 2006/01 Jan 2006\*

Nb Sub Abdul Nasir (JC-266011W), 16 Sep 2006/01 Aug 2006\*

Nb Sub R Mogileeswaran (JC-266702H), 03 Jun 2006/05 May 2006\*

Nb Sub Rattan Singh (JC-265678L), 18 Jul 2006/01 Jun 2006\*

Nb Sub Tulsi Dass Raina (JC-265693A), 06 Aug 2006/01 Ag 2006\*

Nb Sub Shiva Nand Sharma (JC-265743A), 10 Mar 2006/01 Mar 2006\*

Nb Sub Binod Chandra (JC-265895F), 10 Mar 2006/01 Mar 2006\*

Nb Sub Ram Shankar Singh (JC-265768M), 01 Jul 2006

Nb Sub Mohan Lal (JC-2664235W), 01 Aug 2006

Nb Sub Sham Lal (JC-264044H), 03 May 2006/01 Jan 2006\*

Nb Sub Kamal Singh (JC-265285P), 12 Jul 2006/17 Feb 2006\*

Nb Sub Tehsildar Singh (JC-264881X), 15 May 2005/20 Apr 2006\*

Nb Sub Raju KP (JC-264606P), 23 May 2006/01 Feb 2006\*

Nb Sub Pal Singh (JC-264979H), 16 Feb 2006/01 Feb 2006\*

Nb Sub L. Barathan (JC-265138M), 22 May 2006/28 Apr 2006\*

Nb Sub Jitender Kumar (JC-265255X), 27 Jun 2006/01 Apr 2006\*

Nb Sub Deepu Chand Ram (JC-264519F), 01 May 2006/01 Feb 2006\*

Nb Sub Manai Ram (JC-266305K), 01 May 2006/16 Mar 2006\*

Nb Sub Chandsi Prasad Singh (JC-269711L), 13 May 2006/01 Feb 2006\*

Nb Sub Jang Bahadur Singh (JC-265729N), 04 Aug 2006/01 Aug 2006\*

Nb Sub Parshotam Chand (JC-266160K), 02 Nov 2005/01 Nov 2005\*

(\*Gtd seniority wef)

To be Naib Subedar (Clerk GD & SKT)

Hav (Clk) Najarali Dafadar (No. 14377722F now JC-269282Y), 01 Jul 2006

Hav (Clk) Mohd Tasleem Ansari (No. 14377724M now JC-269180H), 01 Jul 2006

Hav (Clk) PP Chandran (No. 14488926H now JC-269181L), 01 Jul 2006

Hav (Skt) Lahane Shaligram Trambak (No. 14381496M now JC-269182N), 05 Jun 2006/01 Jun 2006\*

Hav (Skt) Ram Singh (No. 14494928K now JC-269183W), 06 Jun 2006/01 Jun 2006\*

Hav (Skt) Lakshman Pati Tiwari (No. 14377326L now JC-269073F), 01 Jun 2006

Hav (Skt) Rajendra Singh (No. 14360915L now JC-269074K), 01 Jun 2006

Hav (Skt) Joginder Singh (No. 14400500F now JC-269184Y), 01 Jul 2006

Hav (Skt) Surendra Nath Singh (No. 14489726Y now JC-269283F), 01 Jul 2006

Hav (Skt) Poheker Ankush Dattatray (No. 14381278N now JC-269185F), 01 Jul 2006

Hav (Clk) Talekar Bhasker Narayan (No. 14374817W now JC-269057K), 05 Jun 2006/01 Mar 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay & allcs)

Hav (Clk) Chunni Lal Yadav (No. 14378156Y now JC-269284K), 01 Aug 2006

Hav (Clk) Virender Singh (No. 14362471L now JC-269285M), 01 Aug 2006

Hav (Clk) Dayanidhi Behera (No. 14374617A now JC-269286P), 01 Aug 2006

Hav (Clk) Balwinder Singh (No. 14362769P now JC-269287X), 01 Aug 2006

Hav (Clk) Surjan Singh Yadav (No. 14359024W now JC-269473N), 21 Sep 2006/01 Aug 2006\*

Hav (Clk) Rajendra Bahadur Singh (No. 14479583W now JC-269288A), 01 Aug 2006

Hav (Clk) Hari Om (No. 14479673X now JC-269289H), 01 Aug 2006

Hav (Clk) Sudershan Kumar (No. 14480477K now JC-269290X), 01 Aug 2006

Hav (Clk) Abhai Ram Yadav (No. 14480718Y now JC-269291A), 01 Aug 2006

Hav (Clk) Jagan Nath (No. 14367345H now JC-269292H), 01 Aug 2006

Hav (Clk) Dileep Kumar KS (No. 14367772Y now JC-269293L), 01 Aug 2006

Hav (Clk) Sukhendu Biswas (No. 14480800N now JC-269294N), 01 Aug 2006

Hav (Clk) Vir Singh (No. 14367504P now JC-269295W), 01 Aug 2006

Hav (Skt) Madan Lal (No. 14381854M now JC-269296Y),  
01 Aug 2006

Hav (Skt) Bijendra Prasad (No. 14382084X now JC-  
269474W), 01 Aug 2006

Hav (Skt) Prem Singh (No. 14382091N now JC-269297F),  
04 Aug 2006/01 Aug 2006\*

Hav (Skt) Narayan Singh Negi (No. 14495092K now JC-  
269378K), 01 Sep 2006

Hav (Skt) Deevam Singh (No. 14382854Y now JC-  
269475Y), 07 Sep 2006/01 Sep 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on  
pay & allces)

#### CORPS OF ARMY AIR DEFENCE

To be Substantie Subedar Major (TIFC)

Subedar Biren Saikia (JC-296808K), 01 Nov 2006

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Net Ram (JC-298728L), 05 May 2006/01 May  
2006\*

Nb Sub Shri Singh Yadav (JC-298831W), 10 Jun 2006/01  
May 2006\*

Nb Sub Satyabir Singh (JC-298839H), 11 Sep 2006/01 Jun  
2006\*

Nb Sub Ramesh Dwivedi (JC-298913F), 10 Au 2006/16  
Jul 2006\*

Nb Sub Radha krishan (JC-299021A), 30 Aug 2006/26 Jul  
2006\*

Nb Sub Ram Prakash Singh (JC-299070M), 19 Sep 2006/  
28 Jul 2006\*

Nb Sub Amar Kishor Deb Barma (JC-299083A), 26 Sep  
2006/28 Jul 2006\*

Nb Sub Satpal Singh (JC-298485N), 20 Sep 2006/30 Jul  
2006\*

Nb Sub Vijay Kumaran Nair MK (JC-298493K), 04 Oct  
2006/31 Jul 2006\*

Nb Sub Ram Narayan (JC-298150N), 16 Sep 2006/01 Aug  
2006\*

Nb Sub Rahis Ram (JC-298583L), 02 Sep 2006/01 Aug  
2006\*

Nb Sub Gopal Chandra Biswas (JC-298980K), 09 Oct  
2006/01 Aug 2006\*

Nb Sub Sukh Lal Jaiswal (JC-298448K), 18 Sep 2006/26  
Aug 2006\*

Nb Sub Govind Singh (JC-298030P), 13 Sep 2006/01 Sep  
2006\*

Nb Sub Om Prakash Singh (JC-298553N), 20 Sep 2006/01  
Sep 2006\*

Nb Sub Sugriw Prasad (JC-298586Y), 13 SDep 2006/01  
Sep 2006\*

Nb Sub Dharam Datt (JC-298078M), 11 Oct 2006/01 Oct  
2006\*

Nb Sub Jagdish Prasad (JC-298264Y), 13 Oct 2006/01 Oct  
2006\*

Nb Sub Thakre Tejram Fulichand (JC-299120M), 28 Oct  
2006/01 Oct 2006\*

Nb Sub Binod Kumar Pandey (JC-298341M), 01 Nov  
2006

Nb Sub Ram Singh (JC-298270M), 01 Nov 2006

To be Substantive Subedar (Clk)

Nb Sub Devendrappa Devakki (JC-297944M), 01 Oct  
2006

Nb Sub Ram Niwas Yadava (JC-297971W), 03 Oct 2006/  
01 Oct 2006\*

Nb Sub Amar Singh Yadav (JC-297970N), 03 Oct 2006/  
01 Oct 2006\*

Nb Sub Rajeev KS (JC-297945P), 01 Oct 2006

Nb Sub Budheswar Kagyung (JC-298032A), 01 Oct 2006

To be Substantive Subedar (Skt)

Nb Sub Ram Swaroop (JC-298057M), 01 Nov 2006

\*(Gtd ante-date seniority wef)

#### ARMY SERVICE CORPS

(MECHANICAL TRANSPORT)

To be Subedar (RT)

Naib Subedar Satya Narayan Mishra (JC-660740W), 01  
Aug 2006

Naib Subedar Krishna Prasad Poudiyal (JC-660743K), 01  
Aug 2006

#### ARMY SERICE CORPS (MT & SUPPLY)

To be Subedar Major (PA)

Subedar Bankima Chandra Mohapatra (JC-640516P), 01  
Aug 2005

Subedar Debashis Dey (JC-640517L), 08 Aug 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Aug 2005  
without effect on pay and allces.)

Subedar Kailash Sharma (JC-640771P), 01 Dec 2005

Subedar Bhagyddhar Mondal (JC-640778Y), 17 Apr 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allces.)

Subedar Indarjit Singh (JC-640811L), 15 May 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 May 2006 without effect on pay and allces.)

To be Subedar Major : Clk (GD/SD)

Subedar Suresh Babu K S (JC-640919H), 01 Aug 2005

Subedar S Suresh Kumar (JC-640935A), 01 Dec 2005

Subedar Mahipal (JC-640760H), 01 Jan 2006

Subedar Ran Singh (JC-640987W), 02 Jan 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allces.)

Subedar P Elangovan (JC-640624M), 01 Feb 2006

Subedar Sharda Prasad (JC-640826N), 01 Mar 2006

Subedar Bhikam Singh (JC-640917X), 01 Mar 2006

Subedar Jadhav Gopal Govind (JC-640936H), 02 May 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 May 2006 without effect on pay and allces.)

Subedar Atma Ram Mishra (JC-640923L), 01 Nov 2005

To be Subedar Major : Clk (GD)

Subedar Naresh Chaner Upadhyay (JC-640664N), 01 Sep 2005

Subedar Murugesan C (JC-640617K), 01 Sep 2005

Subedar Balu A (JC-640669M), 01 Sep 2005

Subedar Alex G (JC-640301K), 01 Sep 2002

Subedar Kavirajan KN (JC-640302M), 01 Sep 2002

Subedar G Muthial (JC-640305A), 01 Oct 2002

Subedar Yogender Kumar Walia (JC-640694L), 12 Jan 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allces.)

Subedar Iquelakh Mohammad (JC-640670F), 01 Apr 2006

Subedar Hawa Singh Mehla (JC-640676H), 03 Apr 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allces.)

Subedar Balwant Singh (JC-640190X), 27 Mar 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allces.)

Subedar Maguluri David (JC-640544P), 01 Feb 2006

Subedar Muthu N (JC-640552N), 02 Feb 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allces.)

Subedar Mahender Singh (JC-640688X), 01 Aug 2006

To be Subedar Major (Skt)

Subedar Karam Chand Sharma (JC-215553X), 03 Aug 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Aug 2005 without effect on pay and allces.)

Subedar Kandula Venu Gopala Rao (JC-215555H), 01 Aug 2005

Subedar Uttam Singh Negi (JC-215565M), 14 Sep 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Sep 2005 without effect on pay and allces.)

Subedar S Mayandi (JC-215568A), 04 Oct 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allces.)

Subedar Johnson P1 (JC-217849P), 03 Nov 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allces.)

Subedar Rambir Singh (JC-217848M), 02 Nov 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allces.)

Subedar Vayas Mishra (JC-217847K), 05 Nov 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allces.)

Subedar Jagil Palo (JC-217835P), 02 Nov 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allces.)

Subedar Rajan Singh (JC-215570X), 03 Nov 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allces.)

Subedar Vijaya Kumaran Nair M (JC-217837A), 14 Nov 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allces.)

Subedar Harbhajan Singh (JC-217839L), 01 Nov 2005

Subedar Lakshmanan K (JC-217854A), 01 Dec 2005

Subedar Purkha Ram Khatri (JC-215515F), 01 Apr 2006



Subedar Ghanshyam Singh (JC-215520M), 01 Apr 2006

Subedar Devender Kumar (JC-213637N), 06 Feb 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allces.)

Subedar Mangala Prasad (JC-213617Y), 01 Mar 2006

Subedar Subash (JC-213846K), 01 Mar 2006

Subedar Bhanwar Singh Rathore (JC-215489L), 09 Mar 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allces.)

Subedar Tarlok Singh Sandhu (JC-215496F), 01 Mar 2006

Subedar Mahabbot Mallick (JC-640149F), 04 Mar 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allces.)

Subedar Rajendran P (JC-215536X), 01 Jun 2006

Subedar Prem Prakash (JC-215550K), 05 Jun 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allces.)

#### To be Subedar Major (MT)

Subedar Kashmir Singh Rana (JC-661187L), 01 Aug 2005

Subedar Suraj Prakash (JC-661148M), 04 Aug 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Aug 2005 without effect on pay and allces.)

Subedar Jagdish Prasad Swami (JC-661190L), 01 Aug 2005

Subedar Vijay Singh (JC-661156L), 01 Aug 2005

Subedar Phool Singh Bijarniya (JC-661279X), 01 Aug 2005

Subedar Tilak Raj (JC-661218A), 01 Nov 2005

Subedar Sobhnath (JC-661165M), 01 Dec 2005

Subedar Om Prakash Joshi (JC-661167X), 03 Dec 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allces.)

Subedar Ranbir Singh (JC-661829P), 05 Apr 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allces.)

Subedar Madan Lal (JC-641225W), 01 Apr 2006

Subedar Hans Raj Yadav (JC-661574A), 01 Apr 2006

Subedar Narayana R (JC-661012H), 11 Feb 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allces.)

Subedar Jokhu Prasad (JC-661106A), 01 Feb 2006

Subedar Manjit Singh (JC-661151M), 01 Feb 2006

Subedar Gulzar Singh (JC-661170X), 01 Feb 2006

Subedar Shambhu Nath Sharma (JC-661196M), 01 Feb 2006

Subedar Anjani Kumar (JC-661246M), 05 Feb 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allces.)

Subedar Bindeshwari Singh (JC-661213F), 02 Mar 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allces.)

Subedar Narayan Ram Suthar (JC-661245K), 04 Mar 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allces.)

Subedar Madan Lal (JC-661225W), 01 Apr 2006

Subedar Gopi Chand (JC-661226X), 01 Apr 2006

Subedar Ved Prakash (JC-661229M), 01 May 2006

Subedar Gurmit Singh (JC-661234X), 01 May 2006

Subedar Gauranga Ranabijuli (JC-661241A), 01 May 2006

Subedar Kare Singh (JC-661283A), 01 May 2006

Subedar Ram Prasad Ram (JC-661287W), 01 May 2006

Subedar Purshotam Singh (JC-661290W), 01 May 2006

Subedar Narsa Ram Jat (JC-661306W), 10 Jul 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 May 2006 without effect on pay and allces.)

Subedar Varada Rajan Kandala (JC-661340W), 01 Aug 2006

Subedar Chandra Pal (JC-661414A), 07 Jun 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 May 2006 without effect on pay and allces.)

Subedar Parmar Asharaf Khan Haiyat Khan (JC-661430X), 02 Aug 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Aug 2006 without effect on pay and allces.)

#### To be Subedar Major (Catering)

Subedar Tripurari Dutt (JC-223374M), 16 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 May 2005 without effect on pay and allces.)

## (MECHANICAL TRANSPORT)

## To be Subedar (MT)

Naib Subedar Suresh Chandra Tripathi (JC-662455W), 06 Oct 2006\*

Naib Subedar Hoshiyar Singh (JC-662482A), 16 Oct 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 27 Jun 2006 without effect on pay and allowances)

Naib Subedar Bansi Dhar Rana (JC-662658A), 10 Oct 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2006 without effect on pay and allowances)

Naib Subedar Tek Chand Sharma (JC-662684F), 09 Oct 2006\*

Naib Subedar Hari Kunwar Prasad (JC-662694L), 18 Oct 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2006 without effect on pay and allowances)

Naib Subedar Liyakat Ali (JC-662714N), 01 Sep 2006

Naib Subedar Kavar Singh (JC-662718K), 23 Oct 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2006 without effect on pay and allowances)

Naib Subedar Triloki Singh (JC-662728N), 01 Sep 2006

Naib Subedar Gyan Chand (JC-662732W), 03 Oct 2006\*

Naib Subedar Birender Singh (JC-662746W), 06 Oct 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2006 without effect on pay and allowances)

Naib Subedar Ram Saran (JC-662816K), 24 Sep 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances)

Naib Subedar Jugul Yadav (JC-662611P), 20 Dec 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

Naib Subedar Meer Imame Jafar (JC-662664W), 08 Nov 2006\*

Naib Subedar Jagat Singh (JC-662687P), 26 Sep 2006\*

Naib Subedar Dharm Chand (JC-662690P), 21 Sep 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2006 without effect on pay and allowances)

Naib Subedar Dineshwar Singh (JC-662695N), 06 Oct 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2006 without effect on pay and allowances)

Naib Subedar Salik Ram (JC-662713L), 08 Nov 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2006 without effect on pay and allowances)

Naib Subedar Gadela Nageswar Rao (JC-662719M), 07 Nov 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2006 without effect on pay and allowances)

Naib Subedar Ram Naresh Singh (JC-662730L), 09 Nov 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2006 without effect on pay and allowances)

Naib Subedar Raja Gopalan T M (JC-662733Y), 01 Oct 2006

## To be Naib Subedar (MT)

Hav Chandra Nath (No. 13885702P now JC-663947F), 06 Mar 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Gurminder Singh (No. 1382762Y now JC-664126Y), 23 Sep 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub wef 01 May 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Shyam Narayan Singh (No. 13883382M now JC-664111W), 10 Oct 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub wef 01 Nov 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Ram Naresh (No. 13885959A now JC-664113F), 04 Sep 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub wef 22 Apr 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Ashok Kumar Sharma (No. 13886153M now JC-664122H), 19 Sep 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub wef 01 May 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Balbir Singh Nigam (No. 138863423Y now JC-664121A), 08 Sep 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub wef 29 April 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Amar Singh (No. 13887193A now JC-664119H), 02 Oct 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Raj Kumar (No. 13887321M now JC-664120X), 04 Sep 2006\*

Hav Hans Nath Sah (No. 13887524W now JC-664116P), 05 Sep 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub wef 22 Apr 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Abhaya Kumar Rath (No. 13887776H now JC-664123L), 21 Apr 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Prabhu Nath Chowdhary (No. 13889436Y now JC-664112Y), 04 Sep 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Harsh Vardhan (No. 13889521F now JC-664132M), 16 Sep 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub wef 29 Apr 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Pati Ram (No. 13889607A now JC-664114K), 12 Sep 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub wef 22 Apr 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Varghess G. B. (No. 13890580A now JC-664118A), 05 Sep 2006\*

Hav Ashok Kumar Gautam (No. 13890900K now JC-664115M), 02 Sep 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub wef 29 Apr 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Tribhuwan Nath Singh (No. 13891312H now JC-664117X), 11 Aug 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Ramji Choube (No. 13891962W now JC-664125W), 01 Sep 2006\*

Hav Jugeshwar Prasad (No. 13894258L now JC-664124N), 04 Sep 2006\*

Hav Ram Pukar Paswan (No. 13894263W now JC-664127F), 05 Oct 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub wef 01 May 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Kishori Lal Kaura (No. 13894315F now JC-664128K), 01 Sep 2006\*

Hav Rajbir (No. 13894322X now JC-664130F), 01 Sep 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Dev Datt Bhatt (No. 13894525F now JC-664131K), 14 Sep 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub wef 01 Aug 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Channabasav Annanavar (No. 13897033N now JC-664129M), 07 Sep 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub wef 01 Sep 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Mahabir Singh (No. 13886306L now JC-664140L), 01 Oct 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub wef 01 Sep 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Autade Dhanaji Avaba (No. 13886420H now JC-664138N), 18 Nov 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub wef 21 Sep 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Mahesh Chandra Sharma (No. 13886436N now JC-664139W), 06 Nov 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub wef 24 Jun 2006 without effect on pay and allowances)

To be Subedar : Clk (GD)

Naib Subedar Ved Pal Singh (JC-642014Y), 11 Mar 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances)

Naib Subedar Krishan Chand Yadav (JC-641965K), 01 Apr 2006

Naib Subedar Suresh C S (JC-642017M), 01 Apr 2006

Naib Subedar Ramesh Kumar (JC-641966M), 01 Apr 2006

Naib Subedar Phalgunan N (JC-642106K), 21 Apr 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances)

Naib Subedar Sher Singh Yadav (JC-642018P), 01 Sep 2006

Naib Subedar Daddan Singh (JC-641968X), 01 Sep 2006

Naib Subedar Anil Chandra Das (JC-642022X), 01 Sep 2006

To be Naib Subedar Clerk (GD)

Hav Vijay Singh (No. 6379146W now JC-664012N), 24 Apr 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Surinder Kumar (No. 6379031H now JC-664053X), 30 May 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub wef 31 Dec 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Kalyan Singh (No. 6379674A now JC-663978F), 03 Apr 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Tarun Kumar Ghosh (No. 6379839N now JC-663979K), 01 Apr 2006

Hav Bihari Lal (No. 6379116Y now JC-663980Y), 01 Apr 2006

Hav Sheo Muni Singh (No. 6378788Y now JC-663981F), 03 Apr 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances)

#### ANIMAL TRANSPORT

To be Substantive Naib Risaldar (ASH/AT)

Dfr P K Behera (No. 6471730N now JC-680924W), 05 May 2006/11 Mar 2006\*

Dfr M Z Rehman (No. 6472408N now JC-680925Y), 02 Jun 2006/11 Mar 2006\*

Dfr Bhupen Chander Das (No. 6471741A now JC-680926F), 30 Mar 2006/11 Mar 2006\*

Dfr Gulzar Singh (No. 3382242N now JC-680927K), 15 Jun 2006/11 Mar 2006\*

Dfr Ganesh CH Das (No. 6472668Y JC-680928M), 06 Jun 2006/11 Mar 2006\*

Dfr Tandle Vithal Dhondiba (No. 6472804K now JC-680929P), 19 Jun 2006/11 Mar 2006\*

Dfr Surender Prasad (No. 6379398H now JC-680930K), 05 Jun 2006/11 Mar 2006\*

Dfr P S Gulab (No. 6472636W now JC-680931M), 11 May 2006/11 Mar 2006\*

To be Substantive Naib Subedar (SHGD)

Dfr N H Khan (No. 6375586M now JC-680954N), 02 Jun 2006/22 Apr 2006\*

\*(Gtd ante-date seniority without effect on pay and allces wef)

#### REGULAR ARMY

##### ARMY POSTAL SERVICE CORPS

Warrant Officers to be Nb Sub (Postal)

WO Mohan Singh Bonal (No. 8368382K now JC-834635M), 29 Apr 2006\*

WO Prakash Chandra Pandey (No. 8372448M now JC-834636P), 13 Apr 2006\*

WO Ganipa Krishna Rao (No. 8375431K now JC-834637X), 27 Mar 2006\*

WO Uma Kant Shakyawar (No. 8375484H now JC-834638A), 04 Apr 2006\*

WO Musafir Singh (No. 8368818K now JC-834639H), 03 Apr 2006\*

WO Vidya Sagar Bansal (No. 8373522P now JC-834640X), 05 Apr 2006\*

WO Raja Ram Kori (No. 8371500X now JC-834641A), 08 Apr 2006\*

WO Chandra Singh Brijwal (No. 8371499N now JC-834642H), 22 Apr 2006\*

WO Sheodan Singh (No. 8369008N now JC-834643L), 01 May 2006\*

WO Shailendra Kumar Upreti (No. 8369642W now JC-834644N), 04 Apr 2006\*

WO Bishan Dass (No. 8373860M now JC-834645W), 22 Apr 2006\*

WO Mahendra Singh (No. 8371225H now JC-834646Y), 18 Sep 2006\*

WO Anant Kulkarni (No. 8373743F now JC-834647F), 27 Mar 2006\*

WO Devendra Singh (No. 8370245K now JC-834648K), 15 May 2006\*

WO Musafir Singh Yadav (No. 8371486W now JC-834649M), 23 Mar 2006\*

WO Jaideo Singh (No. 8369592W now JC-834650F), 13 Apr 2006\*

WO Gangadharayya Hiremath (No. 8367416A now JC-834651K), 07 Apr 2006\*

WO Krishan Kumar (No. 8368879F now JC-834652M), 31 Jul 2006\*

WO Kuldeep Singh Malhotra (No. 8372151L now JC-834653P), 28 Mar 2006\*

WO Jagender Kumar Sharma (No. 8370706H now JC-834654X), 27 Mar 2006\*

WO Qadir Mohammad Siddiqui (No. 8373597M now JC-834655A), 06 Jul 2006\*

WO Babu Ram (No. 8368786M now JC-834656H), 06 Jul 2006\*

WO Nirmal Pal (No. 8368789A now JC-834657L), 01 May 2006\*

WO Bir Singh (No. 8371434A now JC-834658N), 27 Mar 2006\*

WO Mahesh Pal (No. 8368589K now JC-834659W), 21 Apr 2006\*

WO Suryadev Rai (No. 8371421H now JC-834660L), 12 Apr 2006\*

WO Manik Chand (No. 8371551L now JC-834661N), 24 May 2006\*

WO Umesh Chander (No. 8370977A now JC-834662W), 23 Mar 2006\*

WO Ram Swarath Udai Yadav (No. 83171257L now JC-834663Y), 19 Apr 2006\*

WO Anil Kumar Gupta (No. 8371229Y now JC-834664F), 05 Apr 2006\*

WO Satpal Sandhu (No. 8372688K now JC-834665K), 10 May 2006\*

WO Nand Kishore Mishra (No. 8368929F now JC-834666M), 08 May 2006\*

WO Jeewan Singh (No. 8369403F now JC-834667P), 29 Apr 2006\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk Vijay Kumar (No. 8430767M now JC-834668X), 01 Apr 2006S

\$(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances)

WO Shaikh Isak Imambhai (No. 8371774H now JC-834669A), 10 Aug 2006%

%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 11 May 2006 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk N Murugan (No. 8028478L now JC-834670P), 01 Jul 2006&

&(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2006 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk Kanheya Lal (No. 8430179Y now JC-834671X), 08 Jul 2006#

#(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Jul 2006 without effect on pay and allowances)

T. K. M. PILLAI  
Under Secy

No. 27, dated 19th December 2006—The President is pleased to make the following promotions :—

# REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

### (ARMY MEDICAL CORPS)

Surg Cmde (& equivalent) to be Maj Gen (& equivalent)

(MR-02873K) Subroto Kundu, 27 Jun 2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 May 2005

Surg Cdr (& equivalent) to be Surg Capt (& equivalent)

MR-03963X (75329) Surg Capt George Verghese, 21 Sep 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 06 Apr 2006

MR-04706M (75316) Surg Capt Pratap Tomar, 16 Sep 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Jun 2006

MR-04056K (75250) Surg Capt PR Nair, 26 Sep 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 09 Sep 2006

MR-05226P (75272) Surg Capt VK Mohindra, 23 Sep 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 17 Sep 2006

MR-04147N (75256) Surg Capt AA Pawar, 01 Oct 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 20 Sep 2006

### Capt to be Major

Anil Kumar (MR-07987Y), AMC, 18 Jan 2005

Harish S (MR-08236K), AMC, 15 Feb 2006

Bidhan Roy (MR-08230H), AMC, 18 Feb 2006

Vijay Singh Kathait (MR-08222K), AMC, 20 Feb 2006

Amol Nandkumar Patel (MR-08232N), AMC, 07 Mar 2006

Vijay Singh Chandel (MR-08234Y), AMC, 02 Apr 2006

### Sqn Ldr to be Wg Cdr

Alka (MR-7959M), AMC, (AF-224815), 16 Dec 2004

MA Khan (MR-06511A), AMC (AF-22353A), 16 Dec 2004

R Gangavatiker (MR-06353W), AMC (AF-21800K), 16 Dec 2004

SS Shouche (MR-06415L), AMC (AF-20966B), 16 Dec 2004

BK Gupta (MR-06414H), AMC (AF-20961F), 16 Dec 2004

RK Nigam (MR-07056), AMC (AF-22478S), 16 Dec 2004

Medhatithi Mukherjee (MR-06594W), AMC (AF-22492G), 16 Dec 2004

(Mrs) S Sampath (MR-06508A), AMC (AF-22351N), 16 Dec 2004

Ritam Bidwai (MR-06347H), AMC (AF-21797S), 16 Dec 2004

Abhijit Mandal (MR-07062H), (AF-23067S), 22 Jan 2005

Bhaswar Kumar Paul (MR-07443K), AMC (AF-23154T), 8 Feb 2005

Arun Kumar Srivastava (MR-06696M, AMC (AF-23151H), 27 Feb 2005

BK Varghese (MR-06559N), AMC (AF-22502F), 07 Jun 2005

PKM Shenoy (MR-06557H), AMC (AF-22500S), 07 Jun 2005

AKA Basir (MR-07199P), AMC (AF-23073), 05 Aug 2005

Sulekha Singhal (MR-07313F), AMC (AF-23422S), 28 Sep 2005

Alok Agarwal (MR-06560H), AMC (AF-22503H), 07 Jun 2005

Mandeep Singh (MR-06512H), AMC (AF-22354F), 16 Dec 2004

K S Pramod Chandra (MR-06605), AMC (AF-22494N), 16 Dec 2004

NK Saidha (MR-06412X), AMC (AF-20995N), 16 Dec 2004

Harish Rawat (MR-06660N), AMC (AF-23068L), 22 Jan 2005

Raghav Talwar (MR-06246), AMC (AF-21387B), 12 Dec 2004

Rajesh Kumar (MR-06589L), AMC (AF-22490T), 16 Dec 2004

VR Mujeeb (MR-06554), AMC (AF-22497F), 07 Jun 2005

GS Bhatia (MR-06618), AMC (AF-23059K), 20 Dec 2005

Flt Lt to be Sqn Ldr

Deepanjan Dey (MR-07481A), AMC (AF-26046A), 13 Jul 2005

Madhusudana HN (MR-08118W), AMC (AF-26495), 21 Jan 2006

Ashutosh Arya (MR-07523F), AMC (AF-26463K), 05 Feb 2006

Vivek Kumar (MR-07524K), AMC (AF-26404N), 05 Feb 2006

Amit Gaur (MR-07558X), (AF-26466A), 05 Feb 2006

RAJESH KAMRAN  
Brig  
Dy DGAFMS (Pers.)

No. 28, dated 19th December 2006—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

Maj to Lt Col

IC No., Name, ARM

40848 APS Johal, Arty, 16 Dec 2004

SHIV RAM BAIRWA

Dy Dir  
MS 8C

#### MILITARY SECRETARY'S BRANCH

No. 29, dated 18th December 2006—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

To be Substantive Brigadier

SI No., IC No., RA NK, Name, Arm, D. O. Subs Brig

IC-27671 Col Joshi MK, INT, 01 May 2005

IC-33443 Col Shard RC, Guards, 01 May 2005

IC-33692 Col Dhillon BS, AC, 01 May 2005

IC-33693 Col Prakash Ajai, Garh Rif, 01 May 2005

IC-33702 Col Prashad Shakti, Jakli, 01 May 2005

IC-33703 Col Chopra KK, VSM, Dogra, 01 May 2005

IC-33704 Col Yadav JN, AAD, 01 May 2005

IC-33765 Col Joshi AK, VSM, JAG, 01 May 2005

IC-33810 Col Yadav DN, SM, Arty, 01 May 2005

IC-33825 Col Marta Jitender AAD, 01 May 2005

IC-33827 Col Sharma Sumesh, Sigs, 01 May 2005

IC-33834 Col Sharma YN, AAD, 01 May 2005

IC-33861 Col Jairam GS, Gren, 01 May 2005

IC-33887 Col Surinder Singh, VSM, AOC, 01 May 2005

IC-33994 Col Jagdev JS, SM, Jat, 01 May 2005

IC-36022 Col Malhotra Rajesh, ASC, 01 May 2005

IC-36220 Col Lidder VS, Sigs, 01 Jun 2005

IC-30997 Col Bakshi AK, VSM, Bihar, 01 Jun 2005

IC-30998 Col Sumer Singh, Sikh, 01 Jun 2005

- IC-31003 Col Ramchandani AA, AAD, 01 Jun 2005
- IC-31005 Col Ram, AK, Raj Rif, 01 Jun 2005
- IC-31008 Col Dhillon SS, Dogra, 01 Jun 2005
- IC-31009 Col Kadian DS, Engrs, 01 Jun 2005
- IC-31011 Col Naik VK, KC, Garh Rif, 01 Jun 2005
- IC-31012 Col Tharakan YC, Sigs, 01 Jul 2005
- IC-31013 Col Singh DP, AOC, 01 Jul 2005
- IC-31014 Col Saxena VK, AAD, 01 Jul 2005
- IC-31016 Col Sunder Subrahmanyam, AAD, 01 Jul 2005
- IC-31020 Col Kushwaha MK, Mahar, 01 Jul 2005
- IC-31021 Col Sharma RC, EME, 01 Dec 2005 with seniority from 01 Jul 2005 without effect on pay and pension
- IC-31022 Col Raghavan V, 4 GR, 01 Jul 2005
- IC-31023 Col Sandhu GS, Arty, 01 Jul 2005
- IC-31034 Col Sharma RK, SM, Jat, 01 Jul 2005
- IC-31047 Col Puri KS, ASC, 01 Jul 2005
- IC-31050 Col Ghosh Abhimanyu, Sigs, 01 Aug 2005
- IC-31052 Col Gurung Shakti, Gren, 01 Aug 2005
- IC-31059 Col Chawla HC, AOC, 01 Aug 2005
- IC-31062 Col Mahajan SH, VSM, MLI, 01 Aug 2005
- IC-31064 Col Grewal DS, 43 AR, 01 Aug 2005
- IC-31065 Col Tiwari PD, Arty, 01 Aug 2005
- IC-31066 Col Mathur MK, SM, Raj Rif, 01 Aug 2005
- IC-31070 Col Chaudhary SBS, AOC, 01 Aug 2005
- IC-31072 Col Yadu Pradeep, Engrs, 01 Aug 2005
- IC-31077 Col SEM Ajay SM, Mech Inf, 01 Aug 2005
- IC-31083 Col Gill Baljeet Singh, Arty, 01 Aug 2005
- IC-31097 Col Ray SB, AOC, 01 Aug 2005
- IC-31110 Col Tulsi SPS, AOC, 01 Aug 2005
- IC-31118 Col Sachar BS, VSM, Punjab, 01 Aug 2005
- IC-31120 Col Mathai George, 9 GR, 01 Aug 2005
- IC-31124 Col Bhatt VK, Sigs, 01 Mar 2006 with seniority from 01 Aug 2005 without effect on pay and pension
- IC-31125 Col Singh AP, Dogra, 01 Sep 2005
- IC-31131 Col Menon PVK, AOC, 01 Sep 2005
- IC-31134 Col Moorthy Gautam, AOC, 01 Sep 2005
- IC-31135 Col Rajagopal V, Engrs, 01 Sep 2005
- IC-31144 Col Mahajan HH, YSM, MLI, 01 Sep 2005
- IC-31155 Col Bhat Deepak Govind, Arty, 01 Sep 2005
- IC-31156 Col Dinshaw Gaeve, ASC, 01 Sep 2005
- IC-31183 Col Alex JP, JAK LI, 13 Sep 2005
- IC-31212 Col Kaushal RK, Dogra, 01 Oct 2005
- IC-31218 Col Vinayak Ramnarayan, AAD, 01 Oct 2005
- IC-31245 Col Rajbir Singh, AEC, 01 Nov 2005 with seniority from 01 Oct 2005 without effect on pay and pension
- IC-34646 Col Banerjee Anirudh, EME, 01 Dec 2005 with seniority from 01 Oct 2005 without effect on pay and pension
- IC-34648 Col Jain SC, EME, 01 Dec 2005 with seniority from 01 Oct 2005 without effect on pay and pension
- IC-34653 Col Agarwal ML, Engrs, 01 Oct 2005
- IC-34664 Col Pal Shri, Engrs, 02 Oct 2005
- IC-34670 Col Balwinder Singh, Engrs, 09 Oct 2005
- IC-34677 Col Tandon VM, Engrs, 25 Oct 2005
- IC-34687 Col Dasaka SS, Engrs, 01 Nov 2005
- IC-34706 Col Khaire RM, Sigs, 01 Nov 2005
- IC-34728 Col Sharma Surinder, Engrs, 01 Nov 2005
- IC-33909 Col Lewis RA, Mech Inf, 01 Nov 2005
- IC-33914 Col Pillai VK, Rajput, 01 Nov 2005
- IC-33918 Col Nigam G, Mech Inf, 01 Nov 2005
- IC-33919 Col Pradhan RS, SM, VSM, Para, 01 Nov 2005
- IC-33921 Col Singh AK, Punjab, 01 Nov 2005
- IC-33970 Col Prahlad Singh, Dogra, 01 Nov 2005
- IC-33982 Col Dogra N, AOC, 01 Dec 2005
- IC-33984 Col Yadav JS, JAG, 01 Dec 2005
- IC-33989 Col Sodhi Naveen, 63 CAV, 01 Dec 2005
- IC-36021 Col Hussain MI, AOC, 01 Dec 2005
- IC-36046 Col Chib PS, SM, Punjab, 01 Dec 2005
- IC-36119 Col Khajuria SK, VSM, 5 GR, 01 Dec 2005
- IC-36138 Col Mathew PM, Sikh LI, 01 Dec 2005
- IC-36194 Col Sampat Krishna, 85 AR, 01 Dec 2005
- IC-36200 Col Pama BS, 3 GR, 11 Dec 2005
- IC-36222 Col Marwaha Virendra, ASC, 24 Dec 2005

|  |   |
|--|---|
| IC-36262 Col Sud SK, AAD, 01 Jan 2006                  | IC-31360 Col Chohan SS, Arty, 01 Apr 2006                 |
| IC-36269 Col Nandal AS, 5 GR, 01 Jan 2006              | IC-31392 Col Prakadan MJ, 1 GR, 01 Apr 2006               |
| IC-36294 Col Bawa Navtej Singh, Arty (GC), 01 Jan 2006 | IC-31399 Col Randhawa GS VSM, Arty, 10 Apr 2006           |
| IC-36332 Col Singh DR, SM, VSM, Mahar, 01 Jan 2006     | IC-31403 Col Upadhyay BD, AC, 10 Apr 2006                 |
| IC-36337 Col Oberoi AK, Arty (GC), 01 Jan 2006         | IC-31404 Col Saxena AK, AOC, 01 May 2006                  |
| IC-36388 Col Suresh Ramachanran, Arty, 01 Jan 2006     | IC-31418 Col Devadoss JM, SM, Sikh, 01 May 2006           |
| IC-36390 Col Samuel Clement P SM, MLI, 01 Jan 2006     | IC-31420 Col Mehta AK, 84 AR, 01 May 2006                 |
| IC-36391 Col Bhullar KAS, 16 CAV, 01 Jan 2006          | IC-31424 Col Tiwari BP, ASC, 01 May 2006                  |
| IC-36403 Col Gahlaut AS, Dogra, 01 Jan 2006            | IC-31446 Col Chopra RS, Arty (GC), 01 May 2006            |
| IC-36404 Col Lahiri SK, Engrs, 01 Feb 2006             | IC-31447 Col Manjit Singh, Guards, 01 May 2006            |
| IC-36412 Col Raina Ajay, Guards, 01 Feb 2006           | IC-31448 Col Sachdev Rajiv, ASC, 01 May 2006              |
| IC-36413 Col Raj I A, Green, 01 Feb 2006               | IC-31461 Col Bhattacharjee AK, VSM, Engrs, 01 May 2006    |
| IC-36484 Col Narang GS, Arty, 01 Feb 2006              | IC-31468 Col Jha SK, 4 GR, 01 May 2006                    |
| IC-36502 Col Rai Charanjit, AOC, 01 Feb 2006           | IC-31480 Col Manoharan Venkatraman, Garh Rif, 01 May 2006 |
| IC-31631 Col Parab ASR, 52 AR, 01 Feb 2006             | IC-31492 Col Majumdar K, Mahar, 01 May 2006               |
| IC-31323 Col Madhok S, Mech Inf, 01 Feb 2006           | IC-31498 Col Pahwa PPS, VSM, Arty, 01 May 2006            |
| IC-31324 Col Surendranath K, SM, 71 AR, 01 Feb 2006    | IC-31499 Col Kelkar SS, Engrs, 01 May 2006                |
| IC-31326 Col Datta Rajesh, EME, 01 Feb 2006            | IC-31502 Col Deo AS, Arty, 02 May 2006                    |
| IC-31327 Col Ranbir Singh, SM, Bihar, 01 Mar 2006      | IC-31505 Col Mitra Subroto, SM, Madras, 08 May 2006       |
| IC-31331 Col Divekar RG, Engrs (GC), 01 Mar 2006       | IC-31509 Col Gurmeet Singh, EME, 23 May 2006              |
| IC-31332 Col Sidhu MS, Arty, 01 Mar 2006               | IC-31521 Col Kulkarni SH, VSM, 75 AR, 24 May 2006         |
| IC-31333 Col Dwivedi V, Engrs, 01 Mar 2006             | IC-31528 Col Sanyal PK, MLI, 01 Jun 2006                  |
| IC-31335 Col Dhillon HS, Dogra, 01 Apr 2006            | IC-31532 Col Sisodia GS, Sikh, 01 Jun 2006                |
| IC-31336 Col Jog SS, VSM, 5 GR, 01 Apr 2006            | IC-35025 Col Varma BB, EME, 01 Jun 2006                   |
| IC-31339 Col Singh UP, Bihar, 01 Apr 2006              | IC-35036 Col Kohli NK, Sigs, 01 Jun 2006                  |
| IC-31341 Col Anand Sanjeev, Mech Inf, 01 Apr 2006      | IC-35040 Col Mittal RM, Engrs, 01 Jun 2006                |
| IC-31344 Col Dahat SS, Sigs, 01 Apr 2006               | IC-35049 Col Joshi SP, Sigs, 01 Jun 2006                  |
| IC-31348 Col Bakhshi Rajan, ARMD, 01 Apr 2006          |   |
| IC-31351 Col Singh Raj Nandan, SM, Assam, 01 Apr 2006  |   |

N K PHUKAN  
Jt Dir/MS(X)

#### DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 30, dated 20th December 2006—The President is pleased to promote the following officers from their existing grade to the next grade wef 01 Sep 2006 (F/N) as mentioned against each :—

| Name                     | Lab/<br>Estt | Existing Grade | Promoted to | Pay Scale of Promoted Grade |
|--------------------------|--------------|----------------|-------------|-----------------------------|
| 1                        | 2            | 3              | 4           | 5                           |
| S/Shri<br>AS Neseeroddin | VRDE         | TO 'CE'        | TO 'D'      | Rs. 12,000-375-16,500/-     |
| VG Nair                  | VRDE         | TO 'B'         | TO 'C'      | Rs. 10,000-325-15,200/-     |



| 1                | 2    | 3      | 4      | 5                       |
|------------------|------|--------|--------|-------------------------|
| S/Shri           |      |        |        |                         |
| UC Tiwari        | VRDE | TO 'B' | TO 'C' | Rs. 10,000-325-15,200/- |
| PP Mahajan       | VRDE | TO 'B' | TO 'C' | --do--                  |
| SS Anwar         | RDE  | TO 'B' | TO 'C' | --do--                  |
| JI Kamble        | RDE  | TO 'B' | TO 'C' | --do--                  |
| VV Pawar         | RDE  | TO 'B' | TO 'C' | --do--                  |
| VR Gujar         | RDE  | TO 'B' | TO 'C' | --do--                  |
| SK Bandi         | RDE  | TO 'B' | TO 'C' | --do--                  |
| CS Joseph        | DIAT | TO 'B' | TO 'C' | --do--                  |
| N Moreshwar Raju | DIAT | TO 'B' | TO 'C' | --do--                  |
| NP Mule          | DIAT | TO 'A' | TO 'B' | Rs. 8,000-275-13,500/-  |
| BP Rasal         | DIAT | TO 'A' | TO 'B' | --do--                  |
| UV Wani          | VRDE | TO 'A' | TO 'B' | --do--                  |
| NA Bammare       | VRDE | TO 'A' | TO 'B' | --do--                  |
| SC Srivastava    | VRDE | TO 'A' | TO 'B' | --do--                  |
| BV Bhonde        | VRDE | TO 'A' | TO 'B' | --do--                  |
| AP Zarekar       | VRDE | TO 'A' | TO 'B' | --do--                  |
| RB Andhale       | VRDE | TO 'A' | TO 'B' | --do--                  |
| KS Sable         | VRDE | TO 'A' | TO 'B' | --do--                  |
| AM Triwedi       | VRDE | TO 'A' | TO 'B' | --do--                  |
| SM Tikotkar      | VRDE | TO 'A' | TO 'B' | --do--                  |
| GS Hiremath      | RDE  | TO 'A' | TO 'B' | --do--                  |
| RR Polkamwar     | RDE  | TO 'A' | TO 'B' | --do--                  |
| CM Adhale        | RDE  | TO 'A' | TO 'B' | --do--                  |
| SS Bagul         | RDE  | TO 'A' | TO 'B' | --do--                  |
| AJ Gaikwad       | RDE  | TO 'A' | TO 'B' | --do--                  |
| GS Mahajan       | RDE  | TO 'A' | TO 'B' | --do--                  |
| DK Mandhare      | RDE  | TO 'A' | TO 'B' | --do--                  |
| PT Deshmukh      | RDE  | TO 'A' | TO 'B' | --do--                  |
| N Padma Kumari   | DLRL | TO 'C' | TO 'D' | Rs. 12,000-375-16,500/- |
| P Kalavathi      | DLRL | TO 'B' | TO 'C' | Rs. 10,000-325-15,200/- |
| N Rama Devi      | DLRL | TO 'B' | TO 'C' | --do--                  |
| G Paran Jyothi   | DLRL | TO 'B' | TO 'C' | --do--                  |
| P Bhagyalakshmi  | DLRL | TO 'B' | TO 'C' | --do--                  |
| MRS Subrahmanyam | DLRL | TO 'B' | TO 'C' | --do--                  |
| AV Ramana Kumari | DLRL | TO 'B' | TO 'C' | --do--                  |

| 1                     | 2    | 3      | 4      | 5                       |
|-----------------------|------|--------|--------|-------------------------|
| S/Shri                |      |        |        |                         |
| M Jyothishwar Rao     | DLRL | TO 'B' | TO 'C' | Rs. 10,000-325-15,200/- |
| Y Siva Rama Krishna   | DLRL | TO 'B' | TO 'C' | --do--                  |
| KB Subbalakshmi       | DLRL | TO 'B' | TO 'C' | --do--                  |
| A Sudha               | DLRL | TO 'B' | TO 'C' | --do--                  |
| K Viyayalakshmi       | DLRL | TO 'B' | TO 'C' | --do--                  |
| N Leela Madhuri       | DLRL | TO 'B' | TO 'C' | --do--                  |
| B Radha Bai           | DLRL | TO 'B' | TO 'C' | --do--                  |
| B Yadagiri            | DLRL | TO 'A' | TO 'B' | Rs. 8,000-275-13,500/-  |
| MR Radhakrishna       | DLRL | TO 'A' | TO 'B' | --do--                  |
| CH Gopalakrishna      | DLRL | TO 'A' | TO 'B' | --do--                  |
| N Srinivasa Chary     | DLRL | TO 'A' | TO 'B' | --do--                  |
| V Sushama             | DLRL | TO 'A' | TO 'B' | --do--                  |
| B Chandrakala         | DLRL | TO 'A' | TO 'B' | --do--                  |
| K Visalakshi          | DLRL | TO 'A' | TO 'B' | --do--                  |
| J Jayanthi Devi       | DLRL | TO 'A' | TO 'B' | --do--                  |
| Neeraja Gopi          | DLRL | TO 'A' | TO 'B' | --do--                  |
| Mulpuri Vijayalakshmi | DLRL | TO 'A' | TO 'B' | --do--                  |
| K Rajeshwar Rao       | RCI  | TO 'C' | TO 'D' | Rs. 12,000-375-16,500/- |
| Madhubala Dusaj       | RCI  | TO 'B' | TO 'C' | Rs. 10,000-325-15,200/- |
| A Jagadambal          | RCI  | TO 'B' | TO 'C' | --do--                  |
| K Jhansi Lakshmi      | RCI  | TO 'B' | TO 'C' | --do--                  |
| M Viyayasree          | RCI  | TO 'B' | TO 'C' | --do--                  |
| A Ramachandra Sharma  | RCI  | TO 'A' | TO 'B' | Rs. 8,000-275-13,500/-  |
| G Chennakesava Rao    | RCI  | TO 'A' | TO 'B' | --do--                  |
| S Kedarnath           | RCI  | TO 'A' | TO 'B' | --do--                  |
| KR Meghasyam          | ASL  | TO 'C' | TO 'D' | Rs. 12,000-375-16,500/- |
| V Emmanuel            | ASL  | TO 'B' | TO 'C' | Rs. 10,000-325-15,200/- |
| K Yadi Reddy          | ASL  | TO 'B' | TO 'C' | --do--                  |
| K Bala Krishna        | ASL  | TO 'B' | TO 'C' | --do--                  |
| N Satyanarayana Rao   | ASL  | TO 'A' | TO 'B' | Rs. 8,000-275-13,500/-  |
| D Bhaskar             | ASL  | TO 'A' | TO 'B' | --do--                  |

2. The undermentioned individuals are promoted from STA 'C' to TO 'A' wef 01 Sep 2006 (F/N).

| Name                | Lab/<br>Estt | Existing Grade | Promoted to | Pay Scale of Promoted<br>Grade |
|---------------------|--------------|----------------|-------------|--------------------------------|
| 1                   | 2            | 3              | 4           | 5                              |
| S/Shri<br>KC Jain   | DRRL         | STA 'C'        | TO 'A'      | Rs. 7,450-225-11,500/-         |
| AM Manjula          | DRRL         | STA 'C'        | TO 'A'      | --do--                         |
| K Pandu             | DRRL         | STA 'C'        | TO 'A'      | --do--                         |
| A Satyanarayana     | ASL          | STA 'C'        | TO 'A'      | --do--                         |
| YSRK Subramanyam    | ASL          | STA 'C'        | TO 'A'      | --do--                         |
| B Nagmohan Rao      | RCI          | STA 'C'        | TO 'A'      | --do--                         |
| CVS Prasanna Kumari | RCI          | STA 'C'        | TO 'A'      | --do--                         |
| K Vijayasree        | RCI          | STA 'C'        | TO 'A'      | --do--                         |
| KM Usha             | RCI          | STA 'C'        | TO 'A'      | --do--                         |

2. The undermentioned individuals are promoted from STA 'C' to TO 'A' and TA 'C' to TO wef 01 Sep 2006 (F/N).

| Name                  | Lab/<br>Estt | Existing Grade | Promoted to | Pay Scale of Promoted<br>Grade |
|-----------------------|--------------|----------------|-------------|--------------------------------|
| 1                     | 2            | 3              | 4           | 5                              |
| S/Shri<br>RN Waghmare | RDE          | STA 'C'        | TO 'A'      | Rs. 7,450-225-11,500/-         |
| MR Tribhuvan          | RDE          | STA 'C'        | TO 'A'      | --do--                         |
| SS Lonkar             | RDE          | STA 'C'        | TO 'A'      | --do--                         |
| PB Dhavalekar         | RDE          | STA 'C'        | TO 'A'      | --do--                         |
| DR Madbal             | RDE          | STA 'C'        | TO 'A'      | --do--                         |
| VS Bhosale            | RDE          | STA 'C'        | TO 'A'      | --do--                         |
| MH Ghodekar           | RDE          | STA 'C'        | TO 'A'      | --do--                         |
| NK Garia              | RDE          | STA 'C'        | TO 'A'      | --do--                         |
| NB Adik               | VRDE         | STA 'C'        | TO 'A'      | --do--                         |
| DE Girme              | VRDE         | STA 'C'        | TO 'A'      | --do--                         |
| SK Kulange            | VRDE         | STA 'C'        | TO 'A'      | --do--                         |
| VU Mendre             | VRDE         | STA 'C'        | TO 'A'      | --do--                         |
| RG Bhandare           | VRDE         | STA 'C'        | TO 'A'      | --do--                         |

2. The undermentioned individuals are promoted from STA 'C' to TO 'A' wef 25 Sep 2006 (F/N).

| Name              | Lab/<br>Estt | Existing Grade | Promoted to | Pay Scale of Promoted<br>Grade |
|-------------------|--------------|----------------|-------------|--------------------------------|
| 1                 | 2            | 3              | 4           | 5                              |
| S/Shri<br>BS Pund | VRDE         | STA 'C'        | TO 'A'      | Rs. 7,450-225-11,500/-         |

The President is pleased to promote the following officer from their existing grade to the next grade wef 04 Oct 2006 (F/N) as mentioned against each :—

| Name                       | Lab/<br>Estt | Existing Grade | Promoted to | Pay Scale of Promoted<br>Grade |
|----------------------------|--------------|----------------|-------------|--------------------------------|
| 1                          | 2            | 3              | 4           | 5                              |
| S/Shri<br>NGBV Vara Kumari | DRL          | TO 'B'         | TO 'C'      | Rs. 10,000-325-15,200/-        |

BB SHARMA  
Jt Dir (Pers-I)

No. 31, dated 20th December 2006—The President is pleased to make the following promotions :—

The following Senior Store Officers Gde-I to be Chief Admin. Officer on ad hoc basis against a short term vacancy with effect from 01 Sept 2006 (F/N) to 31 Dec. 2006 in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- :—

| Sl. No. | Name              | Estt/Lab                        |
|---------|-------------------|---------------------------------|
| 1.      | Shri M. C. Tanwar | Dte of MM, DRDO HQ<br>New Delhi |
| 2.      | Shri S. P. Sarkar | NSTL, Visakhapatnam             |

Shri Nishit Topno, Sc 'B' of RCMA, C/o HAL, Hyderabad to be Scientist 'C' in the Defence Research & Development Service wef 01.07.2006 in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/-.

P. SARATH  
Jt Dir (Pers)

#### AIR FORCE

No. 32, dated 19th December 2006—The President is pleased to make the following substantive promotions :—

#### INDIAN AIR FORCE

WG CDR to be Substantive GP (Capt) TS)

#### F(P) BRANCH

Y Singh (No. 15013), RS Mann (15434), wef 16 December 2004

#### F(N) BRANCH

AK Singh (15326), wef 16 Dec 2004

#### ADM BRANCH

PK Nambiar (13874), R Srivastava (15234), RK Misra (13001), SK Pathak (13648), wef 16 Dec 2004

#### LGS BRANCH

H L Narang (14518), wef 16 Dec 2004

#### AE(M) BRANCH

HS Mavi (15842), wef 16 Dec 2004

Sqn Ldr to be Substantive WG CDR

#### F(P) BRANCH

P Sahu (16413), wef 16 Dec 2004

#### ADM BRANCH

NP Ragesh (18139), wef 16 Dec 2004

#### LGS BRANCH

D Chakraborty (16224), wef 16 Dec 2004

#### AE(L) BRANCH

S Sharma (22041), wef 16 Dec 2004

## SHORT SERVICE COMMISSION

Flt to be Substantive Sqn Ldr

F(P) BRANCH

(Mrs.) Cheryl Dutta (23834), wef 16 Dec 2004

ADM BRANCH

(Mrs) Prem Vandana (25186), wef 16 Dec 2004

Fg Offr to be Substantive Flt Lt

AE(L) BRANCH

(Ms) Elipay Paramjyoti (26677), wef 16 Dec 2004

S SRIVASTAV

Wg Cdr

JDPO-3 (D)

## RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 33, dated 15 December 2006—On attaining the age of superannuation viz. 60 years, Shri Ved Parkash, PS of R&D Orgn retired from Govt. Service wef 31 Oct 2006 (Transferred to Pension Establishment wef 01 Nov 2006).

On attaining the age of superannuation viz 60 years, Smt. Shanti, Section Officer, R&D Organisation retired from service wef 30 Nov 2005 (Transferred to pension Establishment wef 01 Dec 2005.)

N. MARIAPPAN

Dy. Chief Admin. Officer (A)